

DCWC Newsclip

Vol XX

Issue 8

August 2014



Child Trafficking



Save The Girl Child

Universal Immunization Programme



Toilet Facility - Govt. Schools



Juvenile Justice



2014

Documentation Centre on Women and Children (DCWC)
National Institute of Public Cooperation
and Child Development (NIPCCD)
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas
New Delhi - 110016

DCWC Newsclip

About the Document

DCWC receives about 23 newspapers (including 9 Hindi newspapers) published from different regions of the country. Important news items, including various schemes and programmes of Government of India focusing on women and children issues are picked and arranged subjectwise under broad heads and sub-heads. These are collated monthly as `DCWC Newsclip`. Its digital version is posted on the NIPCCD website (www.nipccd.nic.in) on the slot dedicated for Documentation Centre on Women and Children for reference of readers.

CONTENTS

<i>Subject</i>	<i>Page No.</i>
1. Child Welfare	
1.1 Child Protection (Juvenile Age/Child Trafficking/Child Adoption/Missing Children/Child Rights/Child Abuse/Juvenile Crime/Crime against Children/Substance Abuse-Street Children)	1
1.2 Role of Civil Society/Statutory Bodies/Civil Society Initiative (DCPCR Initiative-Khoj)	10
1.3 Education/Education System (Sanskrit Language-KV Schools/Health Education-School Curriculum/New Guidelines-Primary Classes/Child-friendly Education/Value Education/Toilet & Water Facility -Schools/Awareness Programme-Good Touch and Bad Touch/Road Safety-School Curriculum)	11
1.4 Girl Child/Child Sex Ratio/Female Foeticide (Child Sex Ratio-Haryana/Save the Girls Child/Female Foeticide/Girl Child Sex Ratio)	16
1.5 Child Welfare-other issues (Registration-Child Adoption/Cyber Bulling)	20
2. Health and Nutrition issues	
2.1 Child/Adolescent (Ebola/Tuberculosis/Diarrhoea/Rubella Vaccination Programme/Universal Immunisation Programme)	21
2.2 Mental Health/ Behavior Problems	
2.3 Nutrition/Malnutrition/ Dietary patterns	25
2.4 Women Health/Reproductive Health (Breast Feeding/Breast Cancer/Hepatitis-B)	26
2.5 Health and Nutrition - other issues (e-Healthcare Service//World Breast Feeding Week/Health Facilities for Everyone/Vaccine against Rotavirus/Abortion Death/Kala-azar)	29
3. Women/Gender issues	
3.1 Women Empowerment (Mahila Bank/ Female Commando-Delhi Metro/Women Reservation-Police Force)	34
3.2 Marriage/Dowry/Divorce (Registration of Marriages/Dowry/Child Marriage)	37
3.3 Violence and Crime against Women (Rape Cases)	39
3.4 Women in difficult Circumstances /Women in Distress (Night Shelter for Women)	43
3.5 Women Safety/Support Services (Woman Security-Helpline/Mobile Apps-Safe Hands/Women Cops on Wheels/Women Safety Guidelines/Woman Helpline/Woman Safety-Mobile Apps)	44
3.6 Women -other issues (Campaign-My Delhi Safe Delhi/We Care For You/Awareness on Sexual Offences/One Stop Centre-Rape Victims)	49

4. Demography and Vital Statistics

4.1 Census Data/Evaluation/Survey Reports (Annual Report-Registration of Births and Deaths) 52

4.2 Birth Rate/ Mortality Rate/ Morbidity Rate

4.3 Demography and other relevant statistics (Data on Abortions/Data on Crime against Woman/Data-Sexual Violence Offences/Data on Dowry Death/Data on Crime against Woman) 54

5. Schemes/ Programmes relating to Women and Children

5.1 Schemes/ Programmes (Scheme-Kanyasree/Beti Baccho,Beti Padhao/ MGNREGA / Baby Care Kit/Programme-Sarkar Aapke DwarMid Day Meal/ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) 57

5.2 Policies (Guidelines-Child Adoption/New Health Policy) 62

5.3 Legislation/Bills/ Court Orders (POCSO /JJAct/Immoral Trafficking Act/Family Laws/Live in Relationship) 63

5.4 Budget Allocation/Funding (Budget Allocation-Woman Safety Programme) 69

5.5 Schemes - Miscellaneous (Project-Shakti) 70

Source

<i>Amar Ujala(H)</i>	<i>Deccan Herald</i>	<i>Indian Express</i>	<i>Punjab Kesari (H)</i>
<i>Asian Age</i>	<i>Economic Times</i>	<i>Jansatta (H)</i>	<i>Rajasthan Patrika (H)</i>
<i>Assam Tribune</i>	<i>Free Press Journal</i>	<i>Lok Panchayat (H)</i>	<i>Rashtriya Sahara (H)</i>
<i>Dainik Jagran (H)</i>	<i>The Hindu</i>	<i>Mint</i>	<i>Statesman</i>
<i>Dainik Tribune (H)</i>	<i>Hindustan (H)</i>	<i>The Pioneer</i>	<i>Times of India</i>
<i>Deccan Chronicle</i>	<i>Hindustan Times</i>	<i>Nav Bharat Times (H)</i>	

1. Child Welfare

1.1 Child Protection (Juvenile Age/Child Trafficking/Child Adoption/Missing Children/Child Rights/Child Abuse/Juvenile Crime/Crime against Children/Substance Abuse-Street Children)

We must reform, not punish, juvenile offenders

Meenakshi Ganguly

Women and child development minister Maneka Gandhi's decision to focus immediate attention on ending sexual violence against women and girls is good news. However, knee-jerk solutions like death penalty for rapists and lowering the age of a juvenile from 18 to 16 will not help end sexual violence against women. It is easy and populist to argue that if a child's old enough to commit rape, he is surely old enough to be tried as an adult in the court of law. But this is not the right approach.

The fundamental philosophy of juvenile justice is that it should focus on reform rather than retribution. Children under 18 are not considered mature enough to vote or to marry. That same principle is applied in domestic law, which places children under a separate jurisdiction. India should not violate its commitments to protect the rights of its children to appease public opinion.

The Convention on the Rights of the Child, which India ratified in 1992, encourages the use of alternatives to incarceration to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate to their circumstance and the offence. The government should develop juvenile facilities that offer proper counselling and training to give children who commit serious crimes a chance to grow into responsible adults.

India has laws to protect women and children from sexual abuse. But the government still has to do a lot more to remove institutional barriers that prevent people from reporting sexual violence. It should create a well-trained and accountable police force that responds sensitively to complaints. It needs to build a functional victim and witness protection programme.

Instead of hasty measures, the government should make a commitment to effective law enforcement and the more difficult and lengthy steps needed to reform the criminal justice system. This will need concerted political will to invest in and train police, forensic specialists, counsellors, etc. And it means providing adequate resources for reformative institutions, protection services and courts.

Women and girls are in need of protection, but simply announcing greater punishment for juvenile offenders won't help.

Meenakshi Ganguly is South Asia director, Human Rights Watch

The views expressed by the author are personal

Hindustan Times, August 4, 2014, P. 10 (Juvenile Age)

Orphanage's goal was to ensure foreign funds: CB

Children were brought using forged papers

VR JAYARAJ ■ KOCHI

KERALA CHILD TRAFFICKING



Adding a new dimension to the mysterious incident of trafficking of hundreds of children from other States to orphanages run by Muslim managements in Kerala, the Crime Branch of the State police has told the High Court that the trafficking done by one of the institutions was to ensure smooth flow of foreign funds and grants to it.

The Crime Branch said in its probe progress report that the Muslim Orphanage at Mukkom in Kozhikode district, which was the destination of majority of the 486 children brought from Jharkhand, Bihar and West Bengal in May last, had done this to avoid division fall in the school associated with the institution which could have led to stoppage or decrease in the funds.

In order to avoid stoppage or decrease in volume of grants and foreign funds due to division fall in the school because of fall in the number of students, the orphanage management had brought the children from other States using forged documents, which included the identity papers of the children, the report said.

The child trafficking incident had come to light on May 24 after the Railway Protection Force detained 486 children from Palakkad Railway Station as they were being brought by train from Jharkhand, Bihar and West Bengal to the Muslim orphanages in Mukkom and Vettathur in Malappuram, a Muslim-majority district.

Neither the children nor those who were accompanying them were carrying proper documents that were received from the authorities of their States of origin which were required for inter-State transfer of children. The police had seized fake seals and letterheads of Jharkhand authorities from one of the 11 persons arrested in connection with the incident.

The Kerala Police had registered a case for human trafficking over the incident but the State Government argued that there was no element of human trafficking in it but it was a case of failure on part of the orphanages in complying with the formalities. The orphanages also had adopted this position.

The Crime Branch report submitted before the Court indicated that the Muslim Orphanage at Mukkom had not informed the Government about the foreign funds it had been receiving while seeking Government grant, a practice in violation of the rules as per which the size of Government grant would depend on the size of foreign funding.

The Crime Branch report has come at a time when the NIA is reportedly looking into the trafficking of 58 children to the orphanage in Vettathur from Malda, a West Bengal district bordering Bangladesh.

The Pioneer, August 1, 2014, P. 6 (Child Trafficking)

गोद लेने में लड़कियों को प्राथमिकता

नई दिल्ली (भाषा)। विदेशी दंपति गोद लेने में लड़कों की बजाए लड़कियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के बीच विदेशी दंपतियों ने 105 भारतीय बच्चों को गोद लिया जिसमें 72 लड़कियां और 33 लड़के थे। इसी तरह से अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के बीच 422 भारतीय बच्चों को अंतर देशीय गोद नीति के तहत गोद लिया गया जिसमें से 294 लड़कियां थीं। आंकड़ों के मुताबिक, गोद लेने वालों में अमेरिका के दंपतियों का शीर्ष स्थान है और इनकी पसंद लड़कियां रही हैं। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच अमेरिकी दंपतियों ने 42 बच्चों को गोद लिया जिसमें 33 लड़कियां थीं। स्पेन के दंपतियों ने 25 बच्चों को गोद लिया जिसमें सभी लड़कियां थीं। इस अवधि में इटली के दंपतियों ने 19 बच्चों को गोद लिया जिसमें 9 लड़कियां थीं। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के बीच अमेरिकी दंपतियों ने 155 बच्चों को गोद लिया जिसमें 119 लड़कियां और 36 लड़के शामिल हैं। इस अवधि में इटली के दंपतियों ने 98 भारतीय बच्चों को गोद लिया जिसमें 61 लड़कियां थीं। स्पेन के दंपतियों ने 42 बच्चों को गोद लिया जिसमें 26 लड़कियां थीं।

Rashtriya Sahara (H), August 11, 2014, P. 2 (Child Adoption)

A criminal neglect

Nearly 100,000 children go missing every year in India and no one seems to be losing sleep over it

If there is one incident that everyone remembers when the topic of missing children comes up, it is the one that happened in 2006 in Noida, Uttar Pradesh. The police recovered skeletons of children from a house in a residential area called Nithari. The children, mostly from poor families living around the area, were murdered by a local businessman Moninder Singh Pandher and his servant Surender Koli. They were both given the death sentence: While Koli is in jail, Pandher is out on bail. As the case was investigated, a startling fact came out: The local police did not pay heed to the parents of these children when they complained about their missing wards.

This lack of police support when such complaints happen is not new: According to experts, the law and order machinery in this country does not give any special focus on tracing missing children. So it was hardly surprising to see that the data on missing children that was placed by the home ministry in Parliament in July: Over 325,000 children went missing between 2011 and 2014 (till June) at an average of nearly 100,000 every year.

Children go missing for a number of reasons: Kidnapping by family or non-family members for trafficking purposes, for organ trade, runaway cases and children who are lost. In 2013, the Supreme Court had criticised the lack of interest the Central and state governments showed when it came to filing with its Bench the status of missing children. This lacklustre attitude towards this issue is not only criminal but also shows how little we care about the young of this country.

Hindustan Times, August 8, 2014, P. 14
(Missing Children)

SCPS initiative to protect child's rights

NEW DELHI, 2 AUG: In a bid to ensure protection of child rights, the State Child Protection Society (SCPS) has initiated welfare programmes to create awareness and disseminate information on child care protection related schemes, legislation and services available for children in difficult circumstances.

The SCPS is working towards developing Information Education and Communication (IEC) programmes on these issues. According to Satbir Silas Bedi, principal secretary, Social Welfare & Women and Child Development, Delhi Government, one of the most important objectives of the society is to contribute to the well-being of children in situations that need immediate attention.

"Children constitute the most vulnerable section of society and are considered a supreme asset of our nation. Every child has the inherent right to life, to be protected from violence, dangerous situations, abuse and neglect. Children have the right to education, to play and to express themselves freely," said Ms Bedi.

She said reaching out to every child in need of immediate intervention, care, respite and rehabilitation is the prime objective of the programme which calls for the collective efforts of all agencies, stakeholders, civil society, service delivery structure and communities.

"On an average about 6000 to 6800 children attend annually through different schemes and programmes of ICPS at the state level. Strong emphasis is laid on regular monitoring and inspection of all the homes and institutions to ensure quality care and services to the children," said Ms Bedi.

She added that on the basis of the monitoring visits, the agencies are made aware of the loopholes that need to be rectified. **sns**

The Statesman, August 3, 2014, P. 4
(Child Rights)

Maharashtra declares zero tolerance for child abuse

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, 10 August

Maharashtra will have a zero-tolerance approach towards child sexual abuse and all such cases will be taken up on priority while awareness would be raised about POCSO Act to nail offenders, a senior official has said.

The Maharashtra State Child Development department, the State Commission for Protection of Child Rights and the UNICEF jointly organised a workshop in the city last evening to create awareness on the provisions of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. "The state has declared zero tolerance towards child sexual abuse and all the recommendations and suggestions which we have received during this consultation programme will be converted into action points. The state will respond certainly and immediately in all cases of child sexual abuse," Mr Ujjwal Uke, Principal Secretary, Women and Child Development, said while addressing the workshop.



A large number of people in India are unaware of the POCSO Act and this makes the offenders go "scot free" after committing a crime, Mr Uke said.

"The number of cases of child sexual abuse has increased over the past few years but a large number of people are unaware of the provisions of the POCSO Act. Children being small are unable to describe their ordeal in detail, which only favours the offenders. But, parents should realise that offenders will be punished severely under this Act, if they come out and complain against such offenders," he said. We have to ensure that more people are educated about the provisions of the Act which will help us in ensuring harsh punishment for the offenders, thereby reducing the crimes against children. In the state, he said.

The Statesman, August 11, 2014, P. 7
(Child Abuse)

Cabinet okays bill seeking to try minors as adults for big crimes

PROVISION 16+ minors may face regular trial, but won't get life sentence or death

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The cabinet on Wednesday approved the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2014 that proposes treating minors older than 16 years as adults if charged with serious crimes such as rape. However, they would not be sentenced to life or death if found guilty.

According to the bill, the Juvenile Justice Board would decide whether a minor can be tried as an adult in a regular court. Currently, minor accused — under 18 years of age — are tried by the board and, if convicted, sent to a reform home for a maximum of three years. However, under stringent new rape laws, a convicted adult can be sentenced to life in prison — or even death in the case of a repeat offence.

The women and child development ministry, which is piloting the bill, is set to introduce it in the ongoing session of Parliament, sources said.

The law covering juvenile accused has been in focus since the December 2012 gang

rape of a 23-year-old woman in a moving bus in Delhi. One of the six accused was a minor at the time of the crime and is currently serving out his three-year sentence in a juvenile home. The incident had sparked nationwide outrage and led to numerous calls for harsher punishment for juveniles involved in such heinous crimes.

Government data shows involvement of juveniles in serious crimes has risen 65% in the last decade.

Just last month, Supreme Court had questioned the blanket immunity enjoyed by underage offenders and asked the government to consider reviewing the law. "You can't have a cut-off date for crime," it had said. The suggestion for a review came after women and child development minister Maneka Gandhi favoured treating underage accused of heinous crimes on par with adults.

Apart from the provision for minors to be tried as adults, the bill also makes corporal punishment and ragging criminal offences under law. Both could invite up to three years in jail, dismissal from service and a fine.

— DEFENCE FDI OKAYED, P9

Hindustan Times, August 7, 2014, P. 1
(Juvenile Age)

JUVENILE CRIME

Data suggests rising trend in crime among juveniles

Press Trust of India
 • reporters@hindatimes.com

NEW DELHI: The National Crime Records Bureau (NCRB) has registered a substantial increase in the number of cases against juveniles. What is disturbing is that there has been a 132 per cent increase in assault cases by juveniles against women.

The report also states that instances of rape by juveniles have increased by almost 60 per cent in the last year.

Minister for Women and Child Development Maneka Gandhi had favoured treating juveniles accused of heinous crimes like rape on par with adult offenders.

She said 50 per cent of all sexual crimes were committed by "16-year-olds who know the Juvenile Justice Act so they can do it".

"But now for premeditated murder, rape, if we bring them into the purview of the adult world, then it will scare them," she had said.

Former WCD Minister Krishna Tirath during the previous UPA regime had proposed that juveniles above 16 years guilty of heinous crimes be treated on a par with adult offenders.

A proposal to try juveniles above 16 years guilty of heinous crimes on par with adult offenders put forward during the UPA regime was however opposed by various NGOs and National Commission of Protection of Child Rights which stated that such a proposal was against child rights.

JJ BILL, 2014

However, in the budget session, a comprehensive bill to tackle increasing crimes committed by youngsters between 16-18 years of age was introduced in the Lok Sabha.

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2014 proposes to repeal the law enacted in 2000.

The changes in the law come against the backdrop of outrage over the lighter punishment of three years in a reform home given to a minor convicted in the December 16, 2012 gang rape case.

Increasing cases of crimes committed by children aged 16-18 years makes it evident that the current provisions under the previous act "are ill equipped to tackle child offenders in this age group," the statement of objects and reasons of the Bill said.

The Juvenile Justice proposes to empower the Juvenile Justice Board (Care and Protection of Children) Bill, 2014 to decide whether a juvenile above 16 years involved in heinous crimes such as rape is to be sent to a observation home or tried in a regular court.

JUVENILES TAKE TO CRIME

Total criminal cases involving juveniles

2012	2013
27,936	31,725

Rise in rate of juvenile crime in 2013 over incidents in 2012

- 60.3% Rise in cases of rape
- 70.5% Rise in insult to the modesty of women
- 132.3% Rise in cases of outraging modesty of women

PROPOSED LAW

- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2014 proposes to repeal the law enacted in 2000.
- States that current provisions are ill-equipped to tackle child offenders in the age group of 16-18 years.
- Empowers the Juvenile Justice Board to decide whether a juvenile above 16 years should be tried in a regular court

Hindustan Times, August 19, 2014, P. 4
 (Juvenile Crime)

CRIME AGAINST CHILDREN

This was the third case of sexual harassment of a minor to be reported in August.

■ 2012 ■ 2013

No of rapes	No of Kidnapping
415 (2012), 757 (2013)	3,686 (2012), 5,809 (2013)

KIDS UNSAFE

AUGUST 16: A four-year-old student of a renowned public school in Hauz Khas was sexually abused allegedly by the driver of a private school cab who was later arrested.

AUGUST 14: A 5-year-old school girl was allegedly molested by a Class 12 student at a government school in north Delhi's Civil Lines.

AUGUST 5: A 5-yr-old schoolgirl was molested and sexually harassed allegedly by a private school van driver for a few of weeks in Govindpur.

Hindustan Times, August 29, 2014, P. 3
 (Crime against Children)

SARA to regulate child adoption

statesman news service

NEW DELHI, 30 AUG: In a bid to regulate adoption of children in a transparent manner the Delhi government has set up State Adoption Resource Agency (SARA) under Integrated Child Protection Scheme (ICPS).

The Department of Woman and Child Development, through this agency has arranged adoption of 300 children through due process this year on the basis of eligibility criteria for adopting parents.

According to Satbir Bedi, Principal Secretary, Department of Social, Woman and Child Welfare, during last five years the department has arranged approximately 1900 children in Delhi.

"The department of WCD is ensuring proper monitoring of the adoptions and the specialised adoption agencies and also supporting the Central Adoption Resource Authority (CARA) in promoting adoption and regulate inter-country adoption in Delhi," said Bedi.

She further said that State Adoption Resource Agency (SARA) started functioning in the year 2011. She said that at present 12 Specialised Adoption Agencies (SAA) are recognised under

Section 34 and 41 of Juvenile Justice Act 2000. Of the 12 SAA, eight are recognised by the Central Adoption Resource Agencies for doing inter country adoption as well.

Bedi informed that a state level, a state advisory committee has been set up by the department of woman of child welfare to promote, implement, supervise and monitor the in-country and inter-country adoption of the child at state level.

She further informed that the high level meeting of State Adoption Resource Agency (SARA), Central Resource Authority (CARA) and Specialized Adoption Agencies (SAAs) and the State Adoption Advisory Committee (SAAC) are being organised by the department of woman and child development to discuss, deliver and address the issues relating to child adoption.

The law pertaining to the adoption, current policies and programs relating to child welfare are also discussed and delivered. Bedi informed that the department has chalked out the SARA for the year 2013-14 to organize awareness campaign to prevent private and illegal adoption and regular submission of quarterly reports to MWCD and CARA.

The Statesman, August 31, 2014, P. 2
(Child Adoption)

132% jump in crimes by juveniles against women

New Delhi

Assault by juveniles on woman to outrage her modesty saw a 132% increase and rapes committed by juveniles witnessed an increase of 60.3% last year.

The report of the National Crime Records Bureau said the highest increase in the incidents of crimes committed by juveniles in 2013 was reported under assault on woman to outrage her modesty - 132.3% - followed by insult to the modesty of women - 70.5% and rape - 60.3%.

Among the total juveniles apprehended under IPC, 66.3% belonged to the age group of 16-18 years. A total of 31,725 criminal cases involving juveniles were reported last year in compari-

son to 27,936 cases reported in 2012 - an increase of 13.6%.

Last year, the highest number of juveniles were apprehended for thefts (7,969) followed by hurt (6,043) and burglaries (3,784). These heads taken together accounted for 40.9 per cent of total juveniles apprehended under IPC crimes.

Out of the total juveniles (43,506) involved in various crimes, 8,392 were illiterate and 13,984 had education up to primary level. These two categories together accounted for 51.9% of the total juveniles arrested during the year 2013. A large number of juveniles (50.2%) belonged to the poor families whose annual income was up to Rs 25,000.

Free Press Journal, August 19, 2014, P. 2
(Juvenile Crime)

दिल्ली में 300 बच्चे गोद लिए गए इस वर्ष

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में इस वर्ष 300 बच्चों को गोद लिया।

गोद लेने की इस प्रक्रिया को दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी से लागू करना चाहती है और इसके लिए महिला एवम बाल विकास विभाग की इकाई स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी अब सक्रिय भूमिका निभा रही है। महिला एवम बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव सतबीर



सरकार गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करेगी

बेदी ने बताया कि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी और अब यह संस्था कानूनी तरीके से गोद लेने वालों को अच्छी मदद कर रही है। इसके अलावा दिल्ली

में 12 मान्यता प्राप्त एजेंसियां भी कार्यरत हैं जो इस प्रक्रिया में बेहतर योगदान दे रही हैं। इन एजेंसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि गोद लेने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के नियमों का पूर्णतः पालन करें। सतबीर ने बताया कि महिला एवम बाल विकास विभाग ने स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को आदेश दिया है कि राजधानी में अवैध ढंग से गोद लेने पर सख्तता बरते और लोगों के बीच इसकी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराए। साथ ही गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने की भी कोशिश की जा रही है।

Rashtriya Sahara (H), August 31, 2014, P. 6
(Child Adoption-Delhi)

सामाजिक बदलाव ♦ राजधानी के शिशुगृह में बेटियों के लिए लंबी लाइन

हर तीसरे को गोद में चाहिए बेटी

■ इस साल 85 परिवारों के आवेदनों में से 33 बेटियों के लिए जयपुर

जयपुर, 28 अगस्त (पत्रिका)। लिंगभेद का शिकार रहे प्रदेश के लिए जयपुर के शिशुगृह से अच्छी खबर है। अब तक सिर्फ बेटों की चाह में यहां पहुंचने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। गांधी नगर स्थित इस शिशुगृह में हर तीसरा आवेदक बेटी गोद लेना चाहता है। पिछले तीन सालों में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस साल मिले कुल 85 आवेदनों में 33 बेटी के लिए ही हैं।

पिछले वर्षों में गोद दिए गए बच्चे

वर्ष	गोद गए बच्चे	बेटियां
2011	35	23
2012	22	16
2013	25	16
2014	15	8

(इस साल के आंकड़े जनवरी से 25 अगस्त तक)

3 साल पहले तक 100 आवेदनों में से सिर्फ 10 ही बेटियों के लिए आते थे। शिशु गृह के कर्मचारियों को बेटियां गोद देने के लिए मिनतें करनी पड़ती थीं। धीरे-धीरे स्थिति सुधारी और पिछले साल हर 6 आवेदनों में एक बेटी के लिए आए।

नियम ऐसे कि गोद कठिन

शिशुगृह से केवल उन बच्चों को गोद दिया जा सकता है, जो शहर से मिले हों और जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित न हो। शिशुगृह में 63 बच्चे हैं। 19 दूसरे जिलों के हैं। कई बच्चों के माता या पिता मानसिक तौर पर बीमार हैं। इसलिए गोद दिए जा सकने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं।

बेटियां बोझ हैं, यह गलतफहमी दूर हो गई है। बुढ़ापे का सहारा अब बेटे नहीं है, बेटियां भी हैं। बेटियां अपने माता-पिता और सास-ससुर दोनों का सहायक रखती हैं।

डॉ. रश्मि जैन, समाजकर्मचारी

Rajasthan Patrika (H), August 28, 2014, P. 1
(Child Adoption-Delhi)

दिल्ली में बढ़ रही लापता बच्चियों की संख्या

नई दिल्ली (एसएनबी)। लापता बच्चियों की संख्या में पिछले पांच साल में लगातार इजाफा हो रहा है। 2009 से 2013 के दौरान लापता लड़कियों की तादाद में 500 फीसद की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह बात कही है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि बच्चों के घर से भागने की कई वजह हैं। 38 फीसद बच्चों अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए जबकि 21 फीसद मां-बाप की डांट-फटकार के कारण घर से निकल गए। 17 फीसद रास्ता भटकने की वजह से लापता हो गए। प्रेम प्रसंग के कारण घर से भागने वालों की तादाद भी कम नहीं है। आठ फीसद लड़के-लड़कियां प्रेम के आगोश में अपने माता-पिता को बिना बताए घर से निकल गए। तीन फीसद बच्चों अपहरण का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने 2009 से जून 2014 तक बच्चों के गायब होने का पूरा ब्यौरा दिया है। इस साल तीन हजार 636 बच्चे गायब हुए। उनमें से दो हजार 291 को ट्रेस कर लिया गया। एक हजार 347 बच्चे अब भी लापता हैं। इनमें लड़कियों की तादाद 817 है जबकि 530 लड़के ढूंढे नहीं जा सके।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने दावा किया है कि प्रत्येक संबंधित विभाग बच्चों का पता लगाने के लिए सक्रिय रहता है।

दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2009 से 2013 तक हर साल लापता बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ। दिल्ली सरकार ने एक जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह जवाब दायर किया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बच्चों के शरीर के अंगों को निकालकर उन्हें बेचने का देश में घंघा चल रहा है। इस घंघे में लिप्त लोगों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि 11 राज्यों में तीन साल के दौरान 75 हजार से ज्यादा बच्चे गायब हुए। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि गिला स्तर पर डीसीपी तथा अन्य वरिष्ठ अफसर बच्चों के लापता होने के मामलों पर निगरानी रखते हैं।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपयुक्त को मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ का नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। वह इस संबंध में समय-समय पर मीटिंग करते हैं ताकि बच्चों के लापता होने का संगठित अपराध से अगर कोई रिश्ता है तो उसका पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 2012 में बच्चों के गायब होने की इतना मिलते ही एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। प्रत्येक पुलिस थाने में एक जूवेनाइल वेलफेयर अफसर तैनात करने के लिए भी कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि चार माह की अवधि में बच्चे को ट्रेस नहीं किया जाता तो मामला मानव तस्करी निरोधक शाखा को सौंप दिया जाए।

Rashtriya Sahara (H), August 17, 2014, P. 9
(Missing Children)

Traffickers target Jharkhand school girls to sell them in Delhi

CRIME Hundreds of girls from Jharkhand and West Bengal are trafficked to metropolitan cities where they are sold to agencies

Raids on placement agencies in Capital

Saurav Roy
saurav.roy@hindustantimes.com

RANCHI: Human traffickers active in Jharkhand are now targeting school girls in the state — several of whom have been eventually rescued from Delhi.

As many as 30 minor girls from the state, who have gone missing from schools in the past six months, have been found in Delhi-NCR, police and NGOs said.

They say the traffickers may have been targeting schools because of the poor security there even as investigations continue to ascertain if school authorities were involved in the racket.

Hundreds of girls from poor villages in Jharkhand and West Bengal are trafficked to metropolitan cities where they are sold to placement agencies that sell them again as domestic helps. Most of these girls are minors and often face harassment and sexual assault — first at the hands of the traffickers and then by their employers.

The 14-year-old girl from Gumla district of Jharkhand, who was trafficked to Delhi, raped and dumped, had gone missing from school. Similarly, six other teenagers from Latehar district rescued and brought back a fortnight ago



■ Baba Bamdev, the alleged trafficking kingpin.

also went missing from school. Some of the victims told the police that some suspicious people had been loitering around their school and offered them sweets, snacks and even gifts. Some of the girls admitted that they were lured to Delhi by these “friendly” agents.

“They said good food, gifts and better life awaits us in Delhi,” said one of the minors, who was made to work as a domestic help at a posh Delhi locality.

In fact, Baba Bamdev — the kingpin of human trafficking — had been spotted near schools in Khunti and Simdega. Bamdev, who ran more than 400 placement agencies in NCR, was arrested in Khunti last week. Bamdev is suspected to have supplied nearly 5,000 children from eastern states to buy-

ers across the country annually before his arrest. He used to organise fairs in Punjabi Bagh, New Delhi, where children from Jharkhand, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and West Bengal were allegedly sold. In 2011, the Delhi police had also arrested him in connection with a rape case.

“We spotted him around school campuses in Khunti and Simdega at least thrice in the past six months,” said Baijnath Kumar, an anti-human trafficking activist. It was Kumar who led the police to Bamdev.

According to records with the Missing Child Helpline, a joint initiative of the Jharkhand Criminal Investigation Department (CID), Unicef and NGOs, of the total 127 cases of missing children registered in the past six months, 27 went missing from school.

Rishi Kant, an activist from Delhi and founder member of NGO Shakti Vahini, said a majority of Jharkhand minors he had rescued in Delhi went missing from school.

“We need foolproof security at schools in Jharkhand, only then we can curb trafficking from the state,” he said. IG, organized crime, Sampat Mina, however, said she was yet to receive any official complaint.

HT Correspondent
reporters@hindustantimes.com

RANCHI: A team of Jharkhand police raided over 50 placement agencies in Shakurpur, Punjabi Bagh and Sultanpuri areas in New Delhi on Tuesday night and Wednesday in connection with an alleged trafficking racket run by so-called activist Baba Bamdev.

Station house officer of Manika police station in Latehar district of Jharkhand, Ashok Sharma said the police team had taken Baba Bamdev, who has cases registered against him both in Jharkhand and Delhi, along to conduct the raids.

The Delhi police did not participate in the raids but were in constant touch of the Jharkhand police team, said Sharma.

The team found that most agents had forged documents, showing them as residents of Delhi. However, nobody was found to have any links with the banned People’s Liberation Front of India (PLFI) — an organisation with which Bamdev had extensive links.

Bamdev was arrested in Khunti, a newly-carved district

40 km south of Ranchi, by the Anti Human Trafficking Unit (AHTU) of Jharkhand police on August 17. He is being kept in the Latehar jail.

Aradhna Singh, the person in charge of AHTU’s Khunti unit, said Bamdev ran at least 400 placement agencies in Delhi and NCR towns. He allegedly supplied over 5,000 children trafficked from eastern states to these placement agencies.

In the garb of running a tribal welfare NGO, Bamdev used to organise four fairs at his Punjabi Bagh ashram where he would target girls rescued by Delhi Police from the clutches of placement agencies.

The Jharkhand police now believe that Bamdev and his agents were also involved in re-trafficking these girls once they were sent back home after being rescued — most of whom were school children. Bamdev and his gang targeted girls natives of Jharkhand, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and West Bengal.

After Bamdev’s arrest in Jharkhand, many placement agencies in Punjabi Bagh have shut down and the agents have fled, said the police.

Hindustan Times, August 28, 2014, P. 3
(Trafficking)

‘Teach kids to guard against abuse’

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The south Delhi nursery student who was sexually abused by her cab driver could open up to her parents about it because of her very young age. An older child would have been more inhibited, says Vidya Reddy of Tullir Centre for the Prevention and Healing of Child Sexual Abuse. “As you grow older, shame comes in the way.”

With child abuse cases occurring frequently, activists and psychiatrists say it’s time to focus on prevention because the same script plays out in all these cases with different faces.

Reddy and psychiatrist Avdesh Sharma say lack of

awareness makes child sexual abuse possible. “What is the kind of personal safety instruction parents give their children? How many children are being told it’s not right for anyone to touch them, except to keep them clean and healthy,” asks Reddy. She says parents should start training a child as soon as it develops awareness of its body and is curious about it. “You should also teach them to identify feelings. They may be scared or nervous but unable to articulate it.”

“For different age groups the manifestations are different,” says Sharma. “An adult aggressor may try to make it look like a game rather than a forceful act”. If an “uncle”

Psychiatrists and activists say it’s time to focus on prevention because the same script plays out in all these cases with different faces

gives sweets or gifts to a small child for several days, warning bells should ring; if another makes a child sit in his lap, that’s a sign, too. “Children know instinctively something is wrong,” he says. “But parents have to be there to at least ask about their day in school and the activities they did.”

Reddy says parents have abdicated their responsibility

completely because of denial, diffidence or plain ignorance. “You keep your jewellery in lockers but let your child be with a stranger for two hours every day. How can you let children go with anyone without vetting the adult first?”

Reddy and Sharma also point to the lack of awareness campaigns. Delhi Commission for Protection of Child Rights drew up guidelines for prevention of child abuse which Sharma terms “just another document”. He says the ministry of women and child development has the mandate to create awareness in all languages through radio and television, and this would be a proactive step to make parents more vigilant.

The Times of India, August 6, 2014, P. 2 (Child Abuse)

Schools frown on private vans, warn of risks

Parents Want Their Kids At Doorstep, Are Wary Of Delay

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi's public schools say they don't approve of private vans ferrying kids. "We are regularly sending circulars telling parents to use the school bus," says Ameeta Mulla Wattal, chairperson, National Progressive Schools Conference, and principal of Springdales School, Pusa Road. But parents don't pay any heed because the school bus can't go to their doorstep.

"For a little bit of convenience, parents take risks in spite of repeated requests by us," says Wattal. The buses and vans that the schools own or hire have to follow guidelines formulated by the department of transport of Delhi government but no rules or regulations apply to the privately arranged vans.

"Springdales, Kirti Nagar, has 220 kids but only about 80 of them use the bus," says Wattal. The rest use vans privately arranged for by parents. She points out that these vans are soft-bodied and have no speed governors or medical kits. There is no limit on the number of children they can carry. These have no conductor either. And, there is virtually no verification."

L V Sehgal, principal, Bal Bharti School, too, discourages using such vans and periodically issues detailed advisories to parents on the precautions to be taken. "We tell them to hire a van from their own area and from people they've known for long," says Sehgal. "Ideally, they should get someone who's been plying school vans for long, but if the driver is new, he should be verified by the police. Parents should take turns to follow the van to en-

SIGNS OF ABUSE IN A CHILD

Physical signs are easier to spot but usually the problem manifests itself through behavioural changes. The sudden appearance of several such symptoms should alert parents

Physical



- > Difficulty in walking or sitting
- > Anxiety-related ailments, such as anorexia or bulimia
- > Discomfort in urinating or defecating
- > Recurrent urinary infections
- > Bleeding, discharge, soreness, itching, bruising on oral, genital or anal areas
- > Sexually transmitted disease in a child of any age

Depression

- > Deteriorating relationships with adults and peers
- > Developing fears, phobias and anxieties about specific places and adults
- > Age-inappropriate sexual behavior
- > Running away from home or school

Behavioural

- > Sudden learning problems, poor memory and concentration
- > Reluctance to participate in physical or recreational activity
- > Regression to younger behaviour—thumb-sucking, acting like a baby, bedwetting and/or speech difficulties
- > Clinging to parent or requiring constant reassurance
- > Unaccounted possession of money or gifts
- > Headaches, stomach pains or nausea without a physiological basis
- > Fatigue and sleeping difficulties
- > Poor self-care and personal hygiene



sure it sticks to its designated route, and the oldest among the kids should keep an eye on the road." He also advises parents to alert their kids to "good touch and bad touch".

A large number of students of Laxman Public School, Hauz Khas, also use vans. "We discourage them a

lot," says principal Usha Ram. "We tell them we have buses and our staff is verified. A teacher or attendant always travels on the bus. They get off at the last stop and take an auto and we reimburse the fare. But these parents still prefer cabs as they drop kids off at home while buses can't go beyond

Illegal school cabs the norm in city

New Delhi: The long-drawn authorization process for school vehicles has resulted in thousands of illegal cabs doing school runs every day. Police claim they have prosecuted 1,272 such vehicles this year but mostly for permit violation and dangerous driving. Only 72 vehicles have been impounded.

Transport officials say the onus for running background checks on drivers and conductors is on schools. The transport department says, of the 1,515 recognized schools in the city, only 582 have submitted undertakings on the character and antecedents of school bus staff, while 762 schools have submitted that they are not using any transport vehicle to ferry children.

Delhi Commission for Protection of Child Rights has laid down that each vehicle must have a woman guard present till the last child is dropped home. Also, any case of assault must be reported immediately. But these guidelines are seldom followed. **TNN**

the main road." Also, she adds, school buses have circuitous routes, and with more kids to drop, it takes longer. "Some parents like to have their kids back in 15-20 minutes," she says.

However, they do to take some precautionary measures – parents have to submit photos of the driver, car registration number and other credentials to the class teacher. Only then does the teacher release the child to the driver.

The Times of India, August 6, 2014, P. 2 (Child Abuse)

An extensive study concludes that street children buy substances worth Rs.27 lakh per day in the Capital

from illegal sources available to them, reports **Kritika Sharma**

Two lakh street children lured into substance abuse in Delhi

NEW DELHI: There are around 1.5 lakh to 2 lakh street children in the Capital and almost 80 per cent of them are involved in substance abuse, a study by Childhood Enhancement through Training and Action (CHETNA), an organisation working for the cause of children, has found.

Even if the children earn Rs.50 per day, their major money goes into buying white fluids, cannabis and tobacco for inhalation. The study by CHETNA also concludes that the street children buy substances worth Rs.27 lakh per day in the Capital from various illegal sources available to them.

The areas in Delhi where drug abuse among children is the highest include Nizamuddin, Nehru Place, Govindpuri, Taimur Nagar and under Okhla flyover.

A similar study conducted by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) from 135 sites in 27 States has thrown light on the widespread substance abuse across the country.

According to the study,



nearly 85 per cent of the street children who are into substance abuse are from urban areas, 58.8 per cent of them were not studying and only 22.9 per cent went to regular school. Among the substances the children are addicted to, tobacco was found to be the most widely used, followed by alcohol, inhalants and cannabis.

Peer pressure is the most important factor that drives the children to substance abuse. The

susceptibility of street children, however, is much higher than those living with their families and going to school. According to the study, the main reason for school going children and children living with their families taking to drugs is the influence of another family member who uses drugs, followed by family fights and abuse.

The NCPCR in its study has also made some recommendations to prevent drug and substance

abuse by children.

Providing life skill methods and education to children is one of them.

CHETNA, which works for the rehabilitation of street children, also works for the cause of children addicted to drugs. The organisation runs a shelter home for such children in Nizamuddin area. Its founder Sanjay said:


"Imparting education to children is the most effective way in which we try to get their mind off drugs. However, there are a number of challenges that we face. Most children complain that they are not able to keep away from drugs because it is available everywhere. They tell us - stop the sale of drugs and we will not buy it."

"It is not in our hands to stop the sale of drugs, the government should do something about it," added Mr. Sanjay.

"Lack of parental support is also the reason that many young boys relapse. We take care of them for the time they are with us but once they go back home, there is no one to see what they do," he added.

**The Hindu, August 18, 2014, P. 3
(Substance Abuse-Street Children)**

1.2 Role of Civil Society/Statutory Bodies/Civil Society Initiative (DCPCR Initiative-Khoj)



The Statesman, August 5, 2014, P. 5

गायब बच्चों के लिए 'ऑपरेशन खोज'

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) राजधानी से गायब बच्चों की खोज करेगा। दिल्ली से रोजाना 20 के करीब बच्चे गायब हो रहे हैं।

डीसीपीसीआर के सदस्य शशांक शेखर की अगुवाई में ऑपरेशन खोज शुरू किया गया है। 45 चिल्ड्रेन होम के नेटवर्क में गुमशुदा बच्चों की फोटो समेत डाटा मैच करके ढूंढा जाएगा। डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अरुण माथुर ने कहा है कि पुलिस व अन्य जगह से गायब बच्चों के बारे में जो भी सूचना मिलेगी उसे एक साथ नेटवर्क के सभी चिल्ड्रेन होम में तस्वीर के साथ ऑनलाइन फ्लैश करेंगे।

अगर बच्चा इनमें से किसी होम में मिलता है तो उसके परिवार को सूना जाएगा। अब सभी सोर्स से जानकारी ईमेल आईडी missingchild.dcpcr@gmail.com पर मांगी जाएगी और उसी पर जवाब भी मांगेंगे।

चिल्ड्रेन होम के नेटवर्क को बढ़ाने के अलावा उनके इंचार्ज को ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।



दिल्ली से रोजाना गायब हो रहे हैं 20 बच्चे

कब कितने बच्चे हुए गुम	वर्ष	बच्चों की संख्या
2008	6268	
2009	5946	
2010	5091	
2011	5111	
2012	5248	
2013	7235	

Amar Ujala (H), August 20, 2014, P. 2
(DCPCR Initiative-Khoj)

बच्चों की तलाश के लिए आपरेशन 'खोज'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने आपरेशन 'खोज' शुरू किया है। इसके तहत लापता हुए बच्चों का पता लगाने के बाद आयोग उनका पुनर्वास भी करेगा, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके।

आयोग के अध्यक्ष अरुण माथुर ने कहा कि आयोग लापता बच्चों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए दिल्ली के 45 बाल गृहों को नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया है। बच्चों के लापता होने की शिकायत मिलते ही उसकी तस्वीर सहित पूरा ब्योरा नेटवर्क के माध्यम से सभी बाल गृहों को प्रसारित कर दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं हो तो उसका पता चल सके। उन्होंने बताया कि आयोग बाल गृहों के नेटवर्क के दायरे को बढ़ाएगा। इसके लिए बाल गृह प्रबंधकों से बातचीत चल रही है। बच्चों का पता लगाने के लिए पुलिस की मदद भी ली जा रही है। बच्चों के गुम होने पर आयोग पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगता है। थानों से रिपोर्ट तो मिल जाती है, लेकिन एसीपी कार्यालयों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता।


दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुरू किया अभियान

45 बाल गृहों को नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया

कब कितने बच्चे हुए लापता	वर्ष	बच्चों की संख्या
2008	6268	
2009	5946	
2010	5091	
2011	5111	
2012	5248	
2013	7235	

Dainik Jagran (H), August 20, 2014, P. 3
(DCPCR Initiative-Khoj)

1.3 Education/Education System (Sanskrit Language-KV Schools/Health Education- School Curriculum/New Guidelines-Primary Classes/Child-friendly Education/Value Education/Toilet & Water Facility -Schools/Awareness Programme-Good Touch and Bad Touch/Road Safety-School Curriculum)



The Statesman, August 7, 2014, P. 2
(Sanskrit Language-KV Schools)



Hindustan Times, August 13, 2014, P. 7
(Health Education- School Curriculum)

Teachers discuss ways to make education child-friendly

Hema Rawat

hema.rawat@hindustantimes.com

NEW DELHI: A roundtable meet, National Consultation on School Based Counselling and Special Needs Services, was organised at India International Centre, Lodhi Road, on Saturday to chalk out concrete actions for making inclusive education more effective.

It witnessed deliberations by curriculum designers, principals, teachers, counsellors and special needs educators from different schools across Delhi and NCR.

A collaborative endeavour of the Central Board of Secondary Education (CBSE), National Progressive School Conference (NPSC), Association of Indian School Counselors and Allied Professionals and Expressions India, a school-based outreach programme on life skills, participants discussed various methods to make classroom learning child-friendly, particularly for children with special needs.

The chief guest, Rajarshi Bhattacharya, secretary, department of school education and literacy, ministry of human resource development (MHRD), emphasised the need to identify special abilities of those that the society has labelled differently-abled. He added that at such brainstorming sessions participants could recommend guidelines that would become a part of educational reforms.

Suggesting some new



Academicians suggested sensitising parents and teachers through in-service programmes at the conference. S.BURMAULA / HT PHOTO

and innovative ideas, Sudha Acharya, principal, IITL Public School, Dwarka, said, "Every school must have a Know Your Child form in order to make teachers familiar with all students. Further, teachers must be equipped with training and skills to address different needs of students including children with special needs."

Academicians also suggested to sensitise parents and teachers to attend in-service programmes. "All teachers must learn 'special skills' or how to address issues pertaining to children with special needs, instead of having special educators, in order to make inclusive education meaningful," said Rachna Pandit, principal, DPS, Maruti Kunj, Gurgaon.

Ameeta Mulla Wattal, chairperson, NPSC, moderated the

discussion, while Jitender Nagpal, programme director, Expressions India, outlined the vision and plan that would serve as the roadmap for policy. Officials from other key educational institutes also attended the meet.

The session concluded with agreed guidelines from various agencies that will be submitted to MHRD. Recommendations on inclusive education such as creating zonal and district clusters and nodal support centres, having refresher courses for teachers and counsellors, parent advocacy programmes, partnership with local mental health and counselling agencies, mandatory disabled-friendly school infrastructure and environment and having vocational subjects for children with special needs were also agreed upon.

Hindustan Times, August, 2014, P.5

(Child-friendly Education)

CBSE : प्राइमरी में असेसमेंट की नई गाइडलाइंस

भूपेन्द्र, नई दिल्ली

सीबीएसई ने प्राइमरी क्लासेज (1-5वीं तक) में असेसमेंट की नई गाइडलाइंस का प्रोजेक्ट तैयार किया है। बोर्ड की करिकुलम कमिटी ने नई गाइडलाइंस को अप्रुव कर दे दी है।

बोर्ड के मुताबिक, प्राइमरी क्लासेज में एक टर्म या सेशन के आखिर में एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि पूरे साल स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। सेशन के आखिर में एग्जाम के जरिए असेसमेंट का फॉर्मूला नहीं होगा। असेसमेंट को टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा, स्टूडेंट्स पर भारी भरकम होमवर्क का बोझ नहीं लाया जाएगा। प्राइमरी क्लासेज में स्टूडेंट्स को फेल किए जाने पर पहले से ही रोक लगी हुई है। सीसीई स्क्रीम में असेसमेंट का अलग तरीका है, लेकिन अभी भी ऐसे स्कूलों की कमी नहीं है, जो छोटी क्लासेज के लिए भी सीनियर क्लासेज की तरह एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जबकि बोर्ड चाहता है कि प्राइमरी क्लासेज के लिए असेसमेंट का फॉर्मूला सीनियर क्लासेज की तरह न हो।

नई गाइडलाइंस में सीबीएसई ने बस्ते के बोझ पर भी खास ध्यान दिया है। स्कूलों को निर्देश दिए जाएंगे कि दूसरी क्लास तक के बच्चों की किताबें स्कूल में ही रखी जाएं। इसके अलावा, 1-और 2 क्लास के बच्चों को कोई माक्स 'ब' ग्रेड नहीं दिए जाएं। सेकंड क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस प्रोफाइल में केवल स्माइली साइन का यूज किया जाए। तीसरी से पांचवीं क्लास के लिए 5 पॉइंट ग्रैडिंग सिस्टम को रूल फॉलो किया जाए। ज्यादा क्लास टेस्ट न हों, बल्कि प्रोजेक्ट वर्क और ग्रुप एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

सीबीएसई ने प्रोजेक्ट वर्क को प्रमोट किए जाने की बात तो कही है, लेकिन साथ ही यह भी शर्त लगाई है कि प्रोजेक्ट वर्क को होमवर्क के तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि क्लास में टीचर की यह जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट वर्क को देखें।

बोर्ड ने यह कहा है कि स्कूल में टीचर को प्रोजेक्ट वर्क पर ध्यान देना होगा। प्रोजेक्ट वर्क को होमवर्क नहीं माना जाएगा। क्रिएटिव होम असाइनमेंट होंगे।

बोर्ड की करिकुलम कमिटी ने प्राइमरी क्लासेज के लिए



बोर्ड की करिकुलम कमिटी ने नई गाइडलाइंस को दिया अप्रुव

असेसमेंट स्कीम की समीक्षा की है और नई गाइडलाइंस को अप्रुव कर दी है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक, इन गाइडलाइंस को लेकर जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा और स्कूलों को भेजा जाएगा।

Nav Bharat Times (H), August 11, 2014, P. 5

(New Guidelines-Primary Classes)

Schools start taking value education seriously but many challenges remain

Neha Pushkama

neha.pushkama@hindustantimes.com

NEW DELHI: For 12-year-old Prakul Mehta, squabbling with his elder sister was like playing a game. It had to be done every day. He admits they would squabble because he didn't like sharing with her. It was his art teacher who took it upon herself to teach him a thing or two about sharing.

"One day, she formed a group in class and asked them to make a model of a house. However, she gave them unequal material. Students with adequate material were more active but she told them that each will have to contribute equally to qualify the assessment," said Archana Mehta, Prakul's mother. Soon the kids started sharing the wooden sticks, colours and glitters so that each one could do his part well.

"She then sat them down and explained to them how sharing made a difference to bring about common good," she added.

That is perhaps a perfect manifestation of value education our schools have been struggling to roll out.

While Prakul's hobby class teacher took it upon herself to deal with his aggressiveness because she had only four students to deal with and she loved them all, schools have been finding it difficult to find the right way of doing it.


As violence and irreverence become common among today's children, different stakeholders are taking value education seriously. With a push from the Central Board of Secondary Education (CBSE), schools now design value-based questions.

The Board also tied up with the Ramakrishna Ashram last year to inculcate long-lasting value system among students. It has already trained 1,000 teachers to conduct their special programmes that train them to act in a manner that is positive.

"We conducted a pilot programme in 50 schools and teachers tell us they have seen a posi-

WITH A PUSH FROM THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (CBSE), SCHOOLS NOW DESIGN VALUE-BASED QUESTIONS

tive change. We started training teachers in their schools in April this year. The CBSE has signed a MoU with us to spread value education in all schools affiliated



■ The value education system calls for group activities among students, coordination with parents and partnering with the community to inculcate values in children.

JASJEET PLANA/HT PHOTOS

to it over the next 10 years," said Sant Shantatmananda, secretary, Ramakrishna Mission, Delhi.

The three-year programme has been designed in collaboration with a Mumbai-based company. It is conducted over 15 sessions in each class where students go through presentations on possibilities like being heroic, living in harmony, seeking perfection and being a truth-seeker.

The Board had earlier launched a value kit for schools that identifies values and the ways to introduce them to students.

There has also been a movement at the higher education level with the Ministry of Human Resource Development supporting value education workshops. In fact, IIT-Delhi runs a National Resource Centre for Value Education in Engineering.

But then, value education is only an idea in many schools. Like many projects, there is little implementation.

A school teacher admits, "We hold one session once a month where students have to be told a story. The class teacher is supposed to do it but due to the work load she ends up treating it as a formality."

Firoz Bakht Ahmed, who teaches English at Modern School, Barakhamba Road, said teachers with strong value systems should be trained for bringing about a change.

"Individual schools will have to do it and not an agency. We had moral science as a first period when we studied in school. It is now coming back," he said.

While even the National Policy of Education, 1986 mentioned the need for value education, much time was lost under different governments to define values and if they can be 'taught or caught'.

"Students have learnt to answer value-based questions. I think it is peer-to-peer learning that works better for inculcating values. In our school, they make presentations, dramas, do research which then goes to hundreds of other children. Booster-shot treatment isn't enough for value education. It has to be a process," said Ashok Pandey, principal, Ahlcon International School, Mayur Vihar.

TO BE POSITIVE

Schools follow a plan to inculcate values in their students

VALUES TO BE IMBIBED

- Justice, Freedom, Tolerance, Compassion, Empathy, Gender sensitivity, Peaceful resolution of conflict, Respect for each other, and Sharing

NEED FOR VALUE EDUCATION

- Impact of change
- Dysfunctional families, crime and violence, effect of media

- Competitive mindset among students, parents, teachers

TECHNIQUES IN SCHOOLS

- Group projects
- Reading and showing movies
- Writing a journal

(Source: CBSE Value Education Kit)

VALUE-BASED QUESTIONS

CBSE introduced value-based questions in 15 subjects in 2012-13. They are syllabus-based but designed to examine if students understand the value reflected.

For example; Physics, class XII

A child is observing a thin film such as a layer of oil on water show beautiful colours when illuminated by white light. He feels happy and surprised to see this. His teacher explains him the reason behind it. The child then gives an example of spreading of kerosene oil on water to prevent malaria and dengue.

- What value was displayed by his teacher?
- Name the phenomenon involved?

(Source: edudel.nic.in)

हर स्कूल में शौचालय सुनिश्चित करेगी सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने की राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक

- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को 'पढ़े भारत-बढ़े भारत' कार्यक्रम शुरू
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान लौटाएगा लड़कियों को विद्यालय

■ जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के मुताबिक मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने स्कूलों में लड़कियों के शौचालय बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। इस काम के लिए मंत्रालय ने सरकारी और निजी कंपनियों की मदद लेने का फैसला किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 'पढ़े भारत-बढ़े भारत' कार्यक्रम की शुरुआत की। स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक के दौरान 'पढ़े भारत-बढ़े भारत' कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को जल्दी से जल्दी लिखना, पढ़ना और समझना सिखाया जाएगा। साथ ही छात्रों की गणित विषय की समझ भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अब तक की गई विभिन्न समीक्षा में प्राथमिक कक्षाएं पास कर चुके छात्र भी इनमें बहुत कमजोर पाए गए हैं। ईरानी ने राज्यों के शिक्षा सचिवों को इस कार्यक्रम को अपने-अपने राज्यों में जल्द शुरू करने को कहा है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 2,352 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बैठक के बारे में शिक्षा सचिव आर भद्राचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री के भाषण के मुताबिक यह लक्ष्य रखा गया है कि देश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं रह जाए, जहां शौचालय नहीं हो। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत इस काम में मदद कर सकेंगी। ऐसी भागीदारी के लिए कंपनियों को हर तरह का जरूरी माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। ईरानी ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इसके लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत उन लड़कियों को दोबारा से स्कूल लाया जा रहा है, जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई शुरू नहीं की या बीच में छोड़ दी।



Ministry of Human Resource Development, Government of India

नई दिल्ली में मंगलवार को राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी।

बेकार पड़े दो करोड़ शौचालय

■ सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां स्वच्छता को उच्च प्राथमिकता देते हुए लालकिले से इसका ऐलान करते हैं, वहीं सरकारी नासमझी की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए दो करोड़ से अधिक शौचालय बेकार पड़े हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्वच्छता अभियान को तेज करने के लिए सरकार इसमें आमूल परिवर्तन करने की सोच रही है।

समीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के बेकार पड़े होने की वजह भी जानने की कोशिश की गई। पाया गया कि शौचालयों के बनाने की लागत सिर्फ 4500 रुपये आंकी गई थी, जो पूरी तरह अव्यावहारिक थी। बाद के वर्षों में इस लागत के साथ मनरेगा को जोड़कर 10 हजार रुपये कर दिया गया। ग्रामीण विकास व पेयजल, स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों व मंत्रालय के अफसरों से कहा है कि वे राज्यों की जरूरतों के हिसाब से शौचालय बनाने की अलग-अलग प्रायोगिकी का उपयोग करें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि देश के 17 करोड़ परिवारों में से 11

करोड़ परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि वर्ष 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य जहां 1.2 करोड़ सालाना था, उसके बाद यह घटकर 50 लाख रह गया। लक्ष्य निर्धारण में की गई इस कमी को लेकर भी मंत्रालय के अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि, दबी जुबान से कहा जा रहा है कि संग्रह सरकार में नियुक्त तत्कालीन पेयजल व स्वच्छता मंत्री गुजरात के भरत सिंह सोलंकी थे, जो कार्यालय में कभी कभी ही बैठते थे।

अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि, दबी जुबान से कहा जा रहा है कि संग्रह सरकार में नियुक्त तत्कालीन पेयजल व स्वच्छता मंत्री गुजरात के भरत सिंह सोलंकी थे, जो कार्यालय में कभी कभी ही बैठते थे।

बढ़ाई गई अनुदान राशि : सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को भी गति प्रदान करने का फैसला किया है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के जिन घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, उन्हें इस काम के लिए 15 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार स्कूलों को 54 हजार रुपये और आंगनवाड़ी को 20 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। साथ ही गडकरी ने शौचालय निर्माण की योजना से मनरेगा को अलग रखने की भी घोषणा की। पेयजल की समस्या से निपटने के लिए दो महीने के भीतर नया कार्यक्रम शुरू कर युद्धस्तर पर काम किया जाएगा।

पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय की समीक्षा में हुआ खुलासा

Dainik Jagran (H), August 27, 2014, P. 7 (Toilet & Water Facility -Schools)

Govt to initiate awareness programmes against sexual offences in Delhi schools

Soibam Rocky Singh
rocky.singh@hindustantimes.com

NEW DELHI: In an attempt to try out an innovative way of sensitizing children regarding sexual offences, the Delhi government is considering a proposal to create an awareness programmes about "good touch and bad touch" in all schools in the Capital.

The programme could be imparted to the children through an audio-visual medium in the presence of counsellors so that no physical element is involved in explaining to the students, Additional Solicitor General Sanjay Jain suggested.

The campaign will be a part of the larger scheme of

the government to sensitize people especially women and children about the nature of sexual offences and the stringent punishments provided against such offences, through publicity and mass awareness programmes.

Apart from the proposal, the Centre and Delhi government informed a bench of Justice Kallash Gambhir and Justice Sunita Gupta about other steps taken to create awareness on the issue of sexual offences.

The court directed the education department to ensure that "there is no scope for any physical handling of the children" in explaining the "good touch and bad touch" programme.

It, however, expressed dis-

pleasure over the "tardy and sluggish" pace of implementing steps saying, "at this rate the required results will not be achieved even in the next 20 years".

It said that one or two advertisements in any newspaper in a year or six months "will not suffice" as public awareness has to be "constant, on war footing and also at the grass-root level specially in 'jhuggi' clusters and other crime prone areas".

The court was distressed that people are not fully aware of the punishments provided for sexual offences. Not many will know that "voyeurism and stalking" has been made a crime under the Criminal law Amendment with punishment

upto three years in prison, the HC said.

The Delhi government told the court that 'nukkad natak' are being organised at various public places through the song and drama division of Information and Broadcasting Ministry.

The other initiatives such as putting posters at metro stations, DTC buses, various intersections, inside metro trains to make citizens aware of the stringent punishments for committing any kind of severe offences.

While earlier the punishment aspect of sexual offences was not included in the publicity material, it has been included now, the Delhi government said.

Hindustan Times, August 26, 2014, P. 2

(Awareness Programme-Good Touch and Bad Touch)

Call to include road safety in school curriculum

Bindu Shajan Perappadan

NEW DELHI: Twenty children under the age of 14 die every day due to road accidents in India. Worse, child deaths in road accidents have increased in 2013 with a 9 per cent rise in road fatalities of female children. Child deaths due to road accidents are also four times higher than murder and infanticide.

While the figures point to a disturbing trend, Save LIFE Foundation, an independent advocacy group working around road safety and protection of children while commuting has demanded that the Central Board of Secondary Education and State Boards be mandated by law to include in their curriculum a school road safety programme targeted at children.

According to the Save LIFE Foundation's Vidya Kapoor, at present the Motor Vehicles Act, 1988, has no prescribed clauses for protection of children during commute.

"Only a Supreme Court judgment and AIS Standards (AIS-063:2005 Requirement for School Buses) regulate construction, maintenance and operation of school buses. Additionally, there are no statutes or guidelines for protection of children on the road while going to or coming



School children crossing a busy Delhi road.
FILE PHOTO

from school. There are no child-helmet or child seats requirements in India and adults treating the child's safety callously are rarely punished," added Ms. Kapoor.

Since children are vulnerable road users, there should be special rules and regulations to ensure their safety, noted a release issued by the Foundation.

Stating that globally children have special rules and

regulations by which they are protected, Ms. Kapoor said: "This could take the form of child restraints in cars, child seat and higher penalty for traffic offences involving children. Education awareness is one of the main lacking criterions for the alarming statistics today."

The group has demanded that the educational boards be directed to include road safety programme in school curriculum.

The Hindu, August 17, 2014, P. 4
(Road Safety-School Curriculum)

आंगनवाड़ी और प्ले स्कूलों में बच्चों का शोषण पड़ेगा महंगा

प्रियंवदा सहाय

नई दिल्ली। आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल या अनाथ आश्रम जैसी बच्चों को देखभाल करने वाली संस्थाओं में मासूमों को पिटाई या शोषण करने वालों पर सख्ती की तैयारी है।

संसद में पेश किये गए किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) 2014 के मुताबिक ऐसे मामलों में संचालक, प्रबंधक या बच्चे को देखभाल करने वालों को दंडित किया जा सकता है। नए एक्ट के प्रावधानों में छह साल तक के बच्चों को किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाने पर प्ले स्कूल या डे केयर जैसी संस्थाओं और कर्मचारी को जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

बीते सत्र में लोकसभा में पेश किये गए विधेयक के मुताबिक शारीरिक दंड के मामले में दोषी पाए जाने पर संस्था के संचालक या बच्चों के देखभाल करने वालों को तीन माह तक की जेल हो सकती है।

पृष्ठ पृष्ठ 11 पर

आंगनवाड़ी और प्ले स्कूलों में बच्चों ...

जबकि दोषी कर्मचारी या देखभाल करने वालों को भविष्य में बच्चों से संबंधित किसी भी संस्था में नौकरी नहीं मिल सकेगी। वहीं मामला उजागर होने पर ऐसी संस्था के प्रबंधक के जांच में सहयोग नहीं करने पर एक लाख तक के जुर्माने के साथ कम से कम तीन साल तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक पर संसद के अगले सत्र में चर्चा होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जेजे एक्ट शामिल सजा के प्रावधान पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई थी। उसका कहना था कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत शारीरिक दंड और शैक्षणिक संस्थाओं में रैपिंग के मामले में सजा का प्रावधान पहले से मौजूद है। नए कानून में इसे शामिल करने का औचित्य नहीं है। इसलिए संसद में पेश विधेयक में इन बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभिभावकों द्वारा बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने से रोकना मुश्किल है। इसलिए कानून में अभिभावक के लिए सजा का प्रावधान शामिल करना उचित नहीं होगा। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर आईपीसी के तहत पहले से ही कार्रवाई का विकल्प मौजूद है। गौरतलब है कि जेजे एक्ट में शामिल इन बिंदुओं पर अगर संसद की मुहर लग जाती है तो भारत उन 40 देशों में शामिल हो जाएगा जो बच्चों को शारीरिक दंड पर जोरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं।

Amar Ujala (H), August 24, 2014, P. 1+IV

1.4 Girl Child/Child Sex Ratio/Female Foeticide (Child Sex Ratio-Haryana/Save the Girl Child/Female Foeticide/Girl Child Sex Ratio)

बेटी बचाने पर मेनका की सोच ही चली

प्रचार पर कम जमीन पर ज्यादा लगेगा धन

अजय तिवारी/एसएनबी

नई दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को यह समझाने में सफल रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ज्यादा धन प्रचार पर नहीं फूँका जाएगा। बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय जागरूकता पर ही 100 करोड़ रुपए की इस योजना का अधिकांश धन लगाने के पक्ष में था जबकि मेनका गांधी चाहती थीं कि योजना सिर्फ प्रचार माध्यमों में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखनी चाहिए। यही वजह है कि अब प्रचार पर 25 करोड़ रुपए ही लगाए जाएंगे।

बताया जाता है कि महिला और बाल विकास मंत्री को प्रचार के लिए यह रकम भी ज्यादा लग रही है। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पश्चिम बंगाल की कन्या श्री योजना की तरह होगी या फिर मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ योजना की तरह होगी, कोई नहीं जानता। मंत्रालय अभी इस पर मायापन्ची ही कर रहा है। अभी सिर्फ इतना ही साफ हो सका है कि योजना के तीन हिस्से होंगे। पहले हिस्से में भ्रूण हत्या रोकने पर जोर रहेगा। इसके तहत उन अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का लाइसेंस रद्द कराने की दिशा में काम किया



जाएगा, जो लिंग परीक्षण की गतिविधियों में लिप्त हैं। हालांकि यह काम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों से कैसे करेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। योजना के दूसरे भाग में लड़कों के जन्म पर कुछ प्रोत्साहन राशि परिवार को दिए जाने का विचार है। इसको लेकर भी विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। इसी पर योजना का बड़ी राशि खर्च की जाएगी। कुछ राज्यों में लड़कों के नाम से बैंक खाते में मोटी रकम जमा करा दी जाती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी इसी पर काम कर रहा है कि लड़कियों को किसी न किसी तरह से आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए ताकि परिवारों में उन्हें सम्मानजनक दर्जा हासिल हो सके।

योजना के तीसरे भाग में जागरूकता अभियान के बारे में सोच गया है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। प्रचार अभियान की पूरी जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की रहेगी। इसके तहत मंत्रालय ऐसी प्रचार सामग्री तैयार करेगा, जो लड़कियों को बचाने के लिए समाज को प्रेरित करेगी।

■ प्रचार पर अब 25 करोड़ रुपए ही लगाए जाएंगे

Rashtriya Sahara, August 28, 2014, P. 13
(Save the Girls Child)

नई उम्मीद हरियाणा के रेनवाली समेत कई गांवों में सुधरा सेक्स रेश्यो

1000 पर 2700 बेटियां

टीएनएन, चंडीगढ़

हरियाणा हमेशा से लड़कों के मुकाबले लड़कियों के गिरते सेक्स रेश्यो के लिए बदनाम रहा है, लेकिन अब खुशखबरी है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के छोटे गांव रेनवाली में प्रति एक हजार पुरुषों पर 2,750 महिलाओं का लिंगानुपात देखने में आया है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2011



गांव	सेक्स रेश्यो
रेनवाली (फतेहाबाद)	-2750*
खान मोहम्मद (फतेहाबाद)	-2000
लोटनी (कुरुक्षेत्र)	-1909
चुहारपुर (यमुनानगर)	-1818
अजीजपुर कलान (यमुनानगर)	-1750
समलेहरी (अंबाला)	-1444
मुरादपुर टकेना (रोहतक)	-1428
कोट (पलवल)	-1424
दोस (कैथल)	-1400
बरोली (फरीदाबाद)	-1375

(* प्रति हजार पुरुष)

के सेक्स में हरियाणा का लिंगानुपात पूरे देश में सबसे बुरा था। यहाँ 0-6 की उम्र में प्रति एक हजार लड़कों पर महज 834 लड़कियाँ थीं। रेनवाली पंजाब बॉर्डर के पास छोटा सा गांव है, जहाँ करीब 1,800 लोग रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग दलित पिछड़े वर्ग से हैं। गांव के सरपंच गुरकिरत सिंह इस बात से अनजान थे। उन्होंने प्रशासन को लिंगानुपात में सुधार का क्रेडिट दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर प्रसव पूर्व लिंग की जांच का खतरा मोल नहीं लेता।

जीन्स पहनने के डक में खाप एनबीटी न्यूज, जीद : हरियाणा में अलग महत्व रखने वाली कंडेला खाप के प्रधान और खाप पंचायतों के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला ने कहा कि जीन्स पहनना और मोबाइल रखना लड़कियों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी पहनावे या मोबाइल पर हमारी खाप बैन नहीं लगाती है।

Nav Bharat Times (H), August 12, 2014, P. 16
(Child Sex Ratio-Haryana)

Delhi govt gets newlyweds to take vow against female foeticide

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 17 August

As newlyweds Tarun and Swati got their marriage registered, they took another vow to complement the ones that solemnised their union, one which made them promise that they "shall not indulge in female foeticide".

In a significant initiative, Delhi government is asking all newlyweds to take an oath that they will not indulge in female foeticide and will take care of the girl child just like they would of the boys. The initiative by Revenue Department which kick-started on August 9 has so far had four newlyweds taking the pledge.

"We have started administering the oath to the newlyweds who visit the additional district magistrates' offices to register their marriage after tying the knot.

"The idea is to create awareness against female foeticide and encourage people to not opt for sonography to find out the sex of their children as that is illegal," said Som Naidu, ADM, Revenue Department.

But the official said that taking the pledge is not compulsory to get the marriage registered. "Couples do it voluntarily. We just request them to take the oath. We give them the handout and each of them reads it (the oath) aloud to take the vow," he said.

The initiative is the brainchild of North District Magistrate Mona Srinivas.

The move is in sync with Prime Minister Narendra Modi's vision. In his Independence Day speech, Modi drew attention to the skewed sex ratio in the country and appealed to the people to bring an end to female foeticide.

"Today sex ratio is 940 girls to 1,000 boys. Who is creating this imbalance? Not God. I want to appeal to the doctors not to kill the unborn girl child for money... I appeal to mothers and daughters, don't kill girls in the hope of a boy," Modi had said.

Stateman, August 18, 2014, P. 5
(Female Foeticide)

वार्षिक हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में खुलासा

जयपुर में बढ़ रहा लिंगानुपात

■ मीलवाड़ा में सबसे ज्यादा बेटियां

■ प्रदेश के सिर्फ आधा दर्जन जिलों में ही आ रही कमी

खूदी

कोटा@patrika.com

प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इन जिलों में लगातार दो वर्षों से लिंगानुपात घट रहा है। वहीं अन्य जिलों में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से कराए गए वार्षिक हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वर्ष 2012-13 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लिंगानुपात को समाप्त करने में भीलवाड़ा जिला नंबर वन रहा। यहां एक हजार लड़कों के मुकाबले 1027 बेटियां पैदा हुईं। वहीं जयपुर जिले में सबसे कम 830 बेटियां पैदा हुईं।

हाड़ोती में खूदी नंबर एक पर

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012-13 में लिंगानुपात में कमी लाने में हाड़ोती में खूदी नंबर एक पर रहा। खूदी में 921, बारान में 906, झालावाड़ 881 व कोटा में 852 लड़कियों का जन्म हुआ। हाड़ोती में लिंगानुपात में कोटा जिले की हालत सबसे खराब रही। वर्ष 2011-12 के आंकड़ों पर गौर करें तो कोटा में 862 लड़कियों के जन्म का अनुपात था, जिसमें सुधार के बजाए कमी आने से यहां वर्ष 2012-13 में लड़कियों की संख्या घटकर 812 रह गई। वहीं बारान में 903, झालावाड़ में 893 थी, जबकि खूदी में वर्ष 2011-12 में 907

आंकड़ों पर नजर

जिला	2011-12	2012-13	जिला	2011-12	2012-13
अजमेर	877	879	जयपुर	828	830
अलवर	872	872	जैसलमेर	832	835
बांसवाड़ा	920	944	जालौर	887	891
बारान	903	906	झालावाड़	893	881
बाड़मेर	914	916	झुंझुनू	853	857
भरतपुर	839	843	जोधपुर	875	877
भीलवाड़ा	992	1027	करौली	856	845
बिकानेर	924	926	कोटा	862	852
खूदी	907	921	नगौर	868	869
गिरीडीह	927	957	पाटी	904	921
चूरू	876	877	राजसमंद	846	842
दोसा	842	844	सवाईमधोपुर	804	842
दोलपुर	845	857	सीकर	859	859
इंदूरपुर	898	913	सिरोही	884	889
गंगानगर	863	866	टीक	929	941
हनुमानगढ़	844	845	उदयपुर	862	848

का अनुपात था, जिसमें सुधार हुआ और वर्ष 2012-13 में लड़कियों की संख्या 921 तक पहुंच गई। यानी खूदी जिले में लगातार दो वर्षों में लिंगानुपात में कमी आई है।

सख्ती का दिखा असर

बीते तीन वर्षों में सोनोग्राफी मशीनों पर हुई सख्ती के चलते भी खूदी जिले सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में अच्छे परिणाम नजर आए। एक्टिव ट्रेकर लगान से कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है। इसके अलावा सरकार की शुभ लक्ष्मी योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाओं का भी असर दिखा।

जारी हैं प्रयास

बीते वर्षों में लिंग परीक्षण के मामलों को लेकर सख्ती की गई है। सोनोग्राफी मशीनों पर एक्टिव ट्रेकर लगाए हैं। सरकार की योजनाओं से भी लोगों में जागरूकता आई है। खूदी जिले में दो वर्षों से लिंगानुपात में कमी आई है।

राजीव लोधन गौराम, डिव. अम्बुलकर, पी.डी.एस.डी.सी. सेन खूदी

Rajasthan Patrika August 21, 2014, P. 7
(Girl Child Sex Ratio)

दिल्ली में लिंगानुपात 886 से बढ़कर 895 पहुंचा

राजधानी में 1000 बेटों पर नौ बेटियां बढ़ गईं

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

राजधानी में लड़के लड़कियों के बीच का भेदभाव अब कम हुआ है। लड़कियां बढ़ रही हैं और जन्मदर अनुपात नियंत्रित हो रहा है। सिर्फ एक साल के आंकड़ों से ये ताजा संकेत मिले हैं। 2013 में प्रति 1000 बेटों पर 9 बेटियां बढ़ गईं हैं। वर्ष 2012 यह आंकड़ा 886 था, जो 2013 में बढ़कर 895 पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 1000 लड़कों पर केवल 809 लड़कियां थीं। पांच साल के रिकार्ड बताते हैं कि इन सालों में लड़कियों की संख्या में कमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 2008 में 1000 लड़कों पर यह अनुपात 1004 लड़की तक पहुंच गया था। इसकी प्रमुख वजह लाडली योजना बताई गई थी। लेकिन इसके बाद से ही इसमें गिरावट आई थी। गिरावट 2012 तक रही है व इसके बाद यह बढ़ोतरी देखी गई है। यह रिपोर्ट विशेष सचिव बी.के. शर्मा ने तैयार की है। रिपोर्ट 2012-13 के आधार पर तैयार की गई है। इस दौरान 195226 लड़के (52.76 प्रतिशत) व लड़कियां 174774 (47.44 प्रतिशत) का जन्म हुआ है। इसमें 3.02 लाख (81.75 प्रतिशत) विभिन्न संस्थानों में और 0.68 लाख (18.25) बच्चे घर में जन्मे हैं। कुल 302453 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से

दिल्ली सरकार की रिपोर्ट



पांच साल में 1000 लड़कों पर अनुपात में लड़कियां	वर्ष	अनुपात	क्या रही दर
	2013	895	जन्म दर : 2012 में 1000 पर 20.07% थी, जो 2013 में बढ़कर 21.07% हुआ है
	2012	886	मृत्यु दर : 2012 में 1000 पर 6.10% थी, जो 2013 में 5.52% दर्ज की गई
	2011	893	
	2010	901	
	2009	915	

क्या हैं खास बातें

वर्ष	वर्ष 2013	वर्ष 2012
मद	3.70 लाख	3.60 लाख
जन्म पंजीकरण	1014	988

20-24 वर्ष की महिलाएं बनीं अधिक मां

आंकड़े बताते हैं कि अधिक संख्या में मां बनने वाले महिलाओं की औसत आयु 20-24 वर्ष रही है। इस उम्र की 49.48% महिलाएं मां बनीं हैं।

मृत्यु दर में गिरावट

दिल्ली में 2013 में 97185 मृत्यु दर्ज की गईं हैं। जो बीते वर्ष 2012 में 104616 थीं। इनमें 60447 (62.20%) पुरुष और 36738 महिला थीं। प्रतिदिन मृत्यु की दर 2012 में 287 थी जो 2013 में 266 दर्ज की गई है।

198954 (65.78 प्रतिशत) सरकारी अस्पतालों में और इनमें 141521 (46.79 प्रतिशत) लड़कियां थीं। संस्थानों से बाहर हुए 67547 बच्चों में 33253 (49.23) प्रतिशत लड़कियां थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 6.73 बच्चे और 93.76 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्र में पैदा हुए हैं।

उत्तरी दिल्ली में हुए अधिक बच्चे

- एमसीडी में 3.26 लाख
- एनडीएमसी में 0.41 लाख
- छावनी परिया में 0.031 लाख
- उत्तरी दिल्ली में 34.78% पैदा हुए जो सबसे अधिक थे

Hindustan (H), August 23, 2014, P. 5
(Sex Ratio)

कन्या भ्रूणहत्या : पीएम के बयान के बाद केंद्र सख्त

ज्ञानेंद्र सिंह/एसएनबी

नई दिल्ली। लाल किले के प्राचीर से वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बोला, मगर कन्या भ्रूण हत्या पर उनके बयान को समाज ने किन अर्थों में लिया, यह तो समय बताएगा, लेकिन जन्म पूर्व लड़का होगा या लड़की, यह बताने वाले लिंग जांच कैरेट की मुद्रिकलें बढ़ गईं हैं। भाषण के बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दिशा में और सख्त कदम उठाने के साथ ही मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीनों पर भी शिकंजा कसने की ठान ली है।

दरअसल अभी तक प्रसव पूर्व लिंग जांच कानून (पीएनडीटी एक्ट) तो था, मगर वह केवल उन्हें इमेजिंग सेंटरों या अल्ट्रा साउंड केंद्रों में लागू होता था जहां पर इसकी सूचना सरकारी स्तर पर दी जाती थी। राज्य सरकारों ने इन्हें केंद्रों व अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनों को सूचीबद्ध कर लिया और समय-समय पर इन्हें मशीनों के रिकार्ड व डाक्टरों द्वारा किए गए अल्ट्रा साउंड पर नजर रखती थी। प्रसव पूर्व लिंग जांच कानून का सख्ती से पालन इसलिए नहीं हो पाता था, क्योंकि डाक्टरों की मिलीभगत की वजह से इस कानून के तहत कार्रवाई करने वाली एजेंसियों को यह पता ही नहीं लग पाता था कि कब और कहाँ किस गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड हो गया और उसे यह भी बता दिया गया कि

उसके गर्भ में लड़का नहीं, बल्कि लड़की है। इस तरह की मौखिक रिपोर्ट के बाद गर्भवती महिला अपने पति या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की परामर्श के बाद किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपना गर्भपात करा लेती थी और बिना जन्म लिए ही एक कन्या का कोख में ही कत्ल कर दिया जाता था। इसी का नतीजा था कि तमाम प्रयासों के बाद भी यह काम रुक नहीं रहा है और लिंग अनुपात में सुधार के बजाय अंतर बढ़ता जा रहा है।

इस बीच मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) ने भी इस तरह के डाक्टरों के खिलाफ जांचकानून तैयार कर दिया तो उसकी काट निकालते हुए अल्ट्रासाउंड डाक्टरों ने विदेशों से विशेष किस्म की मोबाइल व पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदना शुरू कर दिया और गर्भवती महिला को इमेजिंग सेंटर या अल्ट्रासाउंड केंद्र पर बुलाने के बजाय डाक्टर यह मशीन लेकर उनके घर जाने लगे और वहीं पर इसकी जांचकर गुपचुप रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस रैकट का भंडाफोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस तरह की मशीनों का कोई लेखा-जोखा नहीं है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने न केवल इस तरह की मशीनों का डायट तैयार करने का फैसला लिया है, बल्कि लिंग जांच के विरुद्ध नजर रखने वाली एजेंसियों के साथ उन संगठनों को भी जोड़ने का मन बनाया है जो महिला हितों व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है।

- स्वास्थ्य मंत्रालय अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटा
- लिंग जांच कैरेट के खिलाफ अभियान, मोबाइल अल्ट्रासाउंड पर कसेगा शिकंजा
- मोबाइल मशीनों द्वारा होने वाले अल्ट्रासाउंड का भी रखना होगा लेखा-जोखा

Rastriya Sahara, August 19, 2014, P. 9
(Female Foeticide)



Hindustan Times, August 18, 2014, P. 7
(Female Foeticide)




Jansatta, August 18, 2014, P. 4
(Female Foeticide)

1.5 Child Welfare -other issues (Registration-Child Adoption/Cyber Bulling)



Rajasthan Patrika (H), August 7, 2014, P. 8
(Registration-Child Adoption)



The Assam Tribune, August 20, 2014, P. 13
(Cyber Bulling)

2. Health and Nutrition issues

2.1 Child/Adolescent Health (Ebola/Tuberculosis/Diarrhoea/Rubella Vaccination Programme/Universal Immunisation Programme)



Dainik Jagran (H), August 5, 2014, P. 6

(Rubella Vaccination Programme)




The Pioneer, August 9, 2014, P. 12

(Ebola)

SHOULD WE BE WORRIED?

Ebola is a terrifying virus, no doubt, but it is far less contagious than the flu or tuberculosis, which makes its containment possible



EBOLA ALERT!

WHAT IS EBOLA?
Ebola is a highly-contagious virus that breaks down the cell wall of blood vessels and triggers extensive internal and external bleeding. The virus has killed 60% of those infected in the current outbreak.

WHAT ARE THE SYMPTOMS?
Initial symptoms include sudden onset of fever, muscle pain, weakness, headaches, a sore throat and vomiting and diarrhoea. As the infection worsens, external and internal bleeding causes those infected to die from shock.

WHO'S AT RISK?
Health workers, family members and mourners who come in direct contact with infected bodies are the most at risk. People can also get infected by handling soiled clothing or bed sheets without protection.
In Africa, people also get the disease by eating infected bushmeat, as Ebola can sicken animals including fruit bats, chimpanzees and antelopes.

HOW CAN I PROTECT MYSELF?
A person becomes contagious only after symptoms appear. Anyone with symptoms should be treated in isolation by health workers in protective gear, such as masks and gloves.
Those who have had direct contact with an Ebola patient should take their temperature twice a day for three weeks, as the incubation period varies from 2-21 days. People with symptoms should be isolated and tested.

RECENT SPREAD OF DISEASE
No. of cases, deaths in the affected countries from March to Aug 6, 2014

Country	Cases	Deaths
Guinea	495	367
Liberia	554	294
Sierra Leone	717	298
Total*	1,779	961

**Includes 13 cases and 2 deaths in Nigeria*

HOW IS IT TRANSMITTED?

- In Africa, the infection has been documented through the handling of infected chimpanzees, gorillas, fruit bats, forest antelope and porcupines found ill or dead in the rainforest.
- Ebola is introduced into the humans through close contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected animals.
- The virus also spreads in the human population through human-to-human transmission, with infection resulting from direct contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected people, and indirect contact with environments contaminated with such fluids.

YOU CAN'T GET EBOLA

- Through air
- Through water
- Through food

HOW IS IT TREATED?
There is no cure. Treatment involves relieving the symptoms in strict isolation. No licensed vaccine for Ebola virus disease is available. Several vaccines are being tested but none are available for clinical use.

ARE THERE ANY TRAVEL RESTRICTIONS?
India has issued a travel advisory against nonessential travel to Guinea, Sierra Leone and Liberia. People returning to India after transiting through these countries should report symptoms to airport authority.

HELPLINE In case of symptoms after travel to West Africa, call:

DELHI Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Dist: 011-23061469, 3205 and 1302	MUMBAI Jogeshwar trauma-centre 022-28224081	Kasturba Hospital 022-23027700
--	--	-----------------------------------

Source: WHO

Hindustan Times, August 10, 2014, P. 15
(Ebola)

TB cases, deaths on a rise in older children

RTI REVEALS 74 teens succumbed to it in the last 3 years

Sidhartha Dutta
 ■ Sidhartha.dutta@hindustantimes.com

NEW DELHI: More older children are falling prey to childhood tuberculosis (TB), an RTI query has revealed. A total of 124 childhood TB deaths were recorded in the past three years.

Year-wise, however, the total number of deaths has actually gone down.

The RTI plea revealed that the highest number of deaths (74) was recorded among children in the age group of 14-18. There were 35 deaths among children between 10 and 14 years. The one to 10-year group recorded 15 deaths in three years.

Similarly, the number of TB cases reported show that children in the older age group are more susceptible to the disease.

Of the total number of childhood tuberculosis cases (16,542) in Delhi in three years, the highest was recorded in the age group of 14-18 (8,989), followed by aged between 10 and 14 (4,450).

This means that incidence of tuberculosis almost doubles with increasing age.

"There is a sudden spurt in the prevalence as well as mortality among children in the age group of 10-14 years, which doubles in the age group of 14-18 years," said Arvind Singh, a child rights activist, who filed the RTI application.

"Most children who are affected by tuberculosis live in slums and densely populated areas. It is likely that children who were vaccinated lose their resistance power to the disease as they grow older and become prone to TB as they live in poor conditions such as poor hygienic conditions, bad food habits and other environmental factors," said Dr Anil Bansal, member, Delhi Medical Council (DMC).

"TB is both curable and preventable, hence an integrated approach for strengthening primary health care system, awareness among community, complete vaccination of children and community-based preventive strategies are required," added Singh.

KILLER DISEASE

The number of TB cases reported show that children in the older age group are more susceptible to the disease.

Age-wise status of children who were diagnosed and died due to TB during 2011-2013

Age Group	No. of cases	No. of deaths
1-3 year	350	2
3-6 year	812	5
6-10 year	1,941	8
10-14 year	4,450	35
14-18 year	8,989	74

Hindustan Times, August 4, 2014, P. 4
 (Tuberculosis)

Universal immunisation to go on: Centre to SC

NEW DELHI: The Centre has told the Supreme Court it will continue to pursue its free programme as it was not only life-saving for the 2.7 crore children born every year in the country but also helped them avoid diseases like diphtheria, whooping cough and tetanus.

In an affidavit, the Health and Family Welfare Ministry submitted that it was committed to ensuring that the benefit of modern scientific inventions, such as vaccines, reach all sections of society, irrespective of their buying capacity.

It said the World Health Organisation has recommended the immunisation programme. Besides, it has been endorsed by Indian Council of Medical Research and the Indian Academy of Paediatrics.

"The government is committed to reduction in child mortality as an estimated 14 lakh children below five years of age die annually due to various preventable causes. Immunisation is one of the most cost-effective public health interventions in reducing mortality and morbidity due to vaccine-preventable diseases," it said.

The government was making its stand clear in response to a petition filed by Dr Yogesh Jain, who had contended that the government must stop the pentavalent vaccination programme.

The pentavalent vaccine is a combination of vaccines to five diseases—diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and haemophilus influenza type b—which lead to meningitis, pneumonia and otitis. Together, these infections cause a substantial number of deaths and disabilities if children are not vaccinated, it added.

The government also pointed out that private practitioners charge Rs 6,000 for this vaccine, which would be beyond the reach of poor people. "At this enormous cost, the poor and the neediest are the ones whose children are deprived of this protection against illness, death and disability," it said.

It further said that the same pentavalent vaccine was used without any cause for concern in 85 countries globally and in various other combinations in 184 countries.

The government rejected a contention of the petitioner that 54 deaths took place due to the pentavalent vaccine, terming it as "absolutely baseless and without any merit".

DH News Service

The Health and Family Welfare Ministry has submitted that it is committed to ensuring that the benefits of modern science, such as vaccines, reach all sections of society.

Deccan Herald, August 19, 2014, P. 8
 (Universal Immunisation Programme)

खतरनाक डायरिया बीमारी पर जागी केंद्र सरकार

घर-घर पहुंचेगा ओआरएस का मुफ्त पैकेट

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

डायरिया यानी दस्त से होने वाली बच्चों की मौत पर लगातार लड़ाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत छोटे बच्चों वाले देश के हर परिवार तक ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन) का पैकेट और जिंक की टैबलेट मुफ्त पहुंचाई जा रही है। दस्त और डिहाइड्रेशन के मामलों की जल्दी पहचान और निदान के उपायों सहित इस अभियान में और भी कई इंतजाम शामिल हैं। गौरतलब है कि हर साल करीब दो लाख बच्चे डायरिया की वजह से ही दम तोड़ देते हैं। अगर उन्हें मामूली सा ओआरएस पाउडर या नमक-चीनी का घोल मिल जाए तो इनका जीवन बच सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र वाले सभी परिवारों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इन परिवारों को डायरिया से बचाव के तरीके बताने के साथ ही ओआरएस के पैकेट और जिंक की टैबलेट भी मुहैया करवाई जा रही है। ताकि जरूरत पड़ने पर इसका तत्काल उपयोग किया जा सके। अभियान में नवजात बच्चों को स्तनपान करवाने के सही तरीके के बारे में माताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस समय देश में पांच साल से छोटे बच्चों की मौत के 11 फीसदी मामलों का मुख्य कारण डायरिया ही होता है। दो साल तक बच्चों को इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसी तरह जो बच्चे पहले से कुपोषण के शिकार हैं, वे भी अक्सर दस्त का सामना कर पाने में नाकाम होते हैं। दस्त से उबरने वाले बच्चों को कुपोषण का खतरा भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी वजह से वे पहले ही कमजोर हो चुके होते हैं। जानकारों का मानना है कि सिर्फ समय पर ओआरएस, जिंक और पोषक खुराक उपलब्ध करवाने भर से ऐसी मौतों को रोका जा सकता है।

देश के अनेक हिस्सों में बारिश के मौसम में डायरिया धिकराल रूप धारण कर लेता है। सुदूरवर्ती गांवों में जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से इस बीमारी और भी गंभीर रूप अख्तियार कर लेता है। अब केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने पर राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है।

जागरण विशेष

- देश में पहली बार डायरिया से होने वाली मौतों पर लगातार के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान
- हर साल दो लाख नौनिहालों की जान लेता है डायरिया

Dainik Jagran (H), August 20, 2014, P. 6 (Diarrhoea)

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को करेंगे स्वस्थ

टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सीडी जारी करने के दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने की टिप्पणी

राज्य ध्वरे, नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 'फूल खिल जाएंगे' गाने की वीडियो सीडी जारी की, ताकि लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने देश में 30 से 35 फीसद बच्चों का टीकाकरण नहीं होने पर चिंता जाहिर की और कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। लोगों के स्वास्थ्य से पहले राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों का स्वास्थ्य टीका करेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद बिहार, ओडिशा, कर्नाटक आदि राज्यों में जाकर स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर चुका हूँ। स्वास्थ्य के मामले पर कोई राजनीति नहीं होगी। भाजपा शासित राज्य हो या गैर भाजपा शासित, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में पांच



ताज पैलेस हॉटल में टीकाकरण की जागरूकता को लेकर बच्चों की संगीत वीडियो फूल खिल जाएंगे जारी करने के दौरान फिल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, जावेद अख्तर, संगीत निर्देशक ललित पंडित व गायक सोनू निगम।

- ◆ 30 से 35 फीसद बच्चे टीकाकरण से रह जाते हैं वंचित
- ◆ लोगों से स्वास्थ्य सैनिक बनने की अपील की

लोगों के लिए स्वास्थ्य पैकेज

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत सरकर लोगों के लिए 'प्रिवेंटिव व प्रोटेक्टिव हेल्थ पैकेज' शुरू करने का प्रयास कर रही है। इसके तहत हर व्यक्ति को कुछ दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य की देखरेख खुद कर सकें।

उन्होंने पोलियो अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए लोगों से जागरूकता अभियान से जुड़ने की अपील की।

Dainik Jagran (H), August 20, 2014, P. 12

लक्ष्य : अभी महज 65 फीसद बच्चों को ही लग पा रहे हैं टीके

तीन साल में 90% बच्चों तक टीका

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने नौनिहालों की उपेक्षा का कलंक धोने के लिए कसर कस रही है। इसके तहत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार तेज कर अगले तीन साल में 90 फीसद बच्चों तक टीके पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देश में महज 65 फीसद बच्चों को ही सभी टीके लग पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (यूआइपी) में चार नए टीके शामिल करने और इसकी पहुंच को विस्तार देने की तैयारियों में जुट गया है। मंत्रालय के टीकाकरण कार्यक्रम में साझेदार पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) के चाइस प्रेसीडेंट (सोप और नीति) रमण लक्ष्मी नारायण 'दैनिक जागरण' से बातचीत में बताते हैं कि इसकी पहुंच को बढ़ाने के प्रयास ऐतिहासिक रफ्तार हासिल करने वाले हैं।

योजना के मुताबिक अगले तीन साल के अंदर एक करोड़ अतिरिक्त बच्चों तक सारे टीके पहुंचाने हैं। इसके लिए पहले छह महीने में दस लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक साल बाद इसकी रफ्तार को और तेज किया जाएगा। लक्ष्मीनारायण के मुताबिक आने वाले दो महीने के अंदर यह तैयारियां पूरी कर इसका एलान कर दिए जाने की उम्मीद है। अगर यह लक्ष्य हासिल किया जा सका, तो सालाना एक लाख नवजात बच्चों की मौत पर काबू पाया जा सकेगा। भारत में सालाना लगभग 2.7 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब दो साल तक के बच्चों को 13 खतरनाक बीमारियों के टीके लगाए जाने हैं। अगर अब तक यह कार्यक्रम सिर्फ 65 फीसद बच्चों तक ही पहुंच पाया है।

टीकाकरण कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए मशहूर शख्सियतों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को जोड़ने के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शरीक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने चार नए टीकों को सरकारी कार्यक्रम में शामिल करने का एलान किया था। इनमें रुबेला, गेटावायरस के टीके पहली बार शुरू किए जाएंगे। जबकि, पोलियो के इंजेक्टिवल टीके पुराने डॉप की जगह सेंगे और जापानी इन्फेलाइटिस (जेई) के टीके इस बीमारी के प्रभाव वाले इलाके में अब वयस्कों को भी लगाए जाएंगे।

विशेष

दैनिक जागरण

टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार तेज करने जा रही सरकार

Dainik Jagran (H), August 21, 2014, P. 18

कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के लिए मसविदा तैयार

पटना, 10 अगस्त (भाषा)। बाल कुपोषण दर को 2018 तक घटाकर 20 फीसद करने के लिए राज्य पोषण नीति बनाने का निर्णय किया गया है और इसके तहत बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बाल कुपोषण मुक्त बिहार 2014-18 का अंतिम मसविदा तैयार कर लिया है।

समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने बताया कि राज्य पोषण नीति के अंतर्गत तैयार किए गए बाल कुपोषण मुक्त बिहार के माध्यम प्रदेश में मानव विकास मिशन के तत्वावधान में बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या के हल को प्राथमिकता दी गई है।

2006 के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में प्रत्येक 100 बच्चों में औसतन लंबे समय से लंबाई नहीं बढ़ने के शिकार हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 50 है। बुखार, दस्त, निमोनिया या उससे अधिक घातक रोग यथा टीबी या खसरा के बाद पर्याप्त भोजन नहीं करने से शरीर का विकास रुकने के शिकार बच्चों की संख्या है। इन दोनों कारणों के कारण कम वजन होने के शिकार बच्चों की संख्या 55 थी।

2010 में बिहार के 38 जिलों में से 23 जिलों में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में प्रत्येक 100 बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ने के शिकार बच्चों की सबसे अधिक संख्या 65 किशनगंज जिला में पाई गई जबकि इनकी सबसे कम संख्या 43 कैमूर जिले में थी। सर्वेक्षण के मुताबिक प्रत्येक सौ बच्चों में विकास रुक जाने से पीड़ित बच्चों की सबसे अधिक संख्या 15 जमुई जिले में और सबसे कम सात मधुबनी जिले में थी।

सिन्हा ने बताया कि 2010 के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रत्येक 100 बच्चों में कम वजन के बच्चे सबसे अधिक 59 औरंगाबाद जिला में और सबसे कम 34 बेगूसराय जिले में पाए गए थे।

उन्होंने कहा कि इस संख्या में मौसम के अनुसार बदलाव आता है। जाड़े की तुलना में गर्मी के मौसम में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी उन्हें अधिक दस्त होने और कम खाने से होती है।

कुपोषण में वृद्धि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। उदाहरण के लिए एक महीने के दस बच्चों में से एक या दो लंबाई नहीं बढ़ने के शिकार पाए गए पर दो साल की आयु तक पहुंचने में इसकी संख्या बढ़ कर छह से सात हो गई।

नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस 3) के आंकड़े के अनुसार बिहार में 2006 में कम वजन वाले बच्चों (शून्य से 59 महीने के आयु वर्ग) जिनकी संख्या 55 फीसद थी, उसे मानव विकास मिशन के तहत इस साल के अंत तक घटा कर 42 फीसद तक किया जाना है और 2015 और 2016 में घटा कर क्रमशः 37 व 33 और 2017 में उसे 30 फीसद से कम किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस 3) के आंकड़े के अनुसार बिहार में 2006 में 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में खून की कमी की शिकार महिलाएं जिनकी संख्या 67 फीसद थी, उसे मानव विकास मिशन के तहत इस वर्ष के अंत तक घटा कर 49 फीसद किया जाना है और 2015 और 2016 में घटा कर क्रमशः 43 और 38 व 2017 में उसे 34 फीसद से कम किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल कुपोषण मुक्त बिहार के अंतिम मसविदे के अनुसार राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाना है वह उनके दो साल की आयु तक पहुंचने के पहले करना होगा नहीं तो उसके बाद काफी देर हो जाएगी। सिन्हा ने बताया कि मानव विकास मिशन बिहार सरकार का अनूठा प्रयास है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक नागरिक का विकास किया जाना है।

मिशन का मानना है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी, शौचालय, आजीविका के साथ उसके सशक्तीकरण के साथ लैंगिक और सामाजिक असमानता को दूर किया जाना जरूरी है। मिशन के अंगीकार किए गए मानव विकास के 23 मानकों में से आधे पोषण से जुड़े हैं।

बिहार में मिशन को मंत्रिपरिषद की उप समिति का दर्जा हासिल है और इसके पदेन अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री और इससे संबंधित विभाग के मंत्री इसके सदस्य हैं। मानव विकास के मानकों में पोषण की केंद्रित भूमिका को देखते हुए बिहार सरकार मानव विकास मिशन के तत्वावधान में एक राज्य पोषण नीति तैयार कर रही है और राज्य सरकार ने बाल कुपोषण दर को 2018 तक घटा कर 20 फीसद करने के लिए राज्य में एक अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है।

Jansatta (H), August 11, 2014, P. 7
(Malnutrition-Bihar)

2.4 Women Health/Reproductive Health (Breast Feeding/Breast Cancer/Hepatitis-B)



**The Assam Tribune, August 9, 2014, P. 8
(Breast Feeding)**

ब्रेस्ट फीडिंग पर न हों कंप्यूज

दोनों तरफ बराबर फीड करवाएं
ऐसा करना जरूरी नहीं है कि बच्चे को दोनों तरफ से बराबर फीड करवाया जाए, वरना साइज में फर्क हो जाएगा। यह तो बच्चे को फीड करने की मांग पर डिपेंड करता है कि वह किधर से पीना पसंद करता है।

वहुत-सी मांओं में दूध कम बनता है
95 फीसदी तक महिलाएं पहले दिन से ही ब्रेस्ट फीडिंग कराने में सक्षम होती हैं। 3-4 दिन बाद तक प्लो कम होता है, लेकिन डंग से फीड कराने पर यह बच्चे के लिए काफी होता है। पहले 48 घंटों में बच्चे को 5 से 15 मी/फीड की जरूरत होती है। यहाँ डिमांड और सप्लाय का नियम लागू होता है। बच्चा जितना ज्यादा मां का दूध पीता है, उतना ही शरीर में दूध अधिक बनता है।



मिथ मंथन
प्रियंका सिंह

लेटकर फीड न कराएं
लेटकर फीड करवाना एकदम सुरक्षित और आरामदायक होता है। इसी तरह हर फीड के बाद निपल्स स। फ

करना भी जरूरी नहीं है। ऐसा करने से निपल्स में छाले या दरार पड़ सकती है।
ब्रेस्टफीडिंग से ब्रेस्ट डल जाती है डॉ. भसीन का कहना है कि प्रेग्नेंसी, जेनेटिक और उम्र के कारण ब्रेस्ट डलती है, न की ब्रेस्टफीडिंग के कारण।
मिक्स फीडिंग अच्छी होती है
अगर आप यह सोचें कि दोनों तरीके से दूध दें तो अच्छा होगा तो यह सोचना गलत है क्योंकि अगर बच्चे को बाहर का दूध भी दिया जाए तो ओवरफीडिंग हो सकती है। इससे मां के दूध की सप्लाय भी कम होती है।

कितना दूध पिया जानना नामुमकिन
बी. एल. कपूर हॉस्पिटल में पिटिएटिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. जसजीत सिंह भसीन के मुताबिक बच्चे के जन्म के चौथे दिन, अगर बच्चा 6 से 8 बार अच्छी तरह शू-शू करता है और दिन में 2 बार पॉटी करता है, फीड के बाद सो जाता है और वजन सभी बढ़ रहा है तो इनका मतलब हुआ कि उसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है।

मां बीमार है तो फीड न कराएं
मां का दूध बच्चे के लिए एंटीबायोटिक होता है, जो उसे हर बीमारी से बचाता है। अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी इससे कम होती है। बुखार या जुकाम में भी मां फीड करवा सकती है। एचआइवी, टीबी या एचटीएलवी 1 हो तो मां ब्रेस्ट फीडिंग न कराए।

Nav Bharat Times (H), August 3, 2014, P. 5 (Breast Feeding)

Breast cancer cases likely to go up, says expert

BANGALORE, DHNS: Breast cancer, among women, is expected to increase by 2020, according to Dr Anthony V Pais, Chief of Breast Oncology Service, Mazumdar Shaw Medical Centre.

Briefing reporters, here on Friday, he said that breast cancer is the most common form of cancer among women in Bangalore where incidence rate is 30.7 per cent for every lakh of population. Observing that according to Indian Council of Medical Research for every eight lakh population, among urban India, there is incidence rate of 22-26 per cent developing breast cancer. Stating that this had to do with lifestyles where Indian women's age of developing breast cancer tentatively begins at 47 whereas in the West it is 10 years later. Twenty years ago, girls entered menstrual cycle at 18-19, but now children as young as 10 start their cycles. With more estrogens developing at early age, there is tendency of women developing breast cancer, he added.

Noting that breast reconstructive surgeries are conducted in sophisticated manner and safe with no additional cost, plastic surgeon Dr Ashok Kaul, said it is awareness that is required.

Incidentally, Brascon 2014 (Breast Reconstructive & Aesthetic Surgeons), organised at Sparsh Hospital, will see over 150 delegates and doctors from across the world attending the three-day event.

Deccan Herald, August 9, 2014, P. 2 (Breast Cancer)

60 फीसद गर्भवती महिलाएं हेपेटाइटिस-ई के निशाने पर!

ज्ञानप्रकाश/एसएनबी

नई दिल्ली। गर्भवती महिलाओं में प्रदूषित पानी पीने से हेपेटाइटिस-ई की आशंका ज्यादा रहती है। एम्स के स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा एक हजार महिलाओं पर कराए गए अध्ययन में पाया गया है कि गंदा पानी पीने से 60 फीसद महिलाओं के लिवर (लिवर) में संक्रमण पाया गया। लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी) में पाया गया कि इनमें से ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के लिवर फेल होने की नीबत आ गई थी। इसे सामान्य करने के लिए डॉक्टरों को काफी मशकत करनी पड़ी। अध्ययन के मुताबिक सामान्य महिलाओं में संक्रमण का खतरा 30 फीसद और पुरुषों में करीब 23 फीसद पाया गया। यही नहीं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी संक्रमण का खतरा 60 फीसद रहता है। स्टडी के मुताबिक हेपेटाइटिस-ई से करीब 60 फीसद गर्भवती महिलाओं का लिवर फेल जाता है। बता दें कि हेपेटाइटिस-ई का खतरा गर्भवती महिलाओं में सामान्य महिलाओं की तुलना में दोगुना होता है। एक हजार लोगों पर फिचले 10 साल के दौरान एम्स में यह अध्ययन किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट शीघ्र ही इंडियन गायनकालॉजी एंड आब्स्ट्रीशियन्स जर्नल में प्रकाशित होगा। एम्स में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के प्रो. डॉ. एस्के आचार्य की देखरेख में 12 सदस्यीय डॉक्टरों द्वारा यह अध्ययन किया गया। डॉ. आचार्य ने कहा कि हेपेटाइटिस-ई का सीधा असर लिवर पर पड़ता है और 60 फीसद तक लिवर डैमेज हो जाता है। वायरल की वजह से ब्लूडिंग बढ़ जाती है। यही नहीं गर्भ में पल रहे बच्चे की डेथ तक हो सकती है। ऐसे मामलों में तेज बुखार के साथ आंखे सफेद पड़ने लगती हैं और थकान का एहसास होता है।

- एम्स के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के अध्ययन का खुलासा
- प्रदूषित पानी पीने से हेपेटाइटिस-ई का खतरा
- लिवर भी काम करना कर सकता है बंद
- प्रेग्नेंसी में बाहर की खाने-पीने की वस्तुओं के सेवन से बर्ते

Rashtriya Sahara (H), August 26, 2014, P. 7 (Hepatitis-B)

35 फीसद महिलाएं करा रहीं स्तनपान : संगीता

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : पांच साल तक के बच्चों की मृत्युदर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कुपोषण है। समय से स्तनपान और पूरक आहार न मिलने के कारण कुपोषण बढ़ रहा है। आज सिर्फ 35 फीसद महिलाएं ही नवजात को स्तनपान करा रही हैं। यह स्थिति काफी विकट है। यह कहना है कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) डॉ. संगीता रानी का। गुरुनग बहादुर अस्पताल में स्तनपान और पूरक आहार विषय पर चल रही कार्यशाला से इनर दैनिक जागरण से संक्षिप्त बातचीत में डॉ. संगीता रानी ने यह बात कही।

जीटीवी अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. एमएमए फरीदी के निर्देशन और संगीता रानी के सह निर्देशन में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई) की तरफ से आयोजित 15 दिवसीय कार्यशाला में शुक्रवार को चार प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें स्तनपान, पूरक आहार, एचआईवी पॉजिटिव माताओं और बच्चों का विकास शामिल है। कार्यशाला की संयोजक फारिहा सिद्दिकी ने बताया कि कार्यशाला में संक्रमण से बचने के लिए हाथ को साफ करने के छह तरीके बताए गए। इसके अलावा किस वजन के बच्चों को कितना दूध पिलाना जाए, इस पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि जन्म के पहले दिन नवजात को 60 एमएल प्रति किलो के हिस्सा में दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद 20-20 एमएल प्रतिदिन इसकी मात्रा बढ़ानी

जीटीवी अस्पताल में स्तनपान व पूरक आहार पर चल रही कार्यशाला

कहा, स्तनपान व पूरक आहार के अभाव में बढ़ रहा कुपोषण



गुरुनग बहादुर अस्पताल में स्तनपान और पूरक आहार पर आयोजित वर्कशॉप में मौजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी।

जागरण

कार्यशाला से इनर डॉ. संगीता रानी ने कहा कि स्तनपान के लिए माताओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जागरूकता फैलाने के बाद इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन राज्यों में स्तनपान करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

इसे आठ बार में दिया जाना चाहिए। कार्यशाला के अंतर्गत (बीपीएनआई) और महिला एवं विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (एनआईपीसीडी) के अधिकारियों को अस्पताल के वार्ड में मरीजों के बीच भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

Dainik Jagran (H), August 23, 2014, P-IV (Breast Feeding)

कवाराद ♦ एनीमिया और जीवन शैली जनित बीमारियों के समाधान में मदद करेगी

महिला स्वास्थ्य पर समिति का गठन

जल्द-डॉ. हर्षवर्धन

नई दिल्ली
jalpur@patrika.com

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जल्दी ही समिति का गठन किया जाएगा। समिति जो भी सिफारिशें देगी उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। नई स्वास्थ्य नीति युवा शहरी महिलाओं में प्रजनन संबंधी बीमारियों की बढ़ती समस्याओं, एनीमिया और जीवन शैली से पैदा होने वाली बीमारियों के समाधान में मदद करेगी।

गुरुवार को लक्ष्मीबाई कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को स्वस्थ बनाने के लिए महिलाओं का स्वस्थ रहना जरूरी है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी है। प्रत्येक महिला को अपने बच्चों के लिए मां, शिक्षक और सामूहिक मूल्यों के संरक्षक के नाते कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है।

मातृ मृत्युदर कम करना प्राथमिकता

हर्षवर्धन ने कहा कि मातृ मृत्युदर कम करना, महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना और मां और बच्चे के विकास कार्यक्रमों में मजबूती लाना उनके मंत्रालय की मुख्य प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने महिलाओं में शराब और धूम्रपान की बढ़ती लत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंस बेंगलूरु ने नशीली दवाओं और शराब की शिकार महिलाओं के लिए विशेष वार्ड खोला है। यह राष्ट्र के लिए खतरनाक संकेत है। इस चुनौती से निपटने में समाज को भी सरकार की मदद करनी चाहिए।

योग की सलाह

हर्षवर्धन ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली की बढ़ती हुई चुनौतियों से हमारा मंत्रालय चिंतित है। काम के तनाव, खाने-पीने और सोने की गलत आदतों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है जो कई बीमारियों को ला रहा है। सामाजिक-धार्मिक और परोपकारी समूहों को इस संकट से मुकाबला करने में सरकार को सहायता चाहिए। संकट की इन वर्तमान स्थिति में फिट रहने के लिए उन्होंने योग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि योग विश्व को भारत की देन है और यह शरीर को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है।

Rajasthan Patrika (H), August 29, 2014, P. 14
(Woman Health)

PM wants health insurance for all

AGENDA Health ministry has been working on reforms to entail affordable health facilities for everyone

Chetan Chauhan
chetan@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi has called a meeting on health reforms this week in which the format of the health insurance for all, setting up medical colleges in each district and a three-year BSc course in community health are likely to be discussed.

Improving public health facilities had been high on PM Modi's agenda and health minister Harsh Vardhan has been working on series of reforms that entails to provide affordable health to all. The government has announced the setting up of All India Institute of Medical Sciences in different states and improving health infrastructure.

But government sources said the meeting of all dealing with health, including department of pharmaceuticals, have been called with an idea to take the agenda ahead.

The Prime Minister's Office has asked Planning Commission secretary Sindhushree Kullar to make a presentation on the reforms that can unclog the health sector.

One of the major issues to be discussed at the meeting would be health insurance for all. Sources said the government was looking at a proposal of nominal premium for health insurance that would cover treatment for widespread ailments like diabetes, cardiac and cancer. "The aim is to provide a basic minimum health insurance cover to all. The rate of the premium for the middle class could be dependent on one's income. But for the poor it would be very nominal," a government official said.

Another issue likely to be flagged is the growing shortage of health personnel in rural India. There are just 0.84 doctors and 1.44 nurses for 1,000 Indians. The ratio halves for rural India with a large number of health personnel working in urban areas. Although the number of health personnel has increased the demand for medical treatment has also risen with improvement in income in recent years, says a government paper for the 12th five year plan.

To meet the growing demand, the government wants to set up a medical college in each district with the help of state governments in coordination with the upgraded district hospitals.

Modi is also keen to initiate three year BSc course in community health which failed to take-off during the previous UPA regime because of resistance by the Medical Council of India claiming that it would create a workforce of "half-baked" doctors.

The government has, however, brushed aside such concerns saying the pass-outs would work as community health workers and not doctors. The officials expect a go ahead to many of these reforms at the meeting.

NEW PLAN OF ACTION

- Govt is looking at a proposal of nominal premium for health insurance that would cover treatment for widespread ailments like diabetes, cardiac and cancer
- The rate of the premium for the middle class could be dependent on one's income. But for the poor it would be very nominal
- Growing shortage of health personnel in rural India
- Setting up of a medical college in each district with the help of state governments that would function in coordination with the upgraded district hospitals
- Setting up of a 3-year Bachelor of Science (BSc) course in community health

Hindustan Times, August 6, 2014, P. 10
 (Health Facilities for Everyone)

AIDS Control Society to sensitize hospitals on discrimination

STAFF REPORTER

GUWAHATI, Aug 17 – The Assam State AIDS Control Society (ASACS) has decided to sensitize government and private hospitals in the wake of a few recorded instances of alleged discriminatory approaches to HIV-positive patients.

This would be for the first time that all the hospitals, be it civil or PHC, would be sensitized on AIDS discrimination under a single programme.

The drive, aimed at sensitizing hospital set-ups in Assam, came in the event of cases of alleged discriminatory approach by medical staff members, is going to begin from next month, said Dr PK Das, additional director of ASACS, while talking to *The Assam Tribune*.

Many believe that it is not just the hospitals in rural areas that are bitten by the discrimination bug. The hospi-

tals located in Guwahati are no exceptions. Recently, a doctor at the Guwahati Medical College and Hospital (GMCH) had allegedly discriminated against a 32-year-old HIV-positive patient and even tried to persuade him to go to a private clinic and also resorted to 'inordinate delay' in his treatment.

The shocking matter came to the notice of the Assam State AIDS Control Society and the Assam Network of Positive People, an organization working for AIDS awareness in Assam.

The patient, an employee of a school located some kilometres from Guwahati, had come to the GMCH to get his appendix operation done. But, he got the shock of his life when a doctor instead persuaded him to go to a private clinic after coming to know that he was a HIV-positive patient, said Jahnvi Goswami of Assam Network of Positive People, while talking to

this reporter.

"I finally called up the GMCH authorities recently to redress the issue," Goswami said.

"The patient was made to struggle a lot and finally, after our intervention, a date, sometime in September, has now been fixed," she rued.

"The question, however, is not about the delay, but about the attitude of doctors," Goswami said, adding that many cases go unreported and the HIV-positive patients are subjected to such maltreatment.

She went on to say that not too long ago, a nearly 60-year-old woman of a lower Assam district was subjected to 'discrimination and humiliation' at the hospital after she had tested HIV-positive. Later, though, it came to light that test report itself was false.

"We had also written to the GMCH authorities about it," she said.

"As the police stations too are not

sensitive enough, the victims are normally very reluctant to move the police against such discrimination," she rued.

Additional project director of the ASACS, Dr PN Talukdar, too, confirmed that the Nalbari case did come to his notice and he had spoken to the Superintendent of the GMCH to resolve the issue.

"It was around seven days back that the matter came to my notice and I acted upon it," Dr Talukdar said.

However, GMCH Superintendent Dr Ramen Talukdar, when contacted, refuted the allegations of discrimination and claimed that no incident of discrimination could take place and that all patients are treated equally.

"The question of discrimination does not arise. So many HIV-positive cases are treated here, including HIV-positive pregnant women," he pointed out.

The Assam Tribune, August 18, 2014, P. 7
 (AIDS Control Society)

The image shows a newspaper clipping with a red header. At the top left are the Indian national emblem and the National Health Mission logo. The main text is in a red box, followed by a bulleted list of vaccine benefits. A photograph of a woman holding a baby is on the right. A text box on the left states the impact of the new vaccines. At the bottom, there is a footer with the ministry name and website.

NEW VACCINES AGAINST ROTAVIRUS DIARRHOEA AND RUBELLA BEING INTRODUCED

- Vaccines against rotavirus and rubella will significantly reduce child deaths and rescue lakhs of children from crippling disabilities.
- Introduction of injectable polio vaccine (single dose) along with the existing oral polio drops will expedite global progress towards polio eradication.
- Benefits of the vaccine against Japanese Encephalitis will also be extended to adults in high priority areas.
- First ever indigenous rotavirus vaccine developed under public-private partnership led by Ministry of Science and Technology & Ministry of Health and Family Welfare.

Addition of new vaccines will prevent an estimated 1 lakh deaths and 10 lakh hospitalizations each year.

Issued in public interest by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. www.mohfw.nic.in

DAVPI17102/13/0004/1415

The Pioneer, August 11, 2014, P. 2
(Vaccine against Rotavirus)

HARSH VARDHAN LAUNCHES NEW ANTI-TOBACCO DRIVE

SUNITA CAMPAIGN WARNS AGAINST USE OF SMOKELESS TOBACCO

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 7 August

Union Minister of Health and Family Welfare Dr Harsh Vardhan today launched a new anti-tobacco mass media campaign called Sunita, which is designed to warn people about the devastating health hazards of using smokeless tobacco.

"Every minute we are losing precious lives due to tobacco consumption. As a doctor and the Union health minister I urge people to understand that any form of tobacco consumption, bidi, guthka, khaini, etc., is extremely hazardous to health and can directly or indirectly lead to death. The tobacco lobby in India is very strong, and through this campaign we want to reach out to our country's children, youth and women and warn them about the health and economic impact of using tobacco," said Dr Harsh Vardhan.

The minister urged Chief Ministers of various states to pass necessary orders or notification under Regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards Act, 2006, to implement the ban on all forms of processed, flavoured, scented chewing tobacco, whether going by the name or form of gutka, zarda, etc.

Sunita will also be one of the anti-tobacco ads that will be screened in cinemas and theatres under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) Film Rule.

The 30-second advertisement has been translated into 17 languages and will run for five weeks nationally on all government and private TV and radio channels in every state, through the National Tobacco Control Programme (NTCP).

It is the story of a 27-year-old wife and mother, Sunita Tomar, who develops oral



Union health and family welfare minister Harsh Vardhan honours a cancer survivor Sunita Tomar at the launch of 'SUNITA' and the 'Resource Website' under the National Tobacco Control Programme in New Delhi on Thursday. ©SNS

cancer after using smokeless tobacco. She lives in a small town in Madhya Pradesh with her husband, a truck driver, her 12 and 13-year old sons, and her parents-in-law.

The ad shows Sunita before and after an operation to remove the cancerous growth and a part of her mouth. She describes how happy she was before tobacco took its terrible toll on her health and her appearance and how she never expected to develop oral cancer.

The ad closes with a warning against using tobacco. This Public Service Announcement (PSA) was developed by the Ministry of Health with technical assistance from World Lung Foundation.

"Sunita's experience demonstrates that there is a real need for this campaign, as many people aren't aware of the real dangers

of smokeless tobacco and never think they might develop oral cancer as a result of their habit. Tobacco does not discriminate; its use can destroy the health and happiness of anyone, even a young woman with significant family responsibilities, like Sunita. We are sure that people across India will relate to Sunita's story and realise it could happen to them or someone they love, and applaud her courage in sharing her story to help others," said Dr Nandita Murukutla, Country Director, World Lung Foundation.

Dr Pankaj Chaturvedi, a senior cancer surgeon from Tata Memorial Hospital, where Sunita was treated, added, "The patients we treat are a constant reminder that tobacco is deadly in both cigarette and smokeless forms. We need to do more to raise awareness of that fact. What

is particularly distressing is that people have been misled by the tobacco industry to believe that smokeless tobacco can play a role in dental health. Sunita thought she was looking after her teeth, not harming her health, but there is no safe level of tobacco use. We are confident that powerful campaigns such as Sunita can have a huge impact on increasing awareness of the real harms of smokeless tobacco use and help to build support for a much-needed ban on smokeless tobacco products."

According to The Tobacco Atlas, 33 per cent of men and 18 per cent of women use smokeless tobacco in India - one of the highest levels of prevalence in the world.

The Global Adult Tobacco Survey (GATS-India) identifies that 27.5 crore people use any form of tobacco in India.

A 2004 study found that many students in India use tobacco products as dentifrice, in spite of a 1992 law banning the use of tobacco in toothpaste or tooth powder. This reflects the widespread misconception in India that tobacco is good for teeth and some manufacturers package and market their smokeless tobacco products as dental care products. Female tobacco users can be particularly susceptible to these messages; one study in an area of Kerala found that over 90 per cent of female tobacco users started using tobacco because of tooth-related problems.

Research has shown that mass media campaigns are one of the most effective means to encourage people to stop using tobacco. Hard-hitting campaigns can compel tobacco users to quit, increase knowledge of the health risks of tobacco use, and promote behaviour change in both smokers and non-smokers.

The Statesman, August 8, 2014, P. 5
(New Anti-Tobacco Campaign)

Abortion deaths a cause for concern

Bindu Shajan Perappadan

NEW DELHI: The city has reported over a lakh medical termination of pregnancy and 32 registered deaths due to abortions in its government hospitals since 2008. This has been revealed in a Right to Information reply that confirms that over 50 termination of pregnancy is carried out daily in the Capital.

While there is no data on how many of those undergoing abortions are minors or unmarried women/girls, deaths during abortions - carried out in government hospitals - have never dipped to anything less than four women a year since 2008.

The applicant, R. H. Bansal, in his query to the Delhi Health Department had asked about the number of abortions happening in the State government hospitals year-wise since 2008. He also sought information on how many of the abortions performed were legal, where those who got the abortions were married, unmarried or minors, and the number of deaths caused due to abortions.

While Health Department

A LAKH LIVES TERMINATED BEFORE BIRTH More than 50 termination of pregnancy are carried out daily in Delhi

SINCE 2008, DELHI HAS REPORTED OVER 1 LAKH MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY

YEAR-WISE DATA	DEATHS DUE TO ABORTIONS SINCE 2008 : 32
2008-09 (40,238 abortions were carried out)	2008-09 - 8
2009-10 (13,850 abortion were done)	2009-10 - 4
2010-11 (15,157 cases)	2010-11 - 5
2011-12 (10,406 cases)	2011-12 - 5
2012-13 (10,672)	2012-13 - 6
2013-14 (9,966 cases),	2013-14 - 4

said that they "did not have information on the marital status and age of those who got abortion done at its hospitals", they have given data on the number of abortions and deaths caused since 2008.

The data reveals that the number of the legally-terminated pregnancies in government facilities has remained in thousands each year and from 2008 to 2014 over a lakh abortions have been carried out.

Medical Termination of Pregnancy (MTP) is legal and it allows abortion on medical grounds, including abnormalities in the foetus, contracep-

tive failure, and risk to the mother's physical and mental health.

Rajhans Bansal, the activist who filed the RTI, warned that while the number of the legal abortions taking place in government hospitals is high, "the government should put in place checks and balances to ensure that people should not use medical grounds as an alibi for sex-selective abortion".

City doctors said that for MTP patients the most common reasons cited include medical complications, limiting family size, and spacing pregnancies. But, they said

sex determination could not be completely ruled out as a reason.

"We cannot rule out that sex-selective abortions happen in small clinics in the city and nursing homes which operate illegally," said Delhi Medical Association member Anil Bansal, who has been campaigning against quacks in the city.

He said that government-run institutions cannot carry out illegal abortions. "There are several checks and balances at every level to prevent or encourage such practice," he added.

The Medical Council of India has, meanwhile, through a notice, stated that the general public as well as those working in the area of medical care should inform the medical council concerned in case they come across any unethical act or medical misconduct (commission/cuts/advertisements/illegal abortions/un-necessary investigation, and nexus with drug companies). "Medical councils should immediately approach and lodge a complaint with the appropriate medical council," the notice said.

The Hindu, August 24, 2014, P. 5
(Abortion Death)

India aims to eradicate kala-azar by 2015

Sanchita Sharma
sanchitasharma@hindustantimes.com

NEW DELHI: Using a single-dose drug for treatment and independent experts to monitor implementation are part of the Centre's new roadmap to eliminate kala-azar (visceral leishmaniasis or black fever) by 2015.

The parasite, which spreads between humans through the bite of an infected sandfly, attacks the immune system and can kill, if not treated.

Kala-azar is the second-largest parasitic killer after malaria worldwide, causing an estimated 2 lakh new infections each year. Since humans are the only hosts of the parasite, early detection and treatment makes elimination achievable. India accounts for half of the new infections, with the disease flourishing in 54 districts — 33 in Bihar, 4 in Jharkhand, 11 in West Bengal and 6 in eastern UP.

"India has set its elimination target to lower infection to one per 10,000 at the block level in the 54 affected districts," said Union health minister Harsh Vardhan.

Much of the diagnosis, management and monitoring will be done through "active surveillance" using health workers and volunteers trained for polio eradication. The new guidelines recommend everyone with fever for more than two weeks and an enlarged liver and/or spleen to be tested using a dipstick test. For people with a past history for kala-azar but who test negative using the dipstick test, lab confirmation of spleen and bone marrow samples at a district hospital will be done.

Only people with confirmed diagnosis are treated since all infected do not develop the disease.

"New infections have seen a drop by 58% and deaths by 75% between 2011 and 2013. Early diagnosis and using a single-dose drug called liposomal amphotericin (LAMB) given intravenously has helped," Vardhan said.

BLACK PAST
Kala-azar* cases have reduced over the years

2014	5,156
2013	13,827
2012	20,600
2011	33,187
2010	29,000
2009	24,212
2008	33,598

*All infections do not progress into full-blown disease
Source: Ministry of health & family welfare

Hindustan Times, August 29, 2014, P. 13
(Kala-azar)

3. Women/Gender issues

3.1 Women Empowerment (Mahila Bank/ Female Commando-Delhi Metro/Women Reservation -Police Force)



The Asian Age, August 2, 2014, P. 13
(Female Commando-Delhi Metro)



Rashtriya Sahara (H), August 4, 2014, P. 11
(Women Reservation-Police Force)



The Statesman, August 4, 2014, P. 6
(Women Reservation-Police Force)

सशक्तीकरण के लिए उठाए कदम

महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा

हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि देश के हिन्दी भाषी प्रदेशों में महिलाओं की ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। इस सर्वेक्षण को देश की नामी संस्थाओं रीडरशिप स्टडीज़ काउन्सिल ऑफ इंडिया, मीडिया रिसर्च यूजर्स काउन्सिल तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने प्रमाणित भी किया है। अब तक के सबसे चर्चित और अहम फेसले में ताजा सर्वेक्षण के माध्यम से यह साबित होता है कि महिलाओं के इस बढ़ते वर्चस्व के पीछे पत्रिका समूह की सशक्त भूमिका है।

ताजा सर्वेक्षण के माध्यम से यह साबित होता है कि महिलाओं के इस बढ़ते प्रभाव के पीछे पत्रिका समूह की सशक्त भूमिका है। और मजबूत मानने लगी हैं। भारतीय पाठक सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट 2013 के अनुसार पत्रिका के साथ इन राज्यों में 41 लाख 80 हजार महिला पाठक जुड़ी हुई हैं जो कि न. 2 अखबार से लगभग 9 लाख 70 हजार महिला पाठक ज्यादा है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार पत्रिका ने एक स्थानीय अखबार के पचास साल के एकाधिकार को समाप्त करते हुए सही मायने में मध्यप्रदेश के अखबारों की दुनिया में लीडरशिप कायम की है। सर्वे के अनुसार राजस्थान में लगातार नं. 1 स्थान बनाए रखते हुए पत्रिका मध्यप्रदेश में एक ही वर्ष में अपनी पाठक संख्या में 135 फीसदी की बढ़त लेते हुए अब मध्यप्रदेश का नं. 1 अखबार बन गया है। यह सफलता हम अपने सुधि पाठकों को समर्पित करते हैं।

मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में पत्रिका से जुड़ी महिला पाठकों की संख्या में तेजी से वृद्धि का कारण भी पत्रिका के महिला सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदम और उनके हित में चलाई गई विभिन्न मुहिम ही हैं। पत्रिका के परिवार और हैलथ परिशिष्ट भी महिलाओं के व्यक्तित्व विकास और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली सामग्री से परिपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि महिलाएं अब स्वयं को पहले से अधिक संगठित

महिला पाठक पत्रिका (आई.आर.एस.-2013) समूह

राजस्थान	25.73 लाख	19.06 लाख
मध्यप्रदेश	16.07 लाख	13.04 लाख

दैनिक भास्कर+ भास्कर प्रकाशन

Rajasthan Patrika (H), August 30, 2014, P. 1
(Women Empowerment)

डिजिटल साक्षरता के लिए सूबे की 5 लाख महिलाओं-छात्राओं को मिलेगा लाभ

गूगल इंडिया बनाएगा महिलाओं को 'दक्ष'

अतिथि मित्र @ सतना
Satna@patrika.com

डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट के युग में गूगल इंडिया ने महिलाओं-छात्राओं को 'दक्ष' बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों से जुड़ी 5 लाख महिलाओं-छात्राओं को गूगल इंडिया बाकायदा प्रशिक्षण देकर इंटरनेट फ्रेंडली बनाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेनिंग मि:शुल्क दी जाएगी। पहले चरण में सभी सभागीय संयुक्त संचालक और डीईओ से डिजिटल साक्षरता के लिए प्रस्ताव मांगा गया है।

एक बार में 200 को ट्रेनिंग

इंटरनेट का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से गूगल इंडिया की प्रशिक्षण टीम एकात्मक स्तरों से एक समय में 200 छात्राओं और शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग देगी। यह ट्रेनिंग दो घंटे की होगी। इस तरह से एक दिन में तीन ग्रुप को ट्रेनिंग प्रस्तुत की गई है।

स्कूलों को भेज रहे पत्र

सूत्रों के मुताबिक महिलाओं में आईटी क्षमतावर्धन के लिए जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीईओ इसके त्रिपार्टी के अनुसार हायर सेकेंडरी स्कूलों को पत्र भेजा जा रहा है। वहां की छात्राएं और शिक्षिकाओं की सूची तैयार की जाएगी।

हिंदी भाषा का रहेगा विकल्प

योजना का लाभ शासकीय स्कूलों की हायर सेकेंडरी की छात्राओं व शिक्षिकाओं को मिलेगा। वर्कशॉप में शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचल की महिलाओं के सम्मिलित होने के चलते गूगल इंडिया ने इस योजना में अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का विकल्प भी रखा है, ताकि ग्रामीण अंचल की महिलाओं में अंग्रेजी भाषा के चलते मुश्किलें न आए। ट्रेनिंग का सारा स्टडी मैटेरियल दो भाषाओं में होगा।

डिजिटल साक्षरता आज की जरूरत है। हमने प्रस्ताव मांगे हैं। पहले चरण का काम खींचने के बाद इस ट्रेनिंग के बाबत तैयारियां शुरू की जाएगी। ट्रेनिंग गूगल इंडिया करेगा।

एसके पॉल, आयुक्त, लोक शिक्षण विभाग, मध्य प्रदेश

हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं को इसमें शामिल किया गया है। ग्रामीण अंचल की महिलाओं के जरूरतों से यह योजना अच्छी है।

एसके त्रिपठी, डीईओ सतना

Rajasthan Patrika (H), August 22, 2014, P. 8

Mahila Bank to have 25% presence in rural areas

Meena Menon

NEW DELHI: From seven branches in December 2013, the Bharatiya Mahila Bank (BMB) is now looking to cross 80 this year with new ones in Kochi, Dholpur and other places.

It already has a presence in 23 States. The Bank is slowly emerging as a chief option for women to get credit on easier terms than commercial banks. It lends money to women who set up small businesses, beauty parlours, day care centres and home-based initiatives and customers get up to Rs. 1 crore without a credit guarantee. They only have to take an insurance policy under the government's Credit Guarantee Fund Trust Scheme and pay an annual premium, says Maya M.C., deputy general manager (resource mobilisation), BMB.

Lending to self-help groups is a major chunk of its micro financing and among others it is helping women buy sewing machines and cycle rickshaws in Lucknow, a self-help group of Muslim women who do a daily business of selling omelettes and bread near R.K. Puram in the capital and a chapatti-making business. Some big ticket enterprises are also its clients.

With the Jan Dhan Yojana coming at an opportune moment, the Bank which was launched in November 2013 wants to have a 25 per cent presence in rural areas. It has a modest Rs. 5 crore budget for advertising and the bank relies on mobilisation camps and word of mouth to attract customers. Recently before its branch opens in September first week in Dholpur near Agra, a meeting was held with people from 28 nearby villages. "It will be a brick and mortar branch and the idea was to spread awareness but we opened 7000 accounts," Ms. Maya said.

The bank was mooted in the 2013 budget and while it is aimed at facilitating credit for women, it has not closed its doors to men. The deposit portfolio is open to both men and women and while the bank prefers to give loans to women and educated home workers, 13 per cent of its clientele are men. The Bank also lends to Non Banking Financial Companies and one of them is Momo Rangoli which works in home-based businesses and retail products for women. In Madurai too it has given loans to Dhan Foundation which works with 26,000 women.

With simplified KYC norms, all you need is a declaration if you want to open an account. The last mega camp in Govindpur in New Delhi recently drew thousands of people and the bank canvassed 25,000 accounts. The bank gives ATM cards and since 90 per cent of the customers have mobile phones, phone banking is also an option.

Housing loans get 0.25 per cent off if you are a woman. "No woman should come to our bank and go back empty-handed," Ms. Maya noted.

The Hindu, August 31, 2014, P. 11 (Mahila Bank)

3.2 Marriage/Dowry/Divorce (Registration of Marriages/Dowry/Child Marriage)

State for compulsory registration of marriages: Minister

BANGALORE: The State government is keen on making registration of marriages compulsory and has referred the Karnataka Marriages (Registration and Miscellaneous Provisions) Act, 1976 to the State Law Commission to suggest amendments to the legislation to ensure its effective implementation, Law Minister T B Jayachandra said on Friday.

Speaking to reporters in Bangalore, Jayachandra said though the 1976 Act made registration of marriages mandatory, the rule was not being followed.

"We have asked the commission to recommend amendments to the legislation to make it binding on every couple to register their marriage," Jayachandra said.

The panel, headed by former High Court judge Justice S R Nayak, will also look into the "outdated" provisions of the Act like placing a Rs-5,000 spending cap on each marriage, the minister said. In 2011, a committee headed by retired Supreme Court judge Justice Shivaraj V Patil, in its report to the Women and Child Development Department, had recommended insertion of a new clause in the Registration of Marriages (Karnataka) Rules 1966, making registration of marriages within 30 days mandatory. Failing to abide by the clause will lead to imprisonment or penalty, the committee had suggested.

The Shivaraj Patil Committee had been appointed by the Karnataka High Court with a mandate to prepare an action plan to prevent child marriages in the State. According to official sources, only a small percentage of marriages is registered in the State. Around 50,000 marriages were registered last year.

Replying to queries, he said all the police stations will be provided with a compilation of State and Central Acts concerning with the safety of women and children, he said.

DH News Service



Deccan Herald, August 2, 2014, P. 7
(Registration of Marriages)

'No dowry club' to enrol students, make them aware about evil practice

Mallica Joshi
mallica.joshi@hindustantimes.com

NEW DELHI: In an effort to tackle the dowry problem, a group of individuals are planning to reach out to youngsters to nip the problem in the bud.

The group has reached out to schools and proposed a 'No Dowry Club' for children as well as teachers.

Delhi recorded the highest number of dowry deaths among cities in the country with a 25% increase in cases in 2013. Often called the 'rape capital' of India, the city saw 125 cases of dowry deaths in 2013 — the highest among 53 cities — up from 100 in 2012, as per the latest report by the National Crime Records Bureau.

"The No Dowry Club (NDC) is an initiative to make the youth aware of their responsibilities towards society. It plans to encourage the youth from not only abstaining from taking or giving dowry but it also plans to motivate students to desist from indulging in ostentatious weddings. They will also make a very positive and effective impact on the adults at homes and discourage them to indulge in these unethical traditions," said SC Baveja, former principal of Bal Bharati Public School, Pitampura and a part of the group that thought of the NDC.

The mission of the group, which is working in association with the Rotary Club of India, is to set up the club in every school and to educate each and every youngster to understand that dowry needs to be completely eliminated.

"The members who are unmarried at present will have to take a pledge that they will not seek or give dowry not only at the time of marriage but even after marriage. The members will also make an effort to keep the marriage as simple as possible," Baveja said.

The first session of NDC will be held in Bal Bharati Public School, Pitampura on Saturday.

"We plan to launch the drive of inducting schools. These schools will be sent a yearly calendar of intra and inter school activities which will be monitored by the school supervisors. The schools will be encouraged to enroll as many members to pledge their support for the cause," Baveja said.

CAPITAL REPORTS MAX DEATHS

Cases of dowry death and harassment in 2013

City	Harassment cases	Dowry deaths
Delhi	2,879	125
Bengaluru	482	52
Hyderabad	1,480	39
Mumbai	602	21
Ahmedabad	1,756	20
Kolkata	1,005	15
Chennai	221	12

Source: National Crime Record Bureau

Hindustan Times, August 26, 2014, P. 3
(Dowry)

Abolition of child marriage will take 50 years more: UNICEF

KOLKATA, Aug 26 – India has witnessed a decline in child marriage in the last two decades, but going by the slow pace it will require another 50 years to abolish the practice from the country, according to UNICEF.

"Child marriage has been declining at a rate of one per cent per year in the last two decades, but at this rate it will be eliminated in 50 years or so," UNICEF Child Protection Specialist in India Dora Giusti told PTI.

"This is way too long and millions of girls will have married by then," she warned describing the scenario in the country as "alarming".

"A study among married women currently aged between 20-24 revealed that 43 per cent of them were married before 18 and two out of every five women during the survey said they were married as children," Giusti explained.

Incidentally, a United Nations report in July said that India has sixth highest prevalence of child marriage, with one in every three child brides living in the country. Stressing that the practice of child marriage was still prevalent in certain communities and groups in the country, the UNICEF official held deep-rooted superstitious beliefs as responsible for its slow elimination.

"Child marriage is still a widely accepted practice ruled by social norms and gender roles. Girls are still seen as a burden and not worthy of investing on. For generations, once girls hit

puberty, their parents have married them off in the false belief that this will also protect them from violence," Giusti explained.

"Often communities are resistant to welcome changes. Furthermore, there are other factors, such as poverty, high costs of marriage, lack of education and other opportunities for girls that undermine change the practice," she elaborated.

Asked if the India government's cash transfer scheme as incentive to encourage retention of girls in school has

helped in containing the practice, she said: "A recent study showed that the scheme has helped keep girls in school and therefore delay child marriage, but it did not have a long-term effect as it does not contribute to changing parents' mental set-up." According to the official, a 'political will' was needed to eradicate child marriage completely from the nation.

"Child marriage can be eliminated completely from the country only if there is a political will at all levels and concerted efforts are undertaken to systematically address it through education, opportunities for girls, better income for families, and continued awareness raising programmes," Giusti stated.

"As child marriage is rooted in ancestral practices and traditions, it is very hard to change the mindsets and community rules... Addressing child marriage requires a long-term process of awareness of raising and behavioural change," she added. – PTI



Assam Tribune, August 27, 2014, P. 3

(Child Marriage)

बाल विवाह खत्म होने में लगेंगे 50 साल!

कोलकाता (भाषा)। भारत में बाल विवाहों के मामले पिछले दो दशक में कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस कमी की रफ्तार इतनी धीमी है कि इस कुप्रथा को पूरी तरह खत्म होने में अभी 50 बरस और लग जाएंगे।

भारत में यूनिसेफ की बाल सुरक्षा विशेषज्ञ डोरा गियुस्टी ने बताया, 'पिछले दो दशक से बाल विवाह की संख्या में हर साल एक फीसद की कमी आई है। यही स्थिति जारी रखें तो इसे पूरी तरह खत्म होने में कम से कम 50 साल और लगेंगे।' डोरा ने कहा, 'यह अवधि इतनी लंबी है कि अब तक लाखों लड़कियों का बाल विवाह हो चुका होगा।' उन्होंने बताया, '20 से 24 साल की विवाहित महिलाओं के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से 43 फीसद का विवाह तो 18 साल से कम उम्र में ही हो गया था। सर्वे के दौरान हर पांच में से दो महिलाओं ने बताया कि उनका बाल विवाह हुआ था।'

जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह के मामले में भारत का स्थान छटा है, जहाँ हर तीन बाल वधुओं में से एक भारत में रहती है। डोरा ने कहा, 'सामाजिक और लैंगिक कारणों के चलते आज भी बाल विवाह का चलन है। लड़कियों को बोज़ समझा जाता है और उनपर किसी भी निवेश को व्यर्थ माना जाता है।' उन्होंने बताया, 'समुदाय अक्सर परिवर्तन पसंद नहीं करते। इसके अलावा गरीबी, विवाह पर होने वाला भारी-भरकम खर्च और शिक्षा व लड़कियों के लिए अवसरों का

अभाव इस चलन पर रोक की राह में बाधक है।' लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप और उसकी पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए भारत सरकार की नकद स्थानांतरण योजना से क्या बाल विवाह रोकने में मदद मिली है? इस सवाल पर डोरा ने कहा, 'एक हालिया अध्ययन बताया है कि इस योजना से लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने और उनका विवाह देर से करने में मदद मिली है लेकिन इसका दीर्घकालिक असर नहीं हुआ। जैसे अभिभावकों की मानसिकता बदलने में इससे कोई मदद नहीं मिली।'

अधिकारी के अनुसार, देश से बाल विवाह के पूरी तरह उन्मूलन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। भारत में बाल विवाह पर रोक के लिए यूनिसेफ की योजना के बारे में डोरा ने बताया, 'यूनिसेफ इंडिया यह देखने के लिए प्रमाण जुटा रहा है कि बदलाव की गति तेज करने के लिए कौन से प्रयास बेहतर होंगे। करीब एक दशक में हमने बहुत प्रयास किए हैं। बाल विवाह पर रोक का मतलब है बच्चों के शिक्षाफ हिसा पर रोक, उनके अधिकारों के उल्लंघन पर रोक तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मुद्दों का समाधान।' उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर हमारी रणनीति बाल विवाह से नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने, समुदायों को और नेताओं को इस चलन पर रोक के लिए गतिशील करने, कानून सही तरीके से लागू करने तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न पर आधारित है।'

Rashtriya Sahara (H), August 27, 2014, P. 13

(Child Marriage)

3.3 Violence and Crime against Women (Rape Cases)

7/ CRIMES AGAINST WOMEN CAUSE CONCERN

Shimla, 1 August. A rise of 36 per cent in rape and sexual assault cases in the last year (2013) compared to its previous year is causing concern in this hill state known for its peaceful life and environs. According to the latest report of the National Crime Records Bureau (NCRB), "Crime in India-2013," released recently, 1,478 cases of crimes against women were reported in Himachal against the 1,024 such cases in 2012. Alarmingly, in 36 cases in 2013 the victims were below 14 years and nine out of the 250 reported were known to the victims - including family members, relatives and neighbours. Apart from this, 290 cases of kidnapping, 493 cases of molestation, 111 cases of insulting the modesty of women and 328 cases of cruelty or physical abuse by the husband or his relatives were registered in the state during 2013. The only saving grace was that no dowry death was reported during the year.

However, the Director General of Police (DGP), Mr Sanjay Kumar, said that crimes against women were not increasing "but their detection has become more. This is because of the increasing awareness and rise in literacy of women as well as setting up of women cells and anti-human trafficking units in every district."

A special Mahila Twarit Bal has been set up in the police headquarters and till 30 June this year, over 1,470 complains via SMS were received and FIRs were registered in 36 cases.

The state, according to Mr Kumar, has also begun the recruitment process for Mahila Reserve Battalion to provide a better response to the victims. Concerned by the situation, the Himachal government has now set up its first all-women police station in Shimla to deal specifically with crimes against women. The next such station will be opened at Dharamshala as promised in his budget speech by the Chief Minister Mr Virbhadra Singh. After studying the functioning of these two stations, the government proposes to open all-women police stations in all the twelve districts.

The Statesman, August 2, 2014, P. 6

No speed courts for rape cases in UP, Bihar, Guj

LOW CONVICTION RATE

State	Fast-Track Courts	Cases	Conviction Rate
West Bengal	48	3,09,546	22%
Tamil Nadu	32	2,44,270	21%
Odisha	30	2,28,650	27%
Andhra Pradesh	24		
Punjab	20		
Jharkhand	11	58,224	31%
Karnataka	10	38,172	29%
Delhi	6	33,098	35%

CRIME AGAINST WOMEN
2013: 3,09,546 | 2012: 2,44,270 | 2011: 2,28,650

CRIME AGAINST CHILDREN
2013: 58,224 | 2012: 38,172 | 2011: 33,098

Source: Law ministry (for Fast-Track Courts and Conviction Rates)
Source: NCRB/Law ministry (for Crime Statistics)

Pradeep Thakur
@timesgroup.com

New Delhi: Rising incidents of crime against women and children have had little impact on the political class or the judiciary in ramping up the justice delivery system, reveals a status report of the law ministry.

For instance, the most populous state of UP, also reporting one of the largest numbers of rapes in recent months, has failed to set up a single fast-track court for speedy trial of such cases. The law ministry report shows only 212 fast track courts (FTCs) have been set up so far for the purpose in the country. None have come up in UP, Bihar and Gujarat.

In fact, a year-and-half after the Nirbhaya incident, only 16 states have reported setting up such courts. After the December 2012 incident, the Centre had asked all states and HCs to set up FTCs for speedy trial of cases of crime against women and children. The reluctance of some states and high courts could be because of a lack of infrastructure, but in many cases, it is purely out of disregard for recognizing the need for such FTCs, say sources in the law ministry.

Soon after the Nirbhaya gang rape, in a communication sent from the Centre, states and HCs were asked to utilize 10% additional posts of judges being created in the subordinate judiciary for setting up of FTCs. For meeting expenditure on salaries of these additional judges, the law ministry allocated funds up to a maximum of Rs 80 crore annually on a matching basis from states. The additional funds for FTCs were allowed for a period up to March 2015. According to top law ministry officials, not all states have shown eagerness to create additional court infrastructure as it requires a matching grant from them.

As it is, the huge pendency of cases in the subordinate courts have left little scope for creation of FTCs and making provision for special courts from the existing infrastructure. Until 2011, when the Centre ran the fast-track court scheme, more than 500 such courts were in operation.

The Times of India, August 10, 2014, P. 8
(Rape Cases)

कैसे मिलेगा न्याय

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जितनी तेजी आई है, उतनी तेजी इन मामलों में सजा की दर में नहीं आई है।

वर्ष	महिलाओं के खिलाफ अपराध	सजा दर
2011	2,28,650	27%
2012	2,44,270	21%
2013	3,09,546	22%

वर्ष	बच्चों के खिलाफ अपराध	सजा दर
2011	33,098	35%
2012	38,172	29%
2013	58,224	31%

यदि राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बजट नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई मामले पर समते अटक पड़े हैं। महिलाओं एवं बच्चों को न्याय दिलाने के प्रति हम संवेदनशील क्यों नहीं होते?

संवेदनशीलता का अभाव

Amar Ujala (H), August 14, 2014, P. 12
(Crime against Women)

पक्षपात से लाचार महिलाओं ने लगाई आयोग में गुहार...

महिला अपराध मामलों में 324 पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग



गोपाल

bhopal@patrika.com

महिला अपराधों के मामले में पुलिस का रवैया निराशाजनक, पीड़िता के बजाय दिखती है आरोपी के पक्ष में महिलाओं के प्रति खाम तौर पर संवेदनशील होने का दावा करने वाली सरकार के लिए यह शर्मनाक स्थिति है। यौन अपराधों की शिकार महिलाओं के प्रति पुलिस के रवैए में रत्तीभर भी तब्दीली नहीं आ सकी है। शायद इतना ही काफी नहीं... कुछ मामलात ऐसे भी हैं, जिनमें वदीवाले ही इल्जामों के घेरे में हैं। सो, शिकायतें या तो सुनी ही नहीं जाती या उन्हें दबा दिया जाता है। प्रदेश की संस्थाओं से निराशा हो चुकी पीड़िताएं मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से फरियाद करने को मजबूर हैं...

पुलिस, विभागीय अधिकारी और राज्य महिला आयोग में भी सुनवाई नहीं होने से निराश 324 महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग से मदद की गुहार लगाई है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग दो गुना हो गया है। साल 2013 में प्रदेश से 122

इनका कहना है...

कानून की नज़र में हर आरोपी समान है। पुलिस विभाग का होने के कारण उसका जुर्म कम नहीं हो जाता। उनके साथ सामान्य आरोपियों की तरह व्यवहार किया जाता है।

डी. श्रीनिवास वर्मा, ईआईजी

शिकायत नहीं सुनी जाती

महिला थाने में शिकायत करने वाली पीड़िताओं का कहना है कि अन्य किसी थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई। परी मले ही आरक्षक है, लेकिन अधिकारियों से अच्छे संबंधों का फायदा उन्हें मिल जाता है। अब तक हुई कुल शिकायतों में से केवल एक में ही तत्काल गिरफ्तारी हुई है।

पत्नियों पर वदीवालों के जुल्म

भोपाल. पिछले कुछ समय से महिला थाने और राज्य महिला आयोग में पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ी हैं। शिकायतें उनकी पत्नी और लिफ्ट-ड्रन पार्टनर ने की हैं। राज्य महिला आयोग में पिछले चार महीने में 16 और महिला थाने में नवंबर में चार शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से एक मामले में गिरफ्तारी हुई है। सातवीं बटालियन के एक

आरक्षक के खिलाफ 20 जून को कैसर पीड़िता पत्नी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि पति के विवाहेतर संबंध हैं, जिसका पता चलने के बाद वे उससे मारपीट करने लगे। मायके से कर की मांग करी। आरक्षक ने अधिकारियों से सिफारिश कर मेरी शिकायत सुनने से मना कर दिया था।

आरक्षक गिरफ्तार

सिटी सर्कल में आरक्षक महिला ने महिला थाने में आरक्षक पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी आरक्षक को उसके रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि पति के विवाहेतर संबंध हैं, जिनका खुलासा होने पर जान से मारने की धमकी दी।

टीआई की शिकायत

राज्य महिला आयोग में एक बीमा एजेंट ने आईजी अनुराधा शंकर के बंगले पर तैनात आरक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। होशंगाबाद टीआई के खिलाफ भी महिला आरक्षक ने शादी का झांसा देकर दुराचार का आरोप लगाया है। ऐसे 16 मामलों में आयोग सुनवाई कर रहा है।

पुलिस प्रताड़ना की शिकायतें

जम्हतर शिकायतों में महिलाओं ने पुलिस प्रताड़ना का जिक्र किया है। 149 शिकायतें छेड़छाड़ या धमकाने के मामले की हैं, जिनमें पुलिस ने पीड़िताओं की शिकायत नहीं सुनी और आरोपियों का पता लिया। 97 शिकायतें दुराचार और जेरापे की हैं। अधिकतर मामले बल्लियाँ इलाकों के हैं, जहां महिला पुलिस नहीं होने की वजह से पीड़िता के बचन तक दर्ज नहीं हो सके हैं।

महिलाओं के आवेदन ही राष्ट्रीय महिला आयोग को मिले थे। इनमें 74 मामलों का निराकरण हो चुका है। जबकि, अन्य मामले राज्य के शासकीय विभागों से संबंधित हैं, जिनके समाधान के लिए प्रमुख सचिव को एक साल में 2 पत्र और तीन बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है।

तालमेल की कमी

राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग में तालमेल की कमी के कारण अधिकांश मामले की कार्रवाई में देर हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष समता ठाकुर का कहना है कि राज्य स्तर पर जिन मामलों का निपटारा हो सकता है, उनके संबंध में राज्य महिला आयोग को निर्देशित किया जा सकता है लेकिन पिछले आदेशों का पालन नहीं होने के बाद से सीधे संबंधित विभाग को पत्र लिखने पड़ते हैं। ऐसे में कार्रवाई का फीडबैक नहीं मिल पाता।

PARENTAL GUIDANCE: PM'S MANTRA TO CHECK CRIMES AGAINST WOMEN

HT Correspondent

• kishan@hindustantimes.com

NEW DELHI: With emphasis on women's safety and empowerment, in his maiden Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi urged the nation to shed negative social attitudes in a country where women remain highly vulnerable.

Terming the recent increase in incidents of rape as shameful, the PM appealed to parents to start taking responsibility for their sons' actions to check such crimes. "Have you ever asked your sons where they are going, why they are going and who their friends are? After all the person committing the crime is somebody's son," Modi said. This is the first time that an Indian PM has made such hard hitting remarks on gender equality in his Independence Day speech.

Noting the alarming dip in child-sex ratio, Modi called for an end to female foeticide and warned doctors against partnering in such crimes. "Such cases are a reflection of the rot that has crept into society in the 21st century," he said.

The PM said he has seen families prefer boys in the hope that they will look after them when they are old and said, "I have seen families where girls stay away from marriage and devote their lives to serving their parents."

Modi pitched for building more toilets for women and said that preserving the dignity of women was everyone's responsibility. "Even today our mothers and sisters have to defecate in the open. Women cannot relieve themselves till dusk. How much pain they must be going through... How many diseases they must be prone to," Modi said.

Hindustan Times,
August 15, 2014, P. 13
(Crime against Women)

Rajasthan Patrika (H), August 2, 2014, P. 6
(Crime against Women)

Crime against women higher in Delhi's peripheral areas

Women's helpline registers over 24,000 cases of domestic violence and sexual assault

Sowmiya Ashok

NEW DELHI: More than 24,000 cases pertaining to domestic violence and sexual violence have been registered based on the calls made by the city's women to the 181 Women's Helpline in the last year and a half. Incidentally, over 66,000 calls have been received by the helpline with regard to domestic violence and nearly 20,000 calls on sexual assault since its inception in late-December 2012.

Preliminary analysis of data going as per FIRs registered in different police stations following complaints made to the helpline has shown a trend that domestic violence, sexual assault and cases relating to kidnapping and abduction follow a pattern, said Human Rights consultant Khadijah Faruqi, who also heads it.

"We have received nearly 10 lakh calls since the helpline was set up and this is not a small number. If we club all the sexual crimes in one category and look at the cases registered per police stations, the maximum

HERE ARE THE TOP FIVE NEIGHBOURHOODS (ACCORDING TO POLICE STATIONS) THAT REGISTERED THE HIGHEST CASES BASED ON DISTRESS CALLS

DOMESTIC VIOLENCE CASES			SEXUAL VIOLENCE CASES	
499 Dabri, West Delhi	425 Tilak Nagar, West Delhi		454 Uttam Nagar, West Delhi	333 Sultanpuri, Outer Delhi
414 Burari, North Delhi	395 Vijay Vihar, Outer Delhi		268 Nangloi, West Delhi	253 Narela, Outer Delhi
352 Karawal Nagar, Northeast Delhi			252 Jahangirpuri, North Delhi	
Total number of cases registered across the city			9273	14318

cases seem to be registered in areas in the peripheral parts of the city. For domestic violence, more or less the same police stations show up as places where maximum cases have been registered," she says. "Peripheral parts of the city seem more crime prone."

Ms. Faruqi cautions, however, that this is just the preliminary analysis and she has requested information from the Delhi Police and the women's cell to

have a better understanding. "I also plan to meet SHOs and speak to women who phone in. For now, I find that the crime prone areas encircle the city."

Parts of West Delhi such as Uttam Nagar, Nangloi, Dabri and Tilak Nagar feature prominently as places where maximum number of cases have been registered in these two categories. Burari and Jahangirpuri in North Delhi and parts of Outer Delhi such as Sultan-

puri, Narela and Vijay Vihar see a spike in cases.

In all, the 181 Helpline that runs over three shifts, with at least six people working in each shift, has received up to 9,79,594 calls between December 31, 2012, and July 27 this year. Of these, 6,76,542 calls have been answered which range from calls pertaining to acid attacks, missing persons, dowry violence or just women calling in for some advice.

The Hindu, August 1, 2014, P. 3
(Crime against Women-Delhi)

U.P. to set up fast-track courts to try crimes against women

Sandeep Joshi

LUCKNOW: Aiming to provide speedy justice, the Akhilesh Yadav government on Friday decided to constitute fast-track courts in all districts to dispose of cases of violence against women and those cases involving women accused.

"One of the most important decisions that the Cabinet took is the installation of fast-track courts across Uttar Pradesh to address the issues relating to atrocities on women... It will help in sorting out cases of violence against women and criminal cases pending against women. I can assure you that these courts will start functioning very soon," Mr. Yadav told journalists after the Cabinet meeting that was chaired by him.

Referring to recent floods and also drought in some parts of the State, he said the government would soon approach the Centre to seek monetary assistance so that affected farmers could be adequately compensated.

Stating that the flood situation was due to water released from Nepal, Mr. Yadav said: "The crops were affected due to flood and drought...I am going to write a letter to the Centre in a day or two for helping the State."

Nirbhaya app still in beta

Damini Nath

NOIDA: A tool to help the police fight crime against women has been awaiting inauguration for over a month.

The Nirbhaya@Noida mobile app, an emergency response facilitator, has been ready for a month, but officials are still waiting for Lucknow to decide on the inauguration ceremony.

A beta version of the application is available on Google Play Store for Android-based smartphones, with the disclaimer that in case of an

emergency, the user should contact the local police personally. A senior Noida Police officer said: "We were hoping to start it as soon as the control room was ready, but we haven't been able to because it hasn't been decided who will launch it."

Once downloaded, the user has to register with the Noida Police on their website by giving emergency contact details. This will give them a password to activate the app, through which an SOS can be sounded.

The Hindu, August 30, 2014, P. 9
(Crime against Women)

महिलाओं की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं किशोर

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रपट में आए चौकाने वाले आंकड़े

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 18 अगस्त। देश में किशोर अपराधों की बढ़ती संख्या पर महिला और बाल विकास विभाग की चिंता पर अब राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की मुहल्ले लगा दी है। ब्यूरो के ताजा रिपोर्ट में यह चान सामने आई है कि महिलाओं के साथ किशोरों के हाथों हो रहे हमले में जबरन शादी भी हो रही है। किशोरों के हाथों महिलाओं को अस्मिता पर ही नहीं बल्कि चोरी की घटनाओं में भी इजाजत हुआ है।

इसी साल के मई-जून के राष्ट्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और पूर्व बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी अपराध के मामलों में वयस्क के समान ही किशोरों के साथ चर्चा करने का सुझाव दिया था। हालांकि तब बाल अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ने बाल अधिकार के साथ किशोरों के हाथों हो रहे अपराध पर नया प्रकार रिपोर्ट प्रकाशित की है, वह भी अपराध और शिर्षक का विषय बन गया है।

मिस्र के कई पूर्व और मौजूदा अधिकारियों की भी इस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार को भीतर से विचार करने की सलाह दी है।

मुझे के मुताबिक रिपोर्ट में पिछले सालों की तुलना में अब 132 फीसद की किशोरों के साथ महिलाओं की अस्मिता पर हमले में वृद्धि होने की बात कही गई है। इसी कड़ी में किशोरों के हाथों बलात्कारों के मामलों में 60.3 फीसद

की वृद्धि होने की बात भी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि किशोरों के हाथों किए जाने वाले अपराधों में सबसे अधिक वृद्धि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के रूप में हुई। यह वृद्धि 132.3 फीसद की रही। इसके बाद महिलाओं के अस्मिता के अपमान के मामले हैं, जिनमें 70.5 फीसद की वृद्धि हुई। किशोरों द्वारा महिलाओं के बलात्कार के मामलों में 60.3 फीसद की वृद्धि हुई। ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दंड संहिता के तहत पकड़े गए कुल किशोरों में से 66.3 फीसद की उम्र 16 से 18 साल के बीच है। पिछले साल किशोरों की संलिप्तता वाले कुल 31,725 मामलों दर्ज किए गए थे। वर्ष 2012 में यह संख्या 27,936 थी। यानी एक साल में इस संख्या में 13.6 फीसद की वृद्धि हुई थी। पिछले साल सबसे ज्यादा किशोरों 7,969 को चोरी की घटनाओं के लिए पकड़ा गया था। इसके बाद चोट पहुंचाने वाले किशोरों 6,043 और फिर धोखाधड़ी करने वाले किशोरों 3,784 की संख्या थी। इनका अनुपात कुल मिलाकर भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किए गए किशोरों की संख्या का 40.9 फीसद था। विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त कुल किशोरों 43,506 में से 8,392 अनपढ़ थे और 13,984 ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। गिरफ्तार किए गए किशोरों में बड़ी संख्या में किशोर गरीब परिवारों से थे। उनके परिवारों की वार्षिक आय 25 हजार रूपए तक थी। वर्ष 2013 के दौरान जो किशोर

विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए, उनमें से 81 फीसद यानी 35,244 ऐसे थे, जो अपने माता-पिता के साथ रहते थे।

ज्ञात हो कि महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बलात्कार जैसे घृणित अपराधों के आरोपी किशोरों के साथ वैसा ही बर्ताव करने का पक्ष लिया था, जैसा कि वयस्क अपराधियों के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा था कि सभी यौन अपराधों में से 50 फीसद ऐसे हैं, जो 16 साल की उम्र वाले उन किशोरों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो किशोर न्याय कानून जानते हैं। इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अच पूंजीयोजित हत्या, बलात्कार जैसे मामलों के लिए यदि हम उन्हें वयस्क दुनिया की सीमा के भीतर ले आएं तो इससे उनमें डर पैदा होगा।

पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने पिछली चुपीए सरकार के शासनकाल में प्रस्ताव दिया था कि घृणित अपराधों के जो दोषी, जिन किशोरों की उम्र 16 साल से ज्यादा हो, उनके साथ वयस्क अपराधियों की तरह ही बर्ताव किया जाए। हालांकि कई गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस प्रस्ताव को बाल अधिकारों के खिलाफ बताते हुए तब इसका विरोध किया था।

इसी महौने की 12 तारीख को 16 से 18 साल के बीच की उम्र वाले किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए

लोकसभा में एक गमम विधेयक पेश किया गया। किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) विधेयक, 2014 वर्ष 2000 में लागू किए गए कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव देना है और इसमें बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उनके पुनर्वास, बच्चों के खिलाफ अपराधों आदि का जिक्र है। कानून में इन बदलावों की मुख्य पृष्ठभूमि में 16 दिसंबर 2012, दिल्ली गैररिपे मामले के नाबालिग दोषी को महज तीन साल की सजा मिलने के कारण उपजा संघ रहा। विधेयक के उपदेशों और कारणों का वर्णन करने वाले बयान में कहा गया कि 16 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के मामलों की संख्या में हाल के सालों में होने वाली वृद्धि यह दर्शाती है कि किशोर न्याय कानून, 2000 के मौजूदा प्रावधान और व्यवस्थाएं इस उम्र समूह के बाल अपराधियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। यह विधेयक किशोर न्याय बोर्ड को यह फैसला करने का अधिकार देने के लिए भी कहता है कि बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र वाले किशोर को सुधार गृह में भेजा जाए या उसपर नियमित अदालत में मुकदमा चलाया जाए। हालांकि इस विधेयक के अनुसार, किसी घृणित अपराध के मामले में शामिल किशोर को किसी भी स्थिति में मृत्युदंड या उम्रकैद नहीं दी जाएगी, फिर चाहे मामला किशोर न्याय कानून के तहत चलाया गया हो या भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत।

Jansatta (H), August 19, 2014, P. 3

महिलाओं पर किशोरों के यौन हमले 132 फीसद बढ़े

किशोरों द्वारा बलात्कार के मामलों में भी 60.3 फीसद की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (भाषा)। महिलाओं की अस्मिता पर किशोरों द्वारा हमलों के मामलों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 132 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और किशोरों द्वारा बलात्कारों के मामलों में 60.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने कहा कि किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में सबसे अधिक वृद्धि महिलाओं की अस्मिता पर किए जाने वाले हमलों में हुई। यह वृद्धि 132.3 प्रतिशत की रही। इसके बाद महिलाओं के अस्मिता के अपमान के मामले हैं, जिनमें 70.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किशोरों द्वारा महिलाओं के बलात्कार के मामलों में 60.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय दंड संहिता के तहत पकड़े गए कुल किशोरों में से 66.3 प्रतिशत की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है। पिछले साल किशोरों की संलिप्तता वाले कुल 31,725 मामलों दर्ज किए गए थे। वर्ष 2012 में यह संख्या 27,936 थी। यानी एक साल में इस संख्या में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पिछले साल सबसे ज्यादा 7,969 किशोरों को चोरी की घटनाओं के लिए पकड़ा गया था। इसके बाद चोट पहुंचाने वाले 6,043 किशोरों और फिर धोखाधड़ी करने वाले 3,784 किशोरों की संख्या थी। इनका अनुपात कुल मिलाकर भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किए गए किशोरों की संख्या का 40.9 प्रतिशत था। विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त कुल 43,506 किशोरों में से 8,392 अनपढ़ थे और 13,984 ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। गिरफ्तार किए गए किशोरों में बड़ी संख्या में किशोर गरीब परिवारों से थे और उनके परिवारों की वार्षिक आय 25 हजार रूपए तक थी। वर्ष 2013 के दौरान जो किशोर विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए, उनमें से 81 प्रतिशत यानी 35,244 ऐसे थे, जो अपने माता-पिता के साथ रहते थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बलात्कार जैसे घृणित अपराधों के आरोपी किशोरों के साथ वैसा ही बर्ताव करने का पक्ष लिया था, जैसा कि वयस्क अपराधियों के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा था कि सभी यौन अपराधों में से 50 प्रतिशत ऐसे हैं, जो 16 वर्ष की उम्र वाले उन किशोरों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो किशोर न्याय कानून जानते हैं। इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, 'लेकिन अब पूंजीयोजित हत्या, बलात्कार जैसे मामलों के लिए यदि हम उन्हें वयस्क दुनिया की सीमा के भीतर ले आएं तो इससे उनमें डर पैदा होगा।' पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने पिछली संसद सरकार के शासनकाल में प्रस्ताव दिया था कि घृणित अपराधों के जो दोषी, जिन किशोरों की उम्र 16 साल से ज्यादा हो, उनके साथ वयस्क अपराधियों की तरह ही बर्ताव किया जाए। हालांकि कई गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस प्रस्ताव को बाल अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया था।

132% हमले
60.3% बलात्कार

किशोरों के अपराध का रिकार्ड

- भारतीय दंड संहिता के तहत पकड़े गए कुल किशोरों में से 66.3 प्रतिशत की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है।
- 2013 में किशोरों की संलिप्तता वाले कुल 31,725 मामलों दर्ज किए गए थे।
- वर्ष 2012 में यह संख्या 27,936 थी।
- 2013 में सबसे ज्यादा 7,969 किशोरों को चोरी की घटनाओं के लिए पकड़ा गया था।
- 2013 में ही चोट पहुंचाने वाले मामलों में 6,043 किशोरों को पकड़ा गया था।
- 2013 में धोखाधड़ी करने वाले किशोरों की संख्या 3,784 थी।
- विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त कुल 43,506 किशोरों में से 8,392 अनपढ़ थे।

Rashtriya Sahara (H), August 19, 2014, P. 13
(Crime against Women)

3.4 Women in difficult Circumstances/ Women in distress (*Night Shelter for Women*)




The Times of India, August 1, 2014, P. 7
(*Night Shelter for Women*)



Rashtriya Sahara (H), August 1, 2014, P. 7
(*Night Shelter for Woman*)

3.5 Women Safety/Support Services (Woman Security-Helpline/Mobile Apps-Safe Hands/ Women Cops on Wheels/Women Safety Guidelines/Woman Helpline/Woman Safety-Mobile Apps)



Free Press Journal, August 7, 2014, P. 7
(Woman Security-Helpline)



Amar Ujala (H), August 10, 2014, P. 6
(Mobile Apps-Safe Hands)

Women cops on wheels to take on criminals on Delhi's roads

PATROL DUTY Two-wheeler squad to be deployed in areas visited by women or from where crimes against women are reported

HT EXCLUSIVE

Karn Pratap Singh
 ■ karn.singh@hindustantimes.com

NEW DELHI: You have seen them regulating traffic on roads and dealing with women complainants at police stations. Soon, you will find the women personnel of the Delhi Police patrolling the streets on two-wheelers (scooties), armed with the latest weapons.

Taking the rising cases of crime against women in Delhi into consideration, the Union home ministry has asked the Delhi Police to form women patrolling squads for areas frequented by women or from where such cases are mostly reported. It has also promised to increase the number of police-women in Delhi.

Police sources said these

teams would patrol the streets even at night and will be formed at police stations across the city. Each squad will comprise two policewomen.

In a letter to Delhi police commissioner BS Bassi, the MHA has asked the force to prepare a list of requirements of scooties that will be given to the women police patrolling squads, the source said.

"The women police patrolling squad will be equipped with wireless sets and latest weapons. Their work profile will be similar to our beat staff but their movements will be restricted to areas mostly visited by women such as women's colleges, girls' schools, PG accommodations for women and markets," a senior Delhi police officer said.

On being questioned about their riding scooties, the officer explained that a scooty is light



■ Very few women cops know how to ride a motorcycle. That's why the Delhi Police opted for a scooty for the women-only squads. PRIYANKA PARASHAR/MINT

weight and a majority of women prefer it. Moreover, very few policewomen know how to ride a motorcycle, the officer added.

On receiving the MHA's letter, the joint commissioners of police (Joint CPs) of all the six ranges have been told to prepare

a list of women police patrolling squads and scooties required in their ranges. The list has to be submitted as early as possible, the police source said.

"The purpose behind the MHA's new initiative is to ensure safety and security of women

and curb crimes against them. On July 16, Union home minister Rajnath Singh had held his first meeting with the Delhi Police officers at the police headquarters and discussed women's security," the police officer told HT.

Hindustan Times, August 5, 2014, P. 2
 (Women Cops on Wheels)

Women's safety and freedom remain a distant dream in the Capital

Many 'vulnerable' zones across the city do not even have functional street lights

Anumeha Yadav

NEW DELHI: It is a weekday evening. Sunita Kohli, 29, a driver with the Azad Foundation's women taxi service, waits outside Rohini metro station for a guest. She is dressed in a green and violet uniform, wears a bindi and smiles widely when she recounts how she applied for the job. "I assisted my husband who is a tailor. I was so bad at stitching. I hated it. Then I saw a pamphlet about a driving course the Azad Foundation was offering to women drivers and visited their Model Town office," she says.

Sunita is one of 71 women drivers trained by the Azad Foundation under its Women on Wheels programme started two years ago in association with the Delhi Police Crime against Women Cell and the Delhi Traffic Police. She trained for several months in self-defence, learnt English and computer, besides driving, but says she still feels unsafe commuting. "I work till 9:30-10 p.m. and have to wait for the bus home to Jahangirpuri on Route 891. There were 12 of us in my batch, but now there are only three of us because it is not easy. Sometimes, I have waited at the bus stop till 10:30 p.m.. The bus stop is deserted and men pass comments. Sometimes I have been forced to leave the bus stop and stay in the office," she said.

This fear and lack of freedom to move in public spaces finds resonance with several women. After the

December 16 gang rape case, the government set up a core group under the Chief Secretary inviting suggestions from various departments, including the Unified Traffic and Transportation Infrastructure Centre

UTTIPEC ON WOMEN'S SAFETY GUIDELINES:

IMMEDIATE MEASURES:



Better street lights



Allow vendors so that they act as "eyes on streets"



Safer bus stops



GPS devices in public transport vehicles

LONG-TERM MEASURES:



Incorporate safety in road design, remove signal-free corridors



Better and more public toilets



Housing the poor within the city to reduce alienation of communities



Train police to handle issues of women's safety sensitively

We have increased the number of CCTV cameras. The number of street lights was increased last year but some may not be functioning. In future, we will incorporate safety audits in our plans

RAVI MATHUR
NDMC Director (Works) Public Works Department

We keep the guidelines on public safety in mind while planning. These have not yet been formally incorporated

BALWINDER KUMAR
Vice-Chairman DDA

(UTTIPEC) team of the Delhi Development Authority, the Delhi Police, the Department of Health and Family Welfare, etc., on improving women's safety. The aim was to take the focus beyond policing to creating an atmosphere of

safety. The UTTIPEC recommended simple measures such as better streetlights, allowing vendors who will function as "eyes on Delhi streets", functional public toilets, safer bus stops and walking space, and encouraging 24x7 activities. In its letters, most recently this January, the UTTIPEC referred to its audit of Outer Ring Road (Munirka-Mahipalpur), Dhaura Kuan clover leaf, Dwarka Sub-City, Nehru Place District Centre and proposed micro-

planning for these "vulnerable" zones. However, *The Hindu* found no change in the condition of street lights, activity levels even in areas like Nehru Place District Centre and Dhaura Kuan, which have been referred to as unsafe spots.

At Nehru Place, no street lights were functional on the road stretch from Nehru Place to Astha Kunj, and of the 11 street lights at Nehru Place metro parking lot, only one was functional. "These lights have not been functional over the past several months," Ghalib, a parking attendant told *The Hindu*. On the road leading from Dhaura Kuan to Naraina and towards Vasant

Vihar, there are several stretches of deserted roads without functional street lights. "Street lights are maintained by BSES Rajdhani. If anyone complains, we ask them to repair," said an NDMC official.

"The setting up of the core group on improving safety was a progressive move. We met twice, all departments gave their suggestions, but after August 2013, there were no further meetings," said Kalpana Vishwanath of NGO Jagori who have been carrying out safety audits of public spaces since 2005.

The Hindu, August 17, 2014, P. 3
(Women Safety Guidelines)

महिला हेल्पलाइन ♦ फोन पर समझाइश होने पर नहीं रखा जा रहा रिकॉर्ड

मनचलों पर नहीं कस पा रहे शिकंजा

■ नम्बर बदलकर बच रहे हैं आरोपित

जयपुर

jaipur@patrika.com

महिलाओं को मनचलों से सुरक्षा दिलाने के नाम पर केवल खानापूति की जा रही है। सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन तो बना दी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।

असल में विभिन्न हेल्पलाइन पर आने शिकायतों के आधार पर आरोपित का केवल मोबाइल नम्बर ही रिकॉर्ड में रखा जा रहा है, जबकि आरोपित मोबाइल नम्बर बदलकर बच सकता है। ऐसे में एक ही मनचले के किसी महिला को बार-बार परेशान करने पर भी उसकी पहचान नहीं हो पा रही, इसी का फायदा उठाकर आरोपित पुलिस कार्रवाई से बच निकलता है।

कोई मनचला फोन पर अश्लील या अभद्र बातें कर किसी महिला को परेशान करता है तो हेल्पलाइन डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बाद में मनचले और पीड़िता के बीच समझाइश से मामला निपट जाता है तो महिला हेल्पलाइन डेस्क की ओर से केवल उस व्यक्ति का फोन नम्बर ही रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रिकॉर्ड हेल्पलाइन डेस्क के पास नहीं है। सरकारी तंत्र की इतनी बड़ी लापरवाही कभी भी महिलाओं के लिए भारी पड़ सकती है।

181 व 1800-1806-781 महिला आयोग की हेल्पलाइन

7891091111 गरिमा हेल्पलाइन

लड़कियां हेल्पलाइन के प्रति कितनी

जागरूक हैं (20 लड़कियों पर किए सर्वे के आधार पर)

30% को हेल्पलाइन का पता नहीं

40% हेल्पलाइन के बजाय खुद समस्या हल करने में विरवास रखती हैं

20% के फोन में है हेल्पलाइन का नम्बर

10% ने हेल्पलाइन से मदद ली या किसी मुसीबत में होगी, तो मदद लेंगी



ऐसे हो रही परेशानी

ग रा जलवरी में जयपुर की राधा (परिवर्तित नाम) को 8520***** नम्बर से एक व्यक्ति फोन पर बार-बार अश्लील बातें कर रहा था। परेशान हो राधा ने महिला गरिमा हेल्पलाइन के 7891091111 पर शिकायत दर्ज कराई। कन्सलर ने फोन कर मनचले को डाटा और फोन पर ही मामला सुलझाने का दावा किया। कुछ दिनों के बाद राधा को वापस 7767***** नम्बर से धमकियां मिलने लगीं। उसने वापस हेल्पलाइन पर शिकायत की और इस बार भी मामला समझाइश से निपट गया। राधा को लगा दोनों बार फोन कर परेशान करने वालों की एक जैसी ही आवाज है। लेकिन रिकॉर्ड में कहीं पता नहीं चला कि सामने वाला व्यक्ति एक ही था।

क्या गारंटी है...

- वह व्यक्ति किसी और को परेशान नहीं करेगा।
- उसी महिला को किसी और मोबाइल से परेशान नहीं करेगा।
- उसने किसी फर्जी पहचान पत्र से मोबाइल नम्बर नहीं लिया है।

पीड़ित लड़कियां ही परेशान करने वाले की पहचान नहीं कर पाती हैं तो कन्सलर को कैसे होगा। पीड़िताओं को किसी पर शक हो तो वे बताएं, तभी पुलिस कार्रवाई कराई जा सकती है।

सीमा कुमार, उपरनिचय, राजस्थान राज्य महिला आयोग

Rajasthan Patrika (H), August 29, 2014, P. 4

(Woman Helpline)

महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार

प्रदीप वत्स

मेरठ, 14 अगस्त। शहर व देहात में बढ़ती बलात्कार व छेड़छाड़ की चारदातों पर लगाम लगाने के लिए मेरठ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वाकांक्षी मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसे स्मार्ट फोन द्वारा ही चलाया जा सकता है। लेकिन पुलिस के इस सॉफ्टवेयर पर यहां यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की तादाद एक खास वर्ग तक ही सीमित है। हाल ही में बलात्कार की कई घटनाएं साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली देहात व शहर की युवतियों के साथ हुई हैं। ऐसे में पुलिस की यह योजना महिलाओं की सुरक्षा में कोई कारगर कदम साबित होगी उसको लेकर संशय बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की मानें तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व लूटपाट

करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए स्मार्ट फोन महिलाओं का हथियार बन सकता है। मेरठ पुलिस ने स्मार्ट सॉफ्टवेयर को कंट्रोल रूम से जोड़ दिया है। इस सॉफ्टवेयर का पैनिक बटन दबाने पर आपकी लोकेशन के साथ ही एक मिनट की आडियो रिकार्डिंग व फोटो कंट्रोल रूम व आपके दो रिश्तेदारों को पहुंच जायेगी। इस सॉफ्टवेयर का आइजी आलोक शर्मा ने पुलिस लाइन में सोमवार को शुभारम्भ किया। इस मौके पर डीआइजी के सत्यनारायण व एसएसपी ओंकार सिंह भी मौजूद थे। आइजी शर्मा ने बताया कि स्मार्ट फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद एप्लीकेशन में चौबीस गुणा सात डालने पर तत्काल ही सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जिसे अपलोड करने के बाद अपना नाम, पूरा पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर और ऐसे दो लोगों के नंबर भरे जाएंगे जिसे आप मुसीबत होने पर जानकारी देना चाहेंगे।

इसके बाद सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा और लाल रंग का पैनिक बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम को चली जाएगी। कंट्रोल रूम के अलावा फॉरन व एंबुलेंस की सुविधा का भी विकल्प है।

पुलिस कंट्रोल रूम में एक स्ट्रिंग लगाई जाएगी जो सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी देगी। जानकारी मिलने के बाद तत्काल ही घटनास्थल के पास की पुलिस को जानकारी दी जाएगी जिससे तत्काल ही मौके पर पहुंचा जा सके। आइजी ने यह भी साफ किया कि यदि कोई पैनिक बटन बार-बार दबाएगा तो उस नंबर की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इस संबंध में छात्राओं व शिक्षिकाओं को पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हालांकि लोगों का मानना है कि मेरठ पुलिस ने स्मार्ट चौबीस गुणा सात को चालू तो कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली से तो लग रहा है कि इसका

कोई लाभ जनता को मिलने वाला नहीं है।

महिलाओं के साथ ज्यादातर बलात्कार व छेड़छाड़ की घटनाएं देहात क्षेत्र में बढ़ रही हैं। लेकिन इस स्मार्ट फोन के जरिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाएगा। देहात में वह स्मार्टफोन गिनीचुनी महिलाओं के पास होगा। अगर 2011 की जनगणना में गौर करें तो करीब 48 फीसद महिलाएं जिले के देहात क्षेत्रों में रहती हैं। जिनके पास स्मार्ट फोन है नहीं और अगर है भी तो उसे चलाने का तकनीकी ज्ञान शायद ही उन्हें हो। आइजी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गांव की महिलाओं को दरकिनार करते हुए यह दावा किया कि अगर शहर के स्कूलों में सर्वे कराया जाए तो 50 फीसद से अधिक के पास स्मार्ट फोन मौजूद है। उनका यह भी तर्क था कि स्मार्ट फोन अब बाजार में महंगे नहीं रह गए हैं। मात्र पांच हजार रुपए में भी स्मार्ट फोन खरीदा जा सकता है।

'Do not elect women sarpanches whose husbands run the show'

Moushumi Das Gupta
* moushumi.gupta@hindustantimes.com

need to see what we can do about the other 95%.

NEW DELHI: Having taken the first big step towards harsher punishment for juveniles accused of rapes, women & child development minister Maneka Gandhi has turned her attention to empowering women. Gandhi tells HT in an interview that little will change on ground unless women make up for 30% of the police force and politicians stop husbands of women sarpanches from running the show.

Do you think the Juvenile Justice Act, which proposes harsher punishment for juveniles in the 16-18 age bracket and accused of crimes like rape, will succeed in acting as a deterrent?

We are not saying they (juveniles) would be sent to court immediately. It is up to the Juvenile Justice Board to decide that... making a 16-year-old even go through the court process makes me very sad. It's not that I regard it as a personal achievement; it is simply a response to the need of the hour. Even I agree this would just be 5% of the total rapes. We

At a time when rape cases have spiked in India and women have been left feeling vulnerable, how do you plan to empower them? Make 30% of all police, women. End the vicious practice that has destroyed panchayati raj by making very weak women sarpanches... keeping them in the house in ghonghat and making their husbands the unofficial bosses. We have even given these husbands a title: pradhanpati. MPs should stop making speeches in Parliament about violence against women and instead remove these pradhanpatis from the system. Get strong women elected as sarpanches.

You have proposed amendments to the National Commission for Women (NCW) Act to make it powerful like the National Human Rights Commission (NHRC). When are these coming up for cabinet approval?

The proposal is still with the law ministry. We are keen to give it NHRC-like status. I want NCW to be a place of last resort where women can go when their relatives or the police don't listen to them. We have two lakh women who lodge complaints with the NCW but there must be at least two crore who are sitting because they don't know what to do.

Jansatta (H), August 15, 2014, P. 21

(Woman Safety-Mobile Apps)

Hindustan Times, August 21, 2014, P. 17

3.6 Women -other issues (Campaign-My Delhi Safe Delhi/We Care For You/Awareness on Sexual Offences/One Stop Centre-Rape Victims)



Hindustan Times, August 7, 2014, P. 6
(Campaign-My Delhi Safe Delhi)



Rajasthan Patrika (H), August 28, 2014, P. 6
(We Care For You)

HC calls for awareness on sexual offences

Mohammed Iqbal

NEW DELHI: Citing Prime Minister Narendra Modi's Independence Day speech in which he expressed concern over the increase in rape cases, the Delhi High Court on Monday laid emphasis on generating awareness on sexual crimes against women and children and carrying out gender sensitisation in society.

Passing orders in a case involving a person convicted of raping his daughter, a Division Bench pulled up the Union Government and Delhi Government for slow pace of the drive for awareness on the issue. "We have no hesitation to say that the Union of India and the Government of NCT of Delhi may not achieve the required results even in the next 20 years," said the Court.

The Bench, comprising Justice Kailash Gambhir and Justice Sunita Gupta, said though several steps had been taken by the government authorities for generating awareness, a lot more needed to be done keeping in view the

enormity and gravity of the issues involved.

In his Independence Day speech, The Prime Minister, expressing serious concern about the increase in rape cases, had spoken of the obligation of parents and the society in general for tackling this "monstrous problem", noted the Court.

"One or two advertisements in any newspaper in a year or six months will not suffice. Public awareness has to be constant on [a] war footing and also at the grassroots level, especially in jhuggi clusters and other crime-prone areas," observed the Bench.

Posting the matter for further hearing on November 14, the Court said it expected the government authorities to file better affidavits after giving a practical shape to their suggestions on the issue.

Lawyer K. K. Sharma, appointed by the Court as amicus curiae in the matter, placed on record suggestions on mass awareness given by him during his interactions with the government officers.

The Hindu, August 26, 2014, P. 3
(Awareness on Sexual Offences)

Women safety in mind, Jung announces one-stop centres for sexual abuse victims

HT Correspondent


htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: On a day Prime Minister Narendra Modi made a call to ensure the safety of women, the Delhi administration announced one-stop centres to help victims of sexual harassment.

Delivering his Independence Day speech from Chhatrasal Stadium, Lieutenant Governor Najeeb Jung said the government would provide all necessary medical aid, legal advice and any other help to such victims.

"The government is running a 24-hour helpline number (181) for the safety of women already. This facility is connected with the helpline of all 185 police stations of the city," Jung said. He listed out the services provided by Delhi Women Commission, crisis intervention centre, rape crisis cell and sahyogini cell.

Jung said the Delhi Government was committed to providing informal training to girls, SC/STs, OBCs and youth residing in villages. Four new polytechnic institutes have been established in the city towards



■ L-G Najeeb Jung addresses the gathering on Independence Day at Chhatrasal Stadium on Friday.
SUSHIL KUMAR/HT PHOTO

this end where employment-oriented training will be imparted. The L-G announced that 1,380 non-AC buses will be added to the city's current fleet of public transportation, which includes 26 special buses for women. He said that 35% of the work relating to metro's Phase-III, a 103-kilometre corridor, had already been completed.

"Efforts are being made to keep Delhi green and as a result, according to a survey, there has been an increase of 3.61 kilometres in the forest cover of the city. There are about 20,000 parks and gardens in Delhi. A detailed report has been prepared by the Empowered Committee to find solutions to provide clean air and water in

L-G'S ORGAN DONATION APPEAL

NEW DELHI: On the eve of Independence Day, 80 of the 173 employees of the Lieutenant-Governor's office pledged to donate their organs. As part of the ongoing organ donation campaign, L-G Najeeb Jung has been urging people to pledge their organs for donation. While Jung had already pledged his organs in May this year, his wife Ameena registered to donate her organs last Thursday. **HTC**

the city of Delhi," Jung said, adding that the suggestions of the committee would be implemented on a mission mode. He said the use of alternative energy is being encouraged. "This year, nine solar units have been set up in different parts of Delhi and 10 more will be set up in the near future," Jung said.

Hindustan Times, August 16, 2014, P. 2
(One Stop Centre)

रेप पीड़ितों के लिए वन स्टॉप सेंटर आज से

■ वीरेंद्र वर्मा, नई दिल्ली

रेप पीड़ित महिलाओं को अब पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शुरू हो रहे वन स्टॉप सेंटर में ही आकर पुलिस रेप पीड़ित महिला का बयान दर्ज करेगी और मामला भी वहीं दर्ज करेगी। दिल्ली का पहला वन स्टॉप सेंटर मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के एलजी इस सेंटर का उद्घाटन करेगी। एक हफ्ते के अंदर दूसरा वन स्टॉप सेंटर वेस्ट दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में शुरू हो जाएगा। 16 दिसंबर 2012, रेप कांड के बाद से इस तरह की मांग उठ रही थी। निर्भया कांड के बाद ऊषा मेहरा कमीशन ने भी वन स्टॉप सेंटर की सिफारिश की थी। देश में अभी तक केवल भोपाल में ही एक ऐसा वन स्टॉप सेंटर है। उसके बाद देश का दूसरा वन स्टॉप सेंटर दिल्ली में शुरू हो रहा है।



दिल्ली के स्पेशल सेक्टर (हेल्थ) एस.बी. शर्मा के मुताबिक यह वन स्टॉप सेंटर आधुनिक है। 6 महीने के अंदर 6 और अस्पतालों में ऐसे सेंटर शुरू कर दिए जाएंगे। नए सेंटरों में अरुणा आसिफ अली अस्पताल, लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल व बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में शुरू किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का प्लान है कि सभी 11 जिलों के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बने। प्लानिंग की जा रही है कि सफदरजंग अस्पताल में दो सेंटर बनाया जाए।

क्या है वन स्टॉप सेंटर

विक्रिम के लिए एक ही सेंटर में गायनी, फॉरेंसिक, सोशल वर्कर्स, सर्जरी, पुलिस और एनजीओ हेल्प के लिए तैयार होंगे। हर वन स्टॉप सेंटर में दो कमरे होंगे। एक कमरे में सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किट होगी। इसमें छोटे-छोटे पैकेट होंगे, जिनमें सैपल लिए जाएंगे। इस रूम में डॉक्टर, नर्स मौजूद रहेंगे। काउंसलिंग रूम में मनोचिकित्सक, गैर सरकारी संगठन के ट्रेड लोग, क्राइसिस इंटरवेंशन काउंसलर, दिल्ली विमिन कमीशन के लोग होंगे। पुलिस में लेडी सब इंस्पेक्टर जाकर काउंसलिंग रूम में ही बयान दर्ज करेगी। एफआईआर भी सेंटर में ही दर्ज होगी। महिला को ओल्टरनेटिव कपड़े भी मुहैया कराए जाएंगे। पीड़ित महिलाओं को इंजुरी हुई तो इलाज किया जाएगा। स्टॉफ को इस तरह की ट्रेनिंग की दी गई है कि वह पीड़ित की पहचान ना बताए। पीड़ित को घर तक फ्री में कैट एंबुलेंस छोड़कर जाएगी। पुलिस महिला के घर तक नहीं जाएगी ताकि लोगों को पता ना चल सके।

इलाज, काउंसलिंग, केस दर्ज

- अस्पताल का काम पीड़ित का इलाज करना, मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार करना और पीड़ित को काउंसलिंग देनी होगी।
- पुलिस रेप पीड़ित का बयान दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और जांच करेगी।
- दिल्ली कमीशन फॉर विमिन पीड़ित की काउंसलिंग करेगी, कानूनी सलाह देगी।
- विमिन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट शैल्टर देगा अगर पीड़ित को उसकी जरूरत है तो।
- कैट्स एंबुलेंस पीड़ित को फ्री में घर तक छोड़ने जाएगी।

Nav Bharat Times (H), August 28, 2014, P. 5
(One Stop Centre-Rape Victims)

4. Demography and Vital Statistics

4.1 Census Data/Evaluation/Survey Reports (*Annual Report-Registration of Births and Deaths*)

Capital's health is improving, says report

VITAL SIGNS Sex ratio at birth up from 886 in 2012 to 895 last year; infant mortality rate falls but experts advise caution

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: There are encouraging signs that the national capital has seen a steady improvement in the health sector.

The sex ratio at birth in Delhi has increased from 886 females per 1000 males in 2012 to 895 in 2013.

The latest data shows in the Annual Report on Registration of Births and Deaths in Delhi, prepared by the Directorate of Economics and Statistics, released on Friday.

The report says, the infant mortality rate (IMR) has decreased from 23.93 during the year 2012 to the current figure of 22.37 recorded in 2013.

"A lot of work has been done -- awareness building, mobilization of women etc, by the government and NGOs. Having said that I would still say, 895 is nothing to be proud of. There is still a long way to go," said Ranjana Kumari, women's rights activist and director, centre for social research.

Health experts feel advances in the healthcare delivery system and government schemes for the benefit of mother and child run are mainly responsible for the drop in the IMR.

"People living in remote areas are making an effort to bring their sick children to hospital for treatment, children are getting vaccinated regularly all this does make a difference," said a senior doctor at AIIMS.



■ Mother and child benefits have improved infant mortality rate.
P. KUMAR/HT FILE

VITAL STATISTICS IMPROVING

Highlights of the Annual Report Registration of Births & Deaths in Delhi 2013

Indicator	2012	2013
Birth rate per 1,000 population	20.90	21.07
Death rate per 1,000 population	6.10	5.52
Infant mortality rate per 1,000 live births	23.93	22.37
Maternal mortality rate per 1,000 live births	1.04	0.54

Age-group of the mother at the time of delivery

Age Group	Percentage
19 yrs or less	2.03%
20-24 yrs	49.48%
25-29 yrs	34.49%
29 yrs or more	14%

Sex ratio: Females per 1,000 males

Year	Sex Ratio
2012	886
2013	895


Hindustan Times, August 23, 2014, P. 6

(*Annual Report-Registration of Births and Deaths*)

लड़कियों की संख्या बढ़ी

वर्ष 2013 में एक हजार लड़कों की तुलना में जन्मीं 895 लड़कियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में कन्या-भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान असर दिखाने लगा है। शहर में बच्चों के जन्म के आधार पर तैयार किए गए आंकड़े बता रहे हैं कि लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। वर्ष 2013 में प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या वर्ष 2012 के 886 से बढ़कर 895 हो गई है। राजधानी में शिशु मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए।



शिशु मृत्यु दर

वर्ष	दर
2012	23.93%
2013	22.37%

निदेशालय द्वारा जारी आंकड़े

- राजधानी में वर्ष 2013 में कुल 3.70 लाख बच्चों का जन्म हुआ जबकि वर्ष 2012 में यह संख्या 3.60 लाख और वर्ष 2011 में 3.54 लाख बच्चों का जन्म पंजीकरण किया गया।
- प्रतिदिन औसत 1014 बच्चों का जन्म हुआ जो वर्ष 2012 के 988 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है।
- 2013 में जन्मे 3.70 लाख बच्चों में 1.95 लाख लड़के थे और 1.75 लाख लड़कियां।
- वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 34.8 फीसद बच्चों का जन्म नगर निगम उत्तरी क्षेत्र, 32.7 का जन्म दक्षिणी नगर निगम क्षेत्र तथा 20.6 फीसद का जन्म पूर्वी दिल्ली निगम क्षेत्र में हुआ। 11.1 फीसद बच्चे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में जन्मे।

Dainik Jagran (H), August 23, 2014, P. 3

One in five births in Delhi took place at home

Sowmiya Ashok and Rukmini. S.

NEW DELHI: One in five births and 1.5 in five deaths took place at home and not in hospitals in the Capital last year, and 15 per cent of all births had no trained medical professional on hand, according to the Delhi Government's annual report on registration of births and deaths for 2013. The report, released on Friday, puts septicaemia as the number one cause of death on an average among institutional deaths with people also losing their lives to infectious intestinal diseases.

While 15 per cent of all births were registered after the mandatory 2-day period, the registration at birth varied according to the gender, with the girl child more likely to be registered after the male child. The New Delhi Municipal Council (NDMC) and the Delhi Cantonment Board were the best at registering births and deaths on time, whereas the South Delhi Municipal Corporation fared the worst.

There were more births in 2013 than in 2012, but fewer deaths and the population of Delhi grew by 2.73 lakh persons. The sex ratio at birth improved in 2013 to 895 females per 1,000 males as compared to 886 the previous year. Yet, it is still lower than it has been in the past, lower than most other States and lower than the all-India average.

As many as 3.70 lakh births were registered in the city in 2013, with 1,014 children being born daily. Interestingly, government hospitals here have handled an average of 545 cases per day of live births as against 284 cases per day by non-government institutions, and 85 per cent of children were born to women in their 20s. While 60 per cent of the births were the first child for a couple, 30 per cent were second children.

According to the report, the NDMC has nearly 100 per cent institutional births, whereas the proportion in case of municipal corporations lies between 70-80 per cent. With 81.75 per cent being institutional births, the report attributes it to "positive impact of different government programmes to encourage institutional delivery for safe maternal and child health." Yet it acknowledges the need to "take further measures to achieve the milestone of cent per cent institutional delivery".

In 2013, a total of 97,185 deaths were registered, with 266 deaths occurring daily. The South Delhi Municipal Corporation registered the maximum figure in the number of people who died without any medical attention.

Interestingly, the New Delhi Municipal Council area seems to be "dying out" as it accounts for 11 per cent of all births, but 22 per cent of all deaths.

ANNUAL REPORT ON REGISTRATION OF BIRTH AND DEATH IN DELHI 2013			
Birth Rate 21.07 per thousand of population	Death Rate 5.52 per thousand of population	Infant Mortality Rate 22.37 per thousand live births	Maternal Mortality Rate 0.54 per thousand live births
BIRTHS			
Total number of births registered during 2013: 3.70 lakh	Average number of births per day in Delhi in 2013: 1,014	Total births (male) 1,95,226 (52.76 %)	Total births (female) 1,74,774 (47.24 %)
Of the total births 3.02 lakh (81.75 %) were institutional and 0.68 lakh (18.25 %) were domiciliary in nature	Out of 3,02,453 institutional births, 1,98,954 (65.78%) births occurred in government hospitals.	Out of the total institutional births 1,41,521 (46.79%) were females	
MCD accounted for 3.26 lakh (88.06 %) of total births where 0.41 lakh that is 11.09 % occurred in NDMC areas and 0.031 lakh in DCB			
Maximum births were in North Delhi Municipal Corporation area: 34.76 %			
AGE-GROUP OF MOTHER	49.48 % in 20-24 years, 34.49 % in 25-29 years, 14 % cases the age of mother was more than 29 years. In 2.03 % of cases the age of mother was even 19 years or less		
DEATHS			
Total number of deaths registered 97,185	Total Deaths (Males) 60,447 (62.20 %)	Average number of deaths per day 266	
	Total deaths (female) 36,738 (37.80 %)		
<ul style="list-style-type: none"> MCD accounted for 75.59 % of total registered deaths of which 32.30 % were in the North Delhi Municipal Corporation area Of the 97,185 deaths registered during the year, 8278 were infants Death by age group: 32.41 % deaths occurred in 65 and above age group, 17.14 % in 55-64 age group, 13.79 % in 45-54 age group, 10.25 % in 35-44 age group 			

The Hindu, August 23, 2014, P. 5

(Annual Report-Registration of Births and Deaths)

4.3 Demography and other relevant statistics (Data on Abortions/Data on Crime against Woman/Data-Sexual Violence Offences/Data on Dowry Death/Data on Crime against Woman)

30 abortions daily at govt hospitals in 2013-14

Sidhartha Dutta
sidhartha.dutta@hindustantimes.com

NEW DELHI: Close to 30 abortions took place daily at Delhi government hospitals in 2013-14, the reply to an RTI application has revealed.

The RTI reply further reveals that 1,00,019 abortions have taken place in Delhi government in the past six years. It also revealed that 42 people died during the procedure. The highest number of abortions (40,238) was recorded in the year 2008-09.

"More than one lakh abortions — in government hospitals of Delhi alone — in the past six years is a huge number. We also sought information about the number of unmarried girls and minors who had undergone abortions in the past six years. But the department did not provide the numbers, stating that there was no such data available with them," said Rajhans Bansal who had filed the RTI.

According to the Medical Termination of Pregnancy Act, it is legitimate to opt for termination of a pregnancy till up to 20 weeks.

"The data that is available seems to be underreported considering the number of hospitals in Delhi. Nowadays, abortions

in the first trimester don't even require surgical procedure. There are drugs available for termination of pregnancy. So, these cases probably don't get reported. In the first trimester, termination is safer but after 12 weeks it gets technically difficult because the foetus begins to grow," said Dr Neerja Bhatia, professor, department of obstetrics & gynaecology at All India Institute of Medical Sciences.

"The terminations in the second trimester are more likely to have problems and the mother could run the risk of septic abortions that could even end up in maternal deaths," she added.

RTI FINDINGS

Abortion is safe within 20 weeks of pregnancy

Year	Abortions	Deaths
2013-14	9,966	4
2012-13	10,672	6
2011-12	10,406	15
2010-11	15,157	5
2009-10	13,580	4
2008-09	40,238	2

SOURCE: DELHI GOVT

Hindustan Times, August 11, 2014, P. 3
(Data on Abortions)

राजधानी में अबॉर्शन

Year	Abortions
2008	40,238
2009	13,580
2010	15,157
2011	10,406
2012	10,572
2013	9,966

सरकारी अस्पतालों में 10 हजार अबॉर्शन हर साल

■ वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली

सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश की राजधानी में अबॉर्शन के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर साल औसतन दस हजार से अधिक अबॉर्शन हो रहे हैं। यह आंकड़े केवल सरकारी अस्पतालों के हैं, प्राइवेट अस्पतालों के अबॉर्शन इसमें शामिल नहीं हैं।

यह तब है जब दिल्ली में मेडिकल रीजन के बिना अबॉर्शन नहीं किए जाने का कानून है, लेकिन इसका खुलेआम मिसयूज होने की वजह से अबॉर्शन हो रहे हैं और यही वजह है कि आरटीआई के जवाब में हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि अबॉर्शन की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

आरटीआई से पता चला है कि पिछले छह साल में दिल्ली में 1,00,419 अबॉर्शन के मामले सामने आए हैं। जिसमें से सबसे अधिक साल 2008 में 40,238 मामले आए थे। लेकिन इसके बाद से इस मामले में कमी आई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह आंकड़े तो सरकारी अस्पतालों के हैं, जबकि इससे कई गुणा अधिक प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकों में अबॉर्शन हो रहे हैं। आरटीआई के

जरीए जवाब मांगने वाले एक्टिविस्ट राजहंस बंसल का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट यह अबॉर्शन एटीपी कानून के तहत करने की बात कह रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि डिपार्टमेंट के पास अबॉर्शन कराने की वजह का डेटा नहीं है।

बंसल का कहना है कि दिल्ली के हर इलाके में सेक्स की पहचान के लिए अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं और कई छोटे-छोटे क्लीनिक हैं जहाँ पर अबॉर्शन भी हो रहे हैं। जब हमने सरकार से अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की उम्र की डिटेल्स मांगी तो उन्होंने ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। जवाब नहीं देने से शंका पैदा हो रही है कि सरकार हमसे कुछ छिपा रही है।

सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अबॉर्शन के दौरान महिलाओं की मौत भी हो रही है। बंसल का कहना है जब ये अबॉर्शन एटीपी कानून के तहत हो रहे हैं तो मौतें नहीं होनी चाहिए। अगर मौत हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मेडिकली अनपैथिकल तरीके से यह सब सरकारी अस्पतालों में भी हो रहा है। पिछले छह सालों में अबॉर्शन के दौरान 42 महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं। जिसमें साल 2011 में सबसे अधिक 15 महिलाओं की मौत हुई थी।

RTI से पता चला, अबॉर्शन के दौरान हो रही हैं महिलाओं की मौतें भी

Nav Bharat Times (H), August 11, 2014, P. 2
(Data on Abortions)

बच्चियों से बलात्कार की 28 हजार वारदातें...

छेड़छाड़ और यौन शोषण के 8 लाख मामले

नई दिल्ली, (वार्ता): देश में पिछले तीन साल में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के लगभग आठ लाख मामले दर्ज हुए हैं जिनमें बच्चियों के साथ बलात्कार की करीब 28 हजार घटनाएं शामिल हैं। निर्भया बलात्कार कांड के कारण सुखियों में रही दिल्ली में बलात्कार की 2739 घटनाएं हुईं। आधिकारिक सूचना के अनुसार 2013 में छेड़छाड़ और बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। इस दौरान नाबालिग और महिलाओं के साथ अपराध के तीन लाख से अधिक और बच्चियों के साथ बलात्कार की 12 हजार से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। दिल्ली में इस दौरान दुष्कर्म की 1441 घटनाएं हुईं जो पहले साल से 35 फीसदी ज्यादा तथा 11 साल में सर्वाधिक हैं। देश में महिलाओं और नाबालिगों के साथ अपराध के तीन लाख नौ हजार 542 मामले 2013 में दर्ज किए गए जबकि 2012 में यह संख्या दो लाख 44 हजार 270 और 2011 में दो लाख 28 हजार 650 थी। इस दौरान बच्चियों के साथ दुष्कर्म की सबसे अधिक 12 हजार 363 घटनाएं हुई हैं जबकि 2012 में यह आंकड़ा आठ हजार 541 और 2011 में सात हजार 112 था। सरकार का कहना है कि इन अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और दर्ज मामलों के जल्द निबटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए त्वरित अदालतों का गठन और न्यायाधीशों के 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के सृजन और इसके लिए प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इन अदालतों के गठन के वास्ते राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार करने का अनुरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बच्चों और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को मजबूत बनाने के भी उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए कानून में बदलाव किए गए हैं। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए 2012 में अधिनियम बनाया गया ताकि इस तरह की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निबटारा जा सके। देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के बाद 2013 में महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित कानून को मजबूत बनाया गया है। इस कानून के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, धरना, तेजाब से हमला करना, शब्दों और अनुचित स्पर्श जैसे अभद्र भाव भाव को भी दंड के दायरे में लाया गया। घूरने, तेजाब डालने जैसे अपराधों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था की गई और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के वास्ते मौत की सजा और आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों को निपटाने के लिए 275 न्यायालयों की स्थापना की गई। इनमें सबसे ज्यादा 50 न्यायालय मध्य प्रदेश में और 48 न्यायालय पश्चिम बंगाल में हैं।

तीन साल में आंकड़ों से सामने आए महिलाओं पर अपराधों के मामले



Punjab Kesari (H), August 11, 2014, P. 6
(Data on Crime against Woman)

Most vulnerable women live on capital's periphery: Study

Maximum Cases At Uttam Nagar PS, 181 Data Mapping Reveals

Ambika.Pandit@timesgroup.com

New Delhi: Women staying in resettlements, slum clusters, unauthorized colonies, villages and on the outskirts of Delhi are at a greater risk of sexual violence. This comes through in a mapping exercise based on the details of callers on the 181 helpline for women in distress set up by the Delhi government after the Nirbhaya case.

Police stations where the maximum cases were registered on the basis of calls have been identified and this data will be sent to the commissioner for review and action. The distribution of Sexual Violence Offences—December 31, 2012 to July 15, 2014—shows that the Uttam Nagar police station tops the list with 454 cases. More than 200 cases were registered in the police stations of Sultanpuri, Nangloi, Narela, Jahangirpuri, Aman Vihar, Mangolpuri, Dabri, Najafgarh, Burari, Tilak Nagar, Sangam Vihar and Gokulpuri. The total cases registered across 259 police stations on the basis of calls till July 15 was 14,318. The helpline has received 9,56,942 calls.

A human rights activist and the government consultant on the helpline, Khadijah Faruqi, pointed to the vulnerability of girls living on the city's periphery. The assessment—the data for which is being compiled—is seen as a ground report for policy planners. This is the first such exercise by the helpline.

Of the 4,66,812 calls received from December 31, 2012 to May 31, 2014, over 64,000 were about domestic violence. Sexual assault complaints were made by 19,357 callers and a shocking 8,813 calls were regarding child sexual abuse. As many as 745 women complained of attempt to rape and 230 informed about sexual abuse at workplace. The data also brings to light the growing instances of children and young women going missing. The helpline received 3,904 complaints in the missing category.

Dowry-related violence and event death are still serious issues. The helpline received 1,238 complaints of dowry deaths. The call operators, many of whom are survivors of crime, responded to 6,60,012 calls. That 2,96,932 cases could not be taken up underlines the need to shore up infrastructure.

DISTRESS DOSSIER

Call profile (Dec 31, 2012 to July 14, 2014)

Abandoned calls: 2,96,932

Assessment of 4,66,812 calls (Dec 31, 2012 to May 31, 2014)

Total Calls: 9,56,944

Answered: 6,60,012


MAJOR CATEGORIES

- Domestic violence: 64,458
- Obscene calls: 35,962
- Sexual assault: 19,357
- Child sexual abuse: 8,813
- Dangerous attack: 5,713
- Kidnapping: 4,325
- Dowry violence: 4,222
- Missing: 3,904
- Penetrative sexual assault: 3,633
- Abduction: 3,171
- Illegal confinement: 2,448
- Stalking: 2,112
- Dowry deaths: 1,238
- Murder: 982
- Attempt to rape: 745
- Acid attack: 441
- Sexual abuse at workplace: 230

181 helpline launched by Delhi govt to help women after Nirbhaya gang rape in Dec 2012

Distribution of sexual violence offences (Dec 31, 2012 to July 15, 2014)

Cases registered in 259 police stations based on calls: 14,318



The Times of India, August 3, 2014, P. 6
(Data-Sexual Violence Offences)

THE CASE

For several years, Kulbir Kaur was harassed and physically abused by her husband and in-laws for dowry. On October 27, 2009, she was found dead in her husband's house.

Where: Tiba Nangal, Nurpur Bedi, Ropar district, Punjab
How: Death by medicine overdose
Legal status: Life imprisonment to husband, in-laws.

DOWRY DEATHS IN PUNJAB

Year	Number of Deaths
1995	130
2000	159
2005	99
2008	128
2010	121
2011	143
2012	118
2013	126

'DOWRY PART OF MARRIAGE RITUAL'

Says Rainuka Daggar of the Institute of Development and Communication, Chandigarh: "The number of dowry deaths in Punjab has come down but the number of dowry harassment cases is going up. Due to its patriarchy where inheritance rights are only for the son, dowry to daughters is considered as parents' obligation and part of marriage ritual. We collect data every five years from 5,000 households and results show dowry harassment cases are going up."

Young girls are being killed for money, a piece of land, a motorcycle, a car. Last year, 793 dowry death cases were recorded across 53 Indian cities. Delhi topped the list with 125 cases. Join our campaign 'Freedom from Dowry'. How do we rid our society of this menace? Tell us. Share your experience. Write to harinder.baweja@hindustantimes.com

For stories, photos and videos, go to hindustantimes.com/dowry

Hindustan Times, August 15, 2014, P. 14
 (Data on Dowry Death)

Missing girl cases see 500 pc jump in Delhi

Ashish Tripathi

NEW DELHI, DHNS: The number of missing girls, who remained untraced in Delhi, has seen a more than 500 per cent rise in five years between 2009 and 2014, the Delhi government has told the Supreme Court. The total number of untraced children registered a 400 per cent jump in this period.

According to the Delhi Legal Services Authority, 38 per cent children left their homes of their own volition, 21 per cent did so because of parents' scolding, while 17 per cent went missing as they lost their way home.

Elopement and academic pressure accounted for 8 per cent and 7 per cent, respectively, of the missing cases of those below the age of 18. Kidnap-

ping and abduction with criminal intent were reasons for three per cent of such cases. In an affidavit, the National Capital Territory of Delhi government submitted details of children reported missing since 2009 up to June this year. As per the figures, out of 3,638 missing children this year, 2,291 were found and 1,347 still remain untraced. The number of girls who cannot be traced was alarmingly higher at 817 than 530 among boys.

Though Delhi government's home department claimed that every section concerned as well as the Delhi Police were taking proactive and concerted action in these cases, data submitted to the court showed a steady rise every year from 2009 to 2014.

The clarification came in response to a PIL filed by advo-

cate Sarwa Mitter, who demanded capital punishment for those who kidnapped children for different reasons, including to trade their organs. Mitter claimed the official figure of missing children was over 75,000 in three years in 11 states. Listing out its efforts in tracing these children, the affidavit said the cases were being monitored by the district deputy commissioner of police and other senior officers. The DCP Crime, who is the nodal officer for the anti-human trafficking unit in Delhi, held regular meetings to find any linkages with organised crime.

Cause for alarm

YEAR	MG	TOTAL	TG	TT	NT
2009	2,673	5,946	2,743	5,493	453 (200)
2010	2,457	5,091	2,077	4,307	784 (380)
2011	2,655	5,111	2,166	4,256	855 (499)
2012	2,692	5,284	1,986	4,051	1,233 (706)
2013	3,919	7,235	2,862	5,458	1,777 (1057)
2014	2,039	3,638	1,222	2,291	1,347 (817)

Read as MG: Number of missing girls, TG: Number of traced girls, TT: Total traced, NT: Yet to be traced, figures in brackets indicate number of girls. Figures up to June 30, 2014

Punjab Kesari (H), August 11, 2014, P. 6
 (Data on Crime against Woman)

5. Schemes/Programmes relating to Women and Children

5.1 Schemes/Programmes (Scheme-Kanyasree/Beti Baccho, Beti Padhao/MGNREGA/Baby Care Kit/Programme-Sarkar Aapke Dwar Mid Day Meal/Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)



Hindustan Times, August 9, 2014, P. 10
(Scheme-MGNREGA)



Rajasthan Patrika (H), August 1, 2014, P. 8
(Mid Day Meal)

Tamil Nadu to launch baby care kit scheme

Ramya Kannan

CHENNAI: Tamil Nadu's latest health care initiative comes packed compact in a small kit box. On Tuesday, Chief Minister Jayalalithaa announced on the floor of the Assembly that the government would provide an Amma Baby Care Kit to all mothers who deliver babies in any government hospital in the State.

The kit, which will contain baby and mother essentials post-partum, will include baby towels, napkins, a dress, bedding, mosquito net, oil, nailcutter, soap and soap box, toys, a rattle and hand sanitiser, and soap, apart from Sowbhagya Leghyam to build the mother's health. Ms. Jayalalithaa announced that about 6.7 lakh children born in government hospitals every year would benefit and a sum of Rs. 67 crore had been apportioned for it. "The main idea is to promote hygiene and sanitation among mothers and new borns, and help in the development of the infant. The mother goes through a lot after the delivery, and needs some attention too, which is often

GIFT OF CARE TO NEWBORNS

- Towel
- Infant Dress
- Infant Mattress
- Mosquito Net
- Napkin
- Oil Bottle (100 ml)
- Baby Shampoo (100 ml)
- Soap Box
- Soap
- Nail Cutter
- Baby Rattler (toy)
- Doll
- Hand Sanitiser (250 ml)
- Soap (for mothers)
- Sowbhagya Leghyam (stimulant)
- Box to store items

6.7 LAKH CHILDREN WILL BENEFIT THROUGH THE SCHEME, FOR WHICH RS. 67 CRORE HAS BEEN ALLOTTED



denied to her," says an official of the Health Department. Tamil Nadu has a better Infant Mortality Rate in the country at 21 children per 1000 live births, annually. Experts point out that focus should also be on neonatal mortality, where babies die within the first 28 days of birth (15 per 1000 live births in a year). This kit will come in handy during this initial period, they feel, and recommend that the scheme

be replicated countrywide.

Besides contributing to the feel-good factor for the mother, it also will help the family tide over the first few days after birth.

"We have known parents who find it tough even to buy diapers for the baby," says K. Saraswathy, former director, Institute of Obstetrics and Gynaecology, here. "The mothers will also have to be taught how to use the products," she adds.

The Hindu, August 13, 2014, P. 7

(Scheme-Baby Care Kit)

Raje launches ambitious scheme to convert women into 'power women'

A bank account to be opened in the name of the woman head of the family & channelling all financial entitlement in her account

Aarti Dhar

UDAIPUR: Breaking away from the tradition of holding Independence Day celebrations in the State Capital, Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje on Friday unfurled the National Flag in the Lake City Udaipur where the government will also begin its 10-day 'Sarkar Aapke Dwar' programme from Saturday.

The highlight of the day was the launch of the ambitious Bhamashah scheme which aims to empower women by making them the financial heads of the family. This would be done by opening a bank account in the name of the woman head of the family and channelling all financial entitlement of the family in her account. The scheme was formally launched with the Chief Minister handing over the first Bhamashah card to Shanta Bai of Udaipur.

Speaking on the occasion, Ms Raje said the scheme would change the traditional equations in the family from patriarchal to matriarchal and making all women in the State 'power women.'

She asked the people to get enrolled under the scheme which would also double as an identity card. All social scheme benefits would flow through the Bhamashah card as would all e-facilities provided by the government. A sum of Rs 600 crore has been earmarked for the purpose and enrolment process was also started from Kota through video-conferencing.

The scheme had been started in her previous tenure in 2008 but was discontinued by the new dispensation after the BJP lost the Assembly elections.

Ms Raje said 'Sarkar Aapke Dwar' (government at your doorstep) programme was aimed at solving the problems of the people at the grassroots. She spoke at

length about the schemes for infrastructure development, employment generation and skill development, but sought some time to implement them. She promised jobs for 15 lakh youth in the State.

Later in the day, the Chief Minister inspected an exhibition of latest weaponry and equipment displayed along Fatehsagar Lake.

The Hindu, August 16, 2014, P. 6

(Programme-Sarkar Aapke Dwar)

Maneka lauds Mamata's 'Kanyasree' scheme

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 14 August

The Mamata Banerjee government in West Bengal came in for praise from Union Minister Maneka Gandhi who lauded the state's Kanyashree scheme and said it should be replicated in the rest of India. Winding up a discussion on the need for legislation to check increasing atrocities against women and children, the Women and Child Development Minister said, "If any of you have any success stories that can be replicated, please feel free to send them to me. The Kanyashree girl child programme started in West Bengal is an excellent idea and we could look at that." Ms Gandhi used the opportunity to appeal to MPs across the board to put pressure on respective state governments to emulate Gujarat and ensure one-third women in the state police force. "You could do what Gujarat has done... Ask your chief ministers to make one third of the police force women," Maneka said, lamenting however that no CM has responded to her letter on the subject.

She said ensuring adequate number of women police personnel across the country could also go a long way in sensitising people in general as well as police personnel. Stating that mere speeches made in Parliament cannot solve the problems of growing incidents of crime against women, Ms Gandhi said out of over 500 MPs only two have so far responded to her request to take up the cause of establishing rape crisis centres. "I wrote to each one of you personally, a month ago, asking you to give me your letter and commitment and land for the rape crisis centres. I have received only two replies out of 500 plus," she said.

The Statesman, August 15, 2014, P. 8
(Scheme-Kanyasree)

Beti... drive in 100 dists with worst sex ratio

HOW THEY FARE

RANK	DISTRICT	STATE	SEX RATIO		DIFFERENCE
			2011	2001	
1	Daman	Daman & Diu	534	591	-57
2	Leh	Jammu & Kashmir	690	823	-133
3	Tawang	Arunachal Pradesh	714	782	-68
4	North Sikkim	Sikkim	767	752	15
5	Dadra & Nagar Haveli	Dadra & Nagar Haveli	774	812	-38
6	Nicobars	A & N Islands	777	857	-80
7	Surat	Gujarat	787	810	-23
8	Kargil	Jammu & Kashmir	810	837	-27
9	Dibang Valley	Arunachal Pradesh	813	697	116
10	Chandigarh	Chandigarh	818	777	41

Districts having the lowest sex ratio of female per 1,000 males

Maneka Sets 2-Yr Deadline For Implementation

Himanshi Dhawan
@timesgroup.com

New Delhi: Hundred districts with the worst child sex ratio across the country will be the cradle for the ambitious 'Beti bachao, beti padhao' scheme that envisages a mix of cash transfers with stringent action against erring medical practitioners and monitoring of health clinics.

"We are working on district-specific plans for the 100 worst sex ratio districts. There will be a two-year deadline for its implementation," women and child development minister Maneka Gandhi said. The ministry will

work in tandem with the ministries of health and education on the scheme. The Modi government had allotted Rs 100 crore for the scheme in the Union Budget. India has one of the worst sex ratios, earning the title of the "country with missing girls".

Child sex ratio (0-6 years) in India was 927 girl children per 1,000 boys in 2001 which dipped to 919 girls for 1,000 boys in 2011, the lowest since Independence. A Unicef report in 2012 ranked India 41st among 195 countries.

"There is a continued belief that the girl will cost her parents whether it education or dowry, that she is not safe and that she will not

earn for the family. But these excuses cannot go on. It is time to deal with this problem," Maneka said.

Officials said best practices from across the country will be adopted. Some of the examples include West Bengal's system of enabling cash transfers at periodic intervals for the child's education. In Punjab, pregnant women were registered in their first trimester so that authorities could monitor cases of foeticide, WCD secretary V S Oberoi said. The ministry is also considering Tamil Nadu's "amma-baby kit" to encourage institutional deliveries.

For the full report, log on to www.timesofindia.com

The Times of India, August 14, 2014, P. 15
(Scheme-Beti Baccho, Beti Padhao)

आपकी नज़र में है कोई जिसका बैंक में खाता नहीं?

उन्हें बतायें बैंक खाता खुलवाना हुआ अब बेहद आसान



प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना'* की घोषणा की है। इस योजना के तहत, आइए अपना बैंक खाता आसानी से खोलिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाइए -

विशेष सुविधाएं

- पैसों की सुरक्षा के साथ ब्याज
- डेबिट कार्ड के ज़रिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालना
- ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा
- कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं

साथ ही अन्य सुविधाएं

- भारत में कहीं भी आसानी से पैसे भेजना
- यदि आप हितग्राही हैं तो सरकारी योजनाओं की राशि खाते में सीधे पाना
- 6 माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- पेंशन, बीमा, इत्यादि

शेख आगे केज़र

बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़।

आधार कार्ड या आधार नम्बर है तो किसी भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पता बदल गया है तो अपने वर्तमान पते को स्वयं के द्वारा प्रमाणित करके देना आवश्यक है।

अगर आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से एक - मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्राधिकृत जन प्राधिकारी अथवा लोक सेवक व सरपंच द्वारा जारी पत्र।

अन्यथा, इनमें से एक (पहचान के लिए) - मान्यता प्राप्त संस्थान का पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड।

एवं इनमें से एक (पते के लिए) - बिजली या टेलीफोन बिल, जन्म या विवाह का प्रमाण पत्र।

जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए शिविरों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अपना खाता खोलने के लिए अपनी नज़दीकी बैंक शाखा, शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क कीजिए।

खाता खोलने के लिए विशेष शिविर

दिनांक 28 अगस्त, 2014 को योजना के शुभारंभ के अवसर पर बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में शिविरों का आयोजन। इन्हीं क्षेत्रों में 25 से 27 अगस्त, 2014 तक खाता खुलवाने के लिए तैयारी शिविर लगाए जायेंगे।



वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
www.financialservices.gov.in

Dainik Jagran (H), August 26, 2014, P. 5

(Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

जन-धन योजना 28 को होगी लांच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बैंक अधिकारियों को भेजा ईमेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को नई दिल्ली में वित्तीय समावेश की महायोजना का शुभारंभ करेंगे। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सात करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले जाएंगे। हर लाभार्थी को खाते के साथ एक डेबिट कार्ड और एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। मोदी ने इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए सभी बैंकों के अधिकारियों को ईमेल भेजा है।

मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' की घोषणा की थी। यह योजना वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना

मोदी करेंगे शुभारंभ

- कहा, हर परिवार के लिए बैंक खाता 'राष्ट्रीय प्राथमिकता'
- सभी करें प्रयास ताकि बगैर बैंक खाते के न रहे कोई परिवार



और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। प्रधानमंत्री ने इसे अहम जिम्मेदारी करार देते हुए कहा है, 'हमें सात करोड़ से भी ज्यादा परिवारों का खाता खोलने की जरूरत है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए निश्चित रूप से तैयार हो

जाना चाहिए। इस प्रक्रिया की अहमियत समझने की जरूरत है, क्योंकि महज इस एक कमी के कारण सभी अन्य विकास गतिविधियां अटकती जा रही हैं।' प्रधानमंत्री ने बैंक अधिकारियों से अथक प्रयास करने का आग्रह किया ताकि कोई भी परिवार खाता खूले बगैर

न रह जाए। मोदी ने कहा, 'प्रधान मंत्री जन धन योजना 'सब का साथ, सब का विकास' की अवधारणा का अहम हिस्सा है।' एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी। इससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्तीय संकटों से बचने और तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर खाता धारक को एक रुपये डेबिट कार्ड और एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। आगे चलकर इन लोगों को बीमा व पेंशन उत्पादों के दायरे में लाया जाएगा।

Dainik Jagran, August 26, 2014, P. 10

(Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to target 17.8 million people in Delhi

It will be done through a network of 33 operating banks

Sowmiya Ashok

NEW DELHI: Anand Parbat resident Sunita is 40 years old and has never opened a bank account. Her children who listened to Prime Minister Narendra Modi's speech on Independence Day insisted she open one under the newly launched 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' which provides a zero-balance bank account with RuPay debit card, life insurance cover of Rs 30,000 in addition to accidental insurance cover of Rs 1 lakh. In Delhi, the scheme will target 17.8 million people through a network of 33 operating banks and 3,282 branches with more branches to be opened up for this purpose, said Delhi Government officials.

Sunita, her neighbours Mahender Singh and Kamal, were among the several residents of Delhi who gathered at the Delhi Secretariat on Thursday for the official launch of the scheme in the Capital.

She received a pass book and debit card from Union Health Minister Harsh Vardhan who said the scheme will



Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan with Delhi Lieutenant-Governor Najeeb Jung handing over a passbook and debit card to a beneficiary of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in New Delhi on Thursday. - PHOTO: SUSHIL KUMAR VERMA

prove helpful for poor people who fear entering banks.

"People are excited about this scheme which will benefit crores of people across the country. This excitement can be compared to when Mr. Modi became Prime Minister. I urge people, who have bank accounts, to encourage those who don't have one, to open their accounts under Jan Dhan Yojana," said Dr. Vardhan.

Lieutenant-Governor Najeeb Jung presided over the function and said it was a revolutionary step by the government.

"This will usher in a big revolution to a poor person's life and it will serve as a confidence building mechanism knowing that he has a debit card in this pocket," he said, adding that "the responsibility of making the scheme successful rests on banks and I

hope this revolutionary step will really benefit the poor".

Chief Secretary D.M. Spolia, who took over on Thursday, termed the scheme "a new and innovative financial scheme" which will provide social security to the poor. "The response in Delhi is overwhelming and within a few days as much as 3.5 lakh bank accounts have been opened," he said, adding this process will be accelerated.

The Hindu, August 29, 2014, P. 5

(Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

5.2 Policies (Guidelines-Child Adoption/New Health Policy)

...ताकि अनाथों को जल्द मिल सके घर

अडॉप्शन गाइडलाइंस सरल बनाने पर जुटी सरकार, जल्द कैबिनेट की मंजूरी को आएगा बिल

■ पूनम पाण्डे, नई दिल्ली

देश में कई अनाथ बच्चे 'घर' के इंतजार में हैं, तो कई पैरेंट्स इन बच्चों से घर को गुलजार करने की बात जोह रहे हैं। लेकिन अडॉप्शन की जटिल और लंबी प्रक्रिया से इन बच्चों और गोद लेने के इच्छुक पैरेंट्स-दोनों का इंतजार लंबा होता जाता है। अब मोदी सरकार ने अडॉप्शन की गाइडलाइंस को आसान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वेटिंग पीरियड होगा फिक्स

अडॉप्शन के लिए वेटिंग पीरियड को फिक्स किया जाएगा, जो चार महीने तक हो सकता है। अभी तो एक साल तक का वक्त लग जाता है। इन बच्चों को उनके पैरेंट्स सरेंडर कर देते हैं और उन्हें एक महीने के भीतर अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री किया जाने का भी प्रावधान है, अभी इसमें दो महीने लग जाते हैं। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान भी ड्राफ्ट में



इच्छुक पैरेंट्स को बच्चों की उपलब्धता बढ़े। अब तक के सिस्टम में यदि किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कोई रेजिडेंट इंडियन अप्लाई करता है, तो एनआरआई पैरेंट्स के लिए वह बच्चा उपलब्ध नहीं होता। नए ड्राफ्ट में दोनों को बराबर हक दिया जा रहा है।

होम स्टडी रिपोर्ट में लगने वाले वक्त को भी नए ड्राफ्ट में कम किए जाने का प्रावधान है। होम स्टडी रिपोर्ट एक सोशल वर्कर तैयार करता है, जो अडॉप्शन के इच्छुक पैरेंट्स के घर की कंडीशन का जायजा लेता है। अभी रिपोर्ट जमा करने के लिए दो महीने का वक्त दिया जाता है, जिसे एक महीने किया जाएगा।

किया गया है, ताकि अडॉप्शन की सही तरीके से और व्यापक मॉनिटरिंग हो सके। स्टेट गवर्नमेंट हर जिले में एक या दो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी रेजिस्टर्ड करेगी। ताकि अनाथ, छोड़े गए और सरेंडर किए गए बच्चों का अडॉप्शन के जरिए रिहेबिलिटेड किया जा सके। अडॉप्शन के लिए कोई पैसे का लेन-देन होना या लेन-देन पर राजी होना जुर्म माना जाएगा। इसमें तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के मूताबिक अभी भी 208 एनआरआई और 498 विदेशी अडॉप्शन का इंतजार कर रहे हैं। इंडियन प्लेसमेंट एजेंसी में अभी 890 बच्चे हैं, जो अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री हैं। ये बच्चे इंडियन, एनआरआई या विदेशी को अडॉप्शन में दिए जा सकते हैं।

बराबर हक का प्रावधान

जेजे बिल 2014 के ड्राफ्ट में अडॉप्शन के इच्छुक एनआरआई पैरेंट्स को रेजिडेंट इंडियन के बराबर हक देने का भी प्रावधान किया गया है। यह ड्राफ्ट इंटरमिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए सर्कुलेट किया गया है। इसे बहुत जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर संसद में। ड्राफ्ट के मुताबिक चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट में लीगली फ्री बच्चों को अडॉप्शन सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि गोद लेने के

Nav Bharat Times (H), August 4, 2014, P. 7
(Guidelines-Child Adoption)

New health policy to focus on infertility in women

NEW DELHI: "A woman's body is a temple, extremely important from the perspective of a nation's future," said union minister Harsh Vardhan. He was referring to the increasing cases of infertility among women.

The minister said that the new National Health policy will address the issue of rising reproductive illness.

The central government was alarmed by reports of Polycystic Ovarian Disease, Endometriosis and Fibroids — condition associated with infertility, which is increasingly affecting women even in their teens.

"I am depressed by this new trend as reported to me by doctors. I feel we should react fast but with caution," said Vardhan speaking at the golden jubilee celebrations of Laxmibai College.

The minister said reducing maternal mortality rate, improving nutritional level of women from less-privileged backgrounds and reinforcing mother-and-child development programmes are areas of prime focus for his government. **HTC**

Hindustan Times, August 29, 2014, P. 9
(New Health Policy)


5.3 Legislation/Bills/Court orders (POCSO /JJAct/Immoral Trafficking Act/Family Laws/ Live in Relationship)



The Statesman, August 8, 2014, P. 7
(JJ Act)



Nav Bharat Times (H), August 8, 2014, P. 5
(JJ Act)



The Hindu, August 13, 2014, P. 1
(Juvenile Justice Bill)

जेजे एक्ट 2014 के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी जघन्य अपराधों में किशोरों को भी मिलेगी सख्त सजा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने गंभीर अपराधों में शामिल 16 से 18 साल के किशोरों को वयस्क की तरह सख्त सजा दिलाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। लंबे समय से इस मुद्दे पर छिड़े विवाद को दरकिनार करते हुए कैबिनेट ने बुधवार को किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट)-2014 के मसौदे पर मुहर लगा दी। इससे गंभीर अपराध के मामले में जेजे बोर्ड नाबालिगों का मुकदमा सामान्य कोर्ट में चलाने का निर्णय ले सकेगा।

मालूम हो कि दिसंबर, 2012 में दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद से किशोर की उम्र सीमा घटाने की मांग तेज हो गई थी। इस मामले में दोषी किशोर को सिर्फ तीन साल बाल सुधार गृह में बिताने की मामूली सजा मिली थी। पिछली सरकार में भी इस कानून में बदलाव को लेकर विचार विमर्श हुआ था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। तमाम मंत्रालयों और समाज के अलग-

- 16 से 18 साल के किशोरों पर गंभीर अपराध के मामले में वयस्क की तरह सख्त सजा मुकदमा
- लेकिन जघन्य अपराध के किसी भी मामले में किशोर को नहीं दी जा सकेगी फांसी या उमकैद की सजा



कैबिनेट के अन्य फैसले

रक्षा में 49% और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी

खबर काटोवार पर

रैगिंग, उत्पीड़न पर कड़ी सजा

बच्चों के शारीरिक उत्पीड़न, रैगिंग, भीख मंगवाने या अस्पतालों में बच्चों की खरीद-फरोख्त जैसे अपराधों पर साल से दस साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी जेजे एक्ट में किया गया है। डॉक्टर के पर्चे के बगैर तंबाकू उत्पाद, जशीली दवा देने पर सात साल की सजा का प्रावधान है।

अलग वर्गों से मिले सुझाव के आधार पर तैयार जेजे एक्ट-2014 के मसौदे को कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।

पृष्ठ पंज 9 पर

जघन्य अपराधों में...

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इस मसौदे को कानूनी रूप देने के लिए मौजूदा सत्र में ही संसद में लाना चाहती हैं। पिछले माह इस संदर्भ में 14 मंत्रालयों को भेजे गए कैबिनेट नोट पर कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत ज्यादातर मंत्रालयों ने अपनी सहमति जताई थी। हालांकि राष्ट्रीय बाल आयोग समेत बाल हित में काम कर रहे कई एनजीओ ने इस प्रस्ताव से असहमति जाहिर की है। सरकार की इस पहल से 16 से 18 साल के बीच के किशोरों के दुष्कर्म, तेजाब हमले, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होने पर सामान्य कोर्ट तक मामला ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जेजे बोर्ड के निर्णय के आधार पर ही किशोर अपराधियों के मामले सामान्य कोर्ट तक आ सकते हैं। सरकार ने जेजे एक्ट के पुराने स्वरूप को खत्म कर इसे नए सिरे से पेश किया है। लेकिन नए मसौदे के प्रावधानों में भी साफ है कि जघन्य अपराधों में शामिल किशोर को किसी भी मामले में फांसी या उमकैद की सजा नहीं दी जा सकेगी।

Amar Ujala (H), August 7, 2014, P. 1 & 9

(JJ Act)

लीगल फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस पर काम कर रहा लॉ कमीशन लिव-इन पर बनेगा कानून

■ गंगाधर एस. पाटिल (ईटी),
नई दिल्ली

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के अधिकारों से जुड़ा कोई कानून नहीं है। हालांकि, सोसायटी में इस तरह के रिश्तों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। ऐसे में पहले से तय गाइडलाइंस न होने के कारण अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने में काफी मुश्किल होती है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अब इसका हल खोजने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लॉ कमीशन एक रिपोर्ट पर काम कर रहा है और इसके चलते सामने आने वाली गाइडलाइंस लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी कवर मुहैया करा सकती है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में कानूनी ढांचा मुहैया कराने को कहा था।

हालांकि, इस विषय से निपटना आसान नहीं है और इससे गरमागरम बहस को जमीन तैयार हो सकती है। मिसाल के तौर पर क्या इस तरह के संबंध शादी की कैटेगरी में आते हैं और अगर ऐसा है तो इसकी मान्यता के लिए पार्टनर्स को कितने दिन साथ रहना



पड़ेगा? रिपोर्ट में जिन अहम पहलुओं पर फोकस किया जाएगा, उनमें पार्टनर्स के अधिकारों और दायित्वों के अलावा ऐसे संबंधों की कानूनी मान्यता आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप में भी शादी से जुड़ा घरेलू हिंसा कानून, 2005 लागू होगा और क्या रिश्ता टूटने की हालत में डिपेंडेंट को गुजारा-भत्ता पाने का भी हक होगा?

कमिशन संबंध की अवधि, घरेलू ईतजाम, यौन संबंध, बच्चे, सामाजिक व्यवहार और पार्टनर्स का नजरिया

आदि पहलुओं की स्टडी कर लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी गाइडलाइंस पर सिफारिश करेगा। लॉ कमीशन इस सिलसिले में एक्सपर्ट्स और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बैठके कर चुका है। कमिशन ने नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर काम शुरू किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को इस तरह के संबंधों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि लिव-इन

नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव-इन कोई अपराध या पाप नहीं है। कोर्ट ने इस बाबत कानून में किसी तरह का प्रावधान न होने पर चिंता जताई थी

रिलेशनशिप कोई अपराध या पाप नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस बाबत कानून में किसी तरह का प्रावधान नहीं होने पर भी चिंता जताई थी। अदालत का कहना था कि इस तरह के संबंधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पर्याप्त और असरदार सुरक्षा सिस्टम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में कहा गया था, 'संसद को इन मसलों पर विचार करना होगा। साथ ही, कानून लाना होगा या फिर एक्ट में संशोधन करना होगा।'

कोर्ट को इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन इस मामले में विचार करेगा। कमिशन इस बात की भी पड़ताल करेगा कि क्या ऐसे रिश्तों में हैरेसमेंट या डिपेंडेंट को गुजारा-भत्ता देने में नाकाम रहना घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा।

Nav Bharat Times (H), August 8, 2014, P. 16

(Live in Relationship)

POCSO charge only for accused who know victim is a minor: Court

KAUNAIN SHERIFF M
NEW DELHI, AUGUST 10

A DELHI court has observed that for persons accused of offences under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), the prosecution has to not only prove the age of the victim to be below 18 years (actus rea) but also has to establish 'mens rea' (guilty mind) — show that the accused knew that the victim was a child when the act was committed.

Additional Sessions Judge Pawan Kumar Jain observed that the "real test" was to establish whether the person "knowingly" indulged in sexual activities prohibited under the POCSO Act.

"For instance, if a child is just going to complete 18 years, but a few days before attaining majority, a friend or someone else... invites the child for sexual acts, and on basis of such representation and invitation such person indulges in sexual activities with such child. To my mind, in such a situation, the person cannot be held under POSCO Act merely on the ground that the child has not completed 18 years," the judge said.

The court's observation came in a case where the accused was charged with rape (IPC 376), kidnap (IPC 363) and under section 4 and 8 of the POCSO Act. The court convicted the accused under section 376 of IPC, when it was established the accused had maintained physical relationship with the victim without her consent.

The court, however, dropped the charges under POCSO Act when the prosecutor could not prove that the victim was younger than 18 years at the time of incident.

ASJ PAWAN

Kumar Jain observed that the "real test" was to establish whether the person had 'knowingly' indulged in sexual activities prohibited under POCSO Act

During her deposition, the principal of a school had said that at the time of admission, the victim's mother had furnished only an affidavit to show that the victim was born on October 25, 1997.

"It is very clear that no document regarding the date of birth of the victim was submitted to the school while getting the victim admitted in first standard. It becomes clear that there is no scintilla of evidence to show that either victim or any other person ever stated to the accused that victim was below 18 years of age," the court said.

Previously, the victim had alleged that she and the accused had developed sexual relations after he had promised to marry her. She alleged that on February 12, 2013, the accused had taken her to Kanpur, where they had spend a day in a rented room.

The victim had also stated that she wanted to live with the accused, and though they had not solemnised their marriage till date, she intended to marry him.

The victim said she was in love with the accused and wanted to marry him. However, she claimed that since they were both from different castes, her parents were against their marriage. That is why, she alleged, the two had decided to elope.

SATURDAY, AUGUST 9, 2014

Amending juvenile law

Legislative responses ought to be well thought-out, and lawmakers need to be wary of tinkering with existing laws because of moral panic over one incident. The idea of carving out an exception in the Juvenile Justice Act for children between the ages of 16 and 18 when they are accused of rape, murder, and other serious offences is completely retrograde. The Union Cabinet's approval for legislative changes that would allow juvenile justice boards to determine whether cases involving children of this age-group can be transferred to a criminal court is an inappropriate remedy for the problem of juveniles committing grave offences. First, such categorisation militates against the core principle that everyone should be treated as a child until the age of 18. The age has been fixed in law based on studies on child and adolescent behaviour and the UN Convention of the Rights of the Child. Secondly, making such children face an adult criminal court would mar the prospect of their rehabilitation and amount to denial of restorative justice. The main object of juvenile law is to preserve the scope for rehabilitation and prevent recidivism among young offenders. Even after the horrific gang-rape in Delhi in December 2012, the Supreme Court saw no reason to make exceptions to the present paradigm of juvenile justice. Nor did the Justice J.S. Verma Committee, which made far-reaching recommendations on the legal framework on cases involving sexual offences, think on those lines. Official crime data do not support the theory that juveniles are responsible for any rise in instances of sexual offences.

The case for revisiting the present law is unexceptionable. Courts, governments and activists have noted that the Juvenile Justice Act, 2000, though laudable in intent, had not fully achieved its objectives. The government's intention to introduce a fresh, comprehensive law that covers both children in conflict with the law and those in need of care and protection may be quite an appropriate response. In particular, the draft bill prepared by the Ministry of Women and Child Development contains forward-looking aspects. The National Commission for Protection of Child Rights has noted that the bill enunciates 'fundamental principles' for the care, protection and rehabilitation of and justice for children. Those in need of care and protection now include children living on the streets and child workers. Both corporal punishment and persistent verbal abuse will be prohibited. Provisions for finding foster care homes for children are aimed at ensuring mechanisms for non-institutional care. However, the time given for stakeholders to study the implications of the new bill is inadequate. The government will be well-advised to have wider consultations before enacting it into law.

The Indian Express, August 11, 2014, P. 3
(POCSO)

The Hindu, August 9, 2014, P. 8
(Juvenile Law)

Opinions differ on amendment to Juvenile Justice Act

STAFF REPORTER

GUWAHATI, Aug 20 – “Should we treat juveniles as adults in cases like rape, murder, etc?” – this pertinent question on the Cabinet decision of amending the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 to allow minors above the age of 16 who are involved in heinous crimes to be tried in the courts as adults raised many opinions at the ‘Thumb Print Conversation on Juvenile Justice’, which was held at Snehalaya Centre for Child Rights in Guwahati on Sunday.

The conversation was moderated by Bhaskar Jyoti Mahanta, Addl Director General of Assam Police, who has also been the Nodal Officer of an Assam Police project called Project Aashwas for the welfare of child victims of violence and insurgency in Assam.

The conversation was organised in association with Matri, an association of mothers and an associate of Snehalaya.

Mahanta said that the crux of the juvenile justice system was that they were sent to reform houses where they cannot be kept for more than three years. “Consistent propaganda was unleashed in the media after the Nirbhaya case,” he added.

Actor Kopil Bora pointed out that across Guwahati city,

a group of bike-riders speed away, and the age of most of these riders were between 14 to 16 years. “What kind of citizen will they become if each child is not reformed and guided? It is very frightening. These children who commit crime as a juvenile should be punished according to the gravity of the crime. Serious offences like rape, murder, etc., should be considered separately,” he felt.

Trying to understand the mind of a child committing such a crime is not an easy task. Dipesh Bhagawati, a Guwahati-based psychiatrist, said that a difficult childhood also generates a lot of angst sometimes. He added, “There are multiple problems. We try to self-negate ourselves. Abundance of alcohol is also one of the causes.”

Author and journalist Indrani Raimedhi said that the tremendous youth force that the nation has is not being put to good use. “Children are not getting opportunity. We need to bring a change. We should look at things in a compassionate manner. They are more victims than culprits,” she said.

Dr Sabina Ahmed, a paediatrician, too, was not in the favour of reducing the age of the child from 18 to 16.

Educationist Dr RN Goswami stressed the need for value-based education and felt that parents of such children should

also be held responsible. “In fact, parents can be deterred by some negative incentives in the government schemes that they avail of,” he said.

Sushant Ghosh, Director of SOS Village, felt that people from all walks of life should work together to prevent all kinds of crime.

Archana Goswami, one of the founders of Matri said, “We recommend reformation rather than punishment. If a 15-year-old goes for trial without considering whether the crime is heinous or not, it will not be right. The nature of crime should be taken into consideration.”

Many lawyers and activists oppose the amendment, which they see as a knee-jerk reaction against increased sexual violence in the country.

Father Lukose, founder of Snehalaya, called for more reformatory action rather than punitive action. “There is no evidence to show that the threat of punishment is an effective deterrent against sexual crimes. On the other hand, thrusting juveniles into the criminal justice system will only serve to harden them,” he said.

Rituparna Roychoudhury, a homemaker, stressed the need for making the special homes stringent, strictly rehabilitative, and “make them understand what they have done and how to mend their ways”.

The Assam Tribune, August 21, 2014, P. 7
(JJ Act)

Trafficked kids not offenders

HC: Should Not Be Tried Under Immoral Trafficking Act

Abhinav Garg
@timesgroup.com

New Delhi: At a time when the Centre wants to reduce the age of juvenility, the Delhi high court has extended protection under the Juvenile Justice Act to minors rescued during anti-trafficking raids.

The court has ruled that minors are victims, not offenders to be prosecuted under Immoral Trafficking (IT) Act. They should be governed by the welfare provisions of JJ Act and treated as “child” defined under it, instead of being punished for being “juveniles in conflict with law”. In essence, the court held that JJ Act will prevail over the IT Act as the former is a special law.

“The only answer to the second question formulated

earlier in this judgment is that a person under 18 years of age, who is recovered in police action under Sections 15 and 16 of the IT Act, has to be treated as a child in need of care and protection within the meaning of the expression under JJ Act 2000,” Justice Gita Mittal held in a recent judgment.

The ruling has far reaching implications since HC has interpreted provisions of two central acts to reach its conclusion, which will be binding for police and trial courts, at least in Delhi.

Even nationwide, in the absence of any contrary judgment by state high courts, Justice Mittal’s verdict lays down guiding principles to be followed by police in case of arrests/raids.

Interestingly, the petition-

er wasn’t an affected family or an NGO but the Delhi high court legal services committee. Through advocate V Madhukar, the committee challenged an order passed in 2009 by a metropolitan magistrate on custody of two minors recovered by police and dealt with by the court under IT Act. But,

‘APPLY JJ ACT’

HC appointed senior advocate Sandip Sethi as amicus and took into account the plea made by advocate Amit Chadha for welfare of the minors.

After exhaustive research of statutory provisions and international conventions, it formulated guidelines. It pointed out that a child is incapable of giving consent and any sexual behavior or activ-

ity involving a child renders the participating adult open to stringent penal action under several enactments. But “no penal liability vests on the child for the same”.

Such a child, HC clarified, (i.e. a child found begging, a working child or a child likely to be abused or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts or a child vulnerable to drug abuse or trafficking) “is not to be treated as an offender” but “as a victim within the meaning of the expression under the JJ Act.”

Lastly, it ruled that if a person rescued by police under the IT Act, and produced before a magistrate, appears to be under 18 years of age, such person will be immediately transferred to the Child Welfare Committee.

The Times of India, August, 2014, P. 7
(Immoral Trafficking Act)

Family laws must be kind to women: Panel

EXCLUSIVE

Moushumi Das Gupta

■ moushumi.gupta@hindustantimes.com

NEW DELHI: A high-level committee set up by the previous UPA government has sought an overhaul of family laws by recommending a ban on the practice of "oral, unilateral and triple talaq (divorce)" and polygamy and "mandatory payment of maintenance to wife and children" in the event of separation or divorce.

The report — titled "Women and the law: An assessment of family laws with focus on laws relating to

REPORT CALLS FOR BAN ON TRIPLE TALAQ AND POLYGAMY, MANDATORY MAINTENANCE AFTER DIVORCE, UNIFORMITY IN PERSONAL LAWS

marriage, divorce, custody, inheritance and succession" — was submitted to women and child development minister Maneka Gandhi recently. The view taken by it is close to the current BJP regime's position on a uniform civil code. Ministry officials refused to

comment, saying they were still going through the report.

The committee, headed by former Panjab University professor Dr Pam Rajput, examined the rights of women under the broad framework of Hindu, Muslim, Christian and Parsi law. Supporting uniformity in the minimum age for marriage for boys and girls (18 years), it recommended the passing of a "central enactment" for registration of marriages that is "applicable to all religious groups".

Another recommendation of uniformity dealt with a clause in the Hindu Marriage Act (HMA), 1955 on irretrievable breakdown of

marriage. This should not be made grounds for divorce until financial safeguards are in place, it said.

A bill (now lapsed) introduced in Parliament last year sought to cover this clause only in the HMA, 1955 and Special Marriage Act, 1954. But the report said, "If and when this amendment is introduced, irretrievable breakdown of marriage as grounds for divorce should also be introduced under the Divorce Act, 1969, Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 and Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 as well. It should be a general matrimonial relief available to all."

CONTINUED ON PAGE 8

Family laws must be kind to women: Panel

On Christian laws on divorce, it recommended amending the prescribed two-year period in mutual consent cases under the Divorce Act to one year, in order to ensure consistency in all related laws.

However, lawyer Kirti Singh, part of a core panel on legal issues set up by the committee, told HT, "We are not recommending uniform civil code or abolition of personal laws. But equality should be the basis of all personal law... We are also recommending that some laws like Right to Marital Property be framed for all women."

"Women are discriminated against in family laws. The report highlights this and what needs to be done to make them equal. After all, article 14 of our Constitution envisages equality, justice and dignity for women," said Rajput.

On Muslim law, the committee called for a "complete ban on oral, unilateral and triple divorce as

it renders wives extremely insecure regarding their marital status.... The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 should be amended and specific provisions introduced, making triple talaq and polygamy void. A provision should be added providing interim maintenance."

It also called for a minimum "meher" (mandatory payment to a bride before marriage by the groom's family) that should not be less than the groom's annual income.

Though the Supreme Court has held triple talaq to be illegal, it is still common practice.

On inheritance and succession laws in the community the report said, "A woman, Shia or Sunni, gets half the share of a man... There is a need to address such discriminatory practice."

It went on to recommend that section 125 of the CrPC be amended to include maintenance

for women in live-in relationships and for unmarried dependent daughters.

Suggesting changes to the Special Marriage Act, 1954, the committee said, "Notices (of intended marriages) should not be displayed on notice boards outside the registrar's office as it places young people, desirous of contracting a marriage of choice, at great risk."

Objecting to the 30-day notice period for couples wishing to get married under this law, it recommended bringing it down to seven days. "This provision serves no purpose except to delay the process and a couple wanting to marry in a hurry because of parental or other disapproval cannot afford to wait a full month."

The Act is a secular alternative to personal law for many couples who face difficulties in getting married, mostly due to matters of religion and caste.

**Hindustan Times, August 23, 2014, P. 1 & 8
(Family Laws)**



Free Press Journal, August 21, 2014, P. 2
(JJ Bill- Corporal Punishment)



5.4 Budget Allocation/Funding (Budget Allocation-Woman Safety Programme)

Delhi Police to get Rs 40 crore under women safety programme

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 10 August

Delhi Police will get Rs 40 crore to implement the United Nations Women Safe City project to put in place enhanced security apparatus for women in the national capital.

The amount, approved by the Department of Electronics and Information Technology with the assistance of World Bank, will be spent mainly to procure electronic gadgets to prevent crime against women and detect those involved in such crime.

CCTV cameras, surveillance equipment, high-speed vehicles with emergency gadgets will be purchased with the sanctioned funds.

"An amount of Rs 14.745 crore has already been granted to the Delhi Police as part of the first phase of the project," a Home Ministry official said. Interestingly, the fact-sheet on US-Japan Global and Regional Cooperation, released on April 25, 2014, makes a reference to the two countries' support to the UN Women Safe Cities Programme in Delhi, which is part of UN Women Safe City Free of Violence Against Women Global Programme. The announcement was made during the last visit of US President Barack Obama to Tokyo. The UN Entity for Gender Quality and Empowerment of Women has also approached the Delhi government for signing of an aspirational generalised Memorandum of Understanding for safe city programme for future collaboration. "The overall objective of this programme is to strive to eliminate violence against women and girls," the Home Ministry official said.

WHATSAPP HELPLINE TO CURB CORRUPTION

New Delhi, 10 August: Smartphones and the popular chat messenger - WhatsApp - in it has now turned into an effective weapon against errant policemen with Delhi Police launching a new anti-corruption helpline where one can send audio or video clips if any cop seeks bribe or harasses a person.

The new helpline number, 9910641064, has been started on August 6 where one can not only just call and register your complaint but also send a recorded audio or video clip if any police man harasses a person or demands bribe. "The new helpline was launched on August 6 and the response so far has been encouraging. People can do a sort of sting operation and send the audio or video clip on this number via WhatsApp," said Deputy Commissioner of Police (Vigilance) Sindhu Pillai. Delhi Police has given advertisements in all popular Hindi and English newspapers as well as on FM channels to raise awareness about the new helpline. The new helpline is the brainchild of Delhi Police Commissioner B S Bassi who wants the force to be corruption free.

"Once we get an audio or video clip, it will be checked at the Forensic Science Laboratory for its genuineness and once the authenticity is established, action will be taken against the errant policeman. So far we have got one genuine complaint and action is being taken in this regard," said Pillai. Anybody who will be found guilty in this connection will be booked under Section 7 (public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act) and Section 13 (criminal misconduct by a public servant) of the Prevention of Corruption Act and other sections under the Indian Penal Code.

The Statesman, August 11, 2014, P. 2
(Budget Allocation-Woman Safety Programme)

5.5 Schemes/Programme -Miscellaneous issues (Project-Shakti)

महिलाओं के खिलाफ अपराध का ब्योरा तैयार करेगी पुलिस



गुड़गांव में एमडीआई इंस्टीट्यूट के साथ करार पर साहज करते पुलिस कमिश्नर व एमडीआई के अधिकारी। -रूप गुड़गांव, 12 अगस्त (रूप)

महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं और अपराध दर का सही आकलन करने के लिए गुड़गांव पुलिस ने मंगलवार को संस्था एमडीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते पर गुड़गांव पुलिस की तरफ से पुलिस आयुक्त आलोक मिश्र और एमडीआई की तरफ से निदेशक प्रोफेसर मुकुल गुप्ता ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में हस्ताक्षर किए। पुलिस कमिश्नर आलोक मिश्र ने बताया कि समझौते में दो परियोजनाएं हैं, जिसमें से एक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाने के लिए 'शक्ति' और दूसरी परियोजना गुड़गांव में वैज्ञानिक तरीके से अपराध दर का आकलन करने के लिए क्राइम इंडेक्स तैयार करना है। इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 16 से 18 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

उनके अनुसार यह कार्य देश का अग्रणी प्रबंधन संस्थान एमडीआई करेगा और गुड़गांव पुलिस इस कार्य में उनका सहयोग करेगी। पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार एमडीआई फैकल्टी को उसके पास डाटा दिया जाएगा। क्राइम इंडेक्स तैयार करने के लिए पुलिस कमिश्नर आलोक मिश्र और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विवेक शर्मा एमडीआई की टीम के साथ सहयोग करेंगे।

डाटा तैयार करने की जरूरत इसलिए

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वर्तमान में गुड़गांव में अपराध दर का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। कहीं चैन झपटने की वारदात हो जाती है तो लोग कहने लग जाते हैं कि उस क्षेत्र में अपराध बढ़ गया है और यदि कुछ दिन अपराधिक घटना नहीं होती तो लोग मानने लग जाते हैं कि अपराध में कमी आई है। उन्होंने कहा कि एमडीआई की टीम गुड़गांव में आपराधिक घटनाओं के डाटा का अध्ययन करके क्राइम इंडेक्स तैयार करेगी। इसमें किन क्षेत्रों में वारदात की संख्या ज्यादा है, उसके पीछे कारण घटित होने का समय, वारदात करने वाले व्यक्तियों की आयु का अध्ययन किया जाएगा।

Dainik Tribune (H) , August 13, 2014, P. 3
(Project-Shakti)

Acknowledgement

<i>Guidance and Support</i>	:	Dr. Dinesh Paul Director
		Dr. Ashok Kumar Additional Director
<i>Project Incharge/s</i>	:	Dr. Neelam Bhatia Joint Director
		Vandana Sharma Assistant Director
<i>Compilation</i>	:	P. P.S. Sengar Associate Librarian
<i>Computer Assistance</i>	:	Sandeepa Computer Operator
<i>Assistance in Cutting and Pasting</i>	:	Chander Bhan